

स्वतंत्र वास्ता

वर्ष-27 अंक : 301 (हैदराबाद, निजामाबाद, विशाखापट्टणम, तिरुपति से प्रकाशित) माघ कृ.7 2079 शनिवार, 14 जनवरी 2023

एफआईआर दर्ज करने में 5 महीने क्यों लगे?

Festival Sweets
to
Share the Joy

Sweets
Specially Made
for Sankranti Festival

Swiss Castle®
Pure Veg. Cakes, Pastries, Cookies & Snacks
..... Spreading Happiness

swiggy zomato amazon

9059 222 491

सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में पुलिस से मांगा जवाब

नई दिल्ली, 13 जनवरी (एजेंसियां)। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में साल 2021 में एक कार्यक्रम के दौरान कथित हेट स्पीच मामले में पुलिस कार्रवाई को लेकर सवाल किया है। सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है कि मामले की जांच में कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है।

ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से इस पर जवाब मांग लिया है। बता दें कि घटना दिसंबर 2021 की है, जहां दिल्ली में एक धार्मिक सभा का आयोजन किया गया। इस आयोजन के तहत कथित तौर पर समुदाय विशेष के खिलाफ भड़काऊ बयानबाजी की गई। बता दें कि हेट स्पीच का यह

मामला दिसंबर 2021 का है लेकिन इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एफआईआर 4 मई को दर्ज की। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आपको एक एफआईआर दर्ज करने में 4 महीने का समय क्यों लगा, आपने अभी तक इस मामले में कितनी गिरफ्तारियां की हैं? मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच ने कहा कि मामले की जांच में अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इसके बाद बेंच ने दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज को दो हफ्ते में एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। **>14**

संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा एक फरवरी को बजट पेश करेंगी वित्त मंत्री



नई दिल्ली, 13 जनवरी (एजेंसियां)। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा। यह सत्र छह अप्रैल तक चलेगा। सत्र की शुरुआत लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र से होगी। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदनों को संबोधित करेंगी। यह उनका संसद के दोनों सदनों को पहला संबोधन होगा। जानकारी के मुताबिक, बजट

सत्र के पहले दिन दोनों सदनों में इकोनॉमिक सर्वे को पेश किया जाएगा। इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बजट एक फरवरी को पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होगा और सामान्य अवकाश के साथ 66 दिनों में 27 बैठकों के साथ 6 अप्रैल तक चलेगा। अमृत काल के बीच राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव, केंद्रीय बजट और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने बताया कि बजट सत्र 2023 के दौरान अवकाश 14 फरवरी से 12 मार्च तक रहेगा, ताकि विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समितियां अनुदान मांगों की जांच कर सकें और अपने मंत्रालयों और विभागों से संबंधित रिपोर्ट तैयार कर सकें।

NAMISHRREE
GOLD • DIAMONDS • SILVER
Trust that shines forever
ALWAYS WHOLESALE RATES IN RETAIL

Happy Makar Sankranti

Exclusive & Unique Collection of राजस्थानी, गुजराती ज्वेलरी
अपनी मेहनत की कमाई को सोने में निवेश करने से पहले कृपया अवश्य पढ़ें

GUARANTEED LOWEST WASTAGE NO MAKING CHARGES HIDDEN CHARGES (Inclusive of GST)

WE ARE OPEN ON SUNDAY

ALL EXCLUSIVE 91.6 HALLMARK JEWELLERY EXCLUSIVE SILVER ARTICLES AVAILABLE HERE

96-100% बाजूबंद | सभी प्रकार की चूड़ियां | बोर | ब्रेसलेट | चेन | गजरा गोखरू | हाथपान | कड़ा | कालीपोथ | कंदोरा | लॉकेट | माटिल नथ | नेकलेस | पेंडेंट सेट | पुंछी | रिंग | टिका | गोल्ड चश्मा टॉप्स | वडानम | हारम | टेपल ज्वेलरी | घड़िया

102% Exclusive Antique Imported Designer 91.6 Jewellery

84% Rose Gold Design Jewellery

8-1-383/1, R.P. Road, Beside Mahboob College, Patny Circle, Secunderabad - 500 003 T.S.
Web : www.namishrree.com | Email : namishrreejewels@gmail.com
Cell : 916 916 4417, 916 916 4427, 916 916 4437

QR CODE FOR GPS LOCATION

MARUTI SUZUKI ARENA

BUY BEFORE PRICE HIKE

मारुति सुज़ुकी एरीना के शानदार ऑफ़र्स का आनंद लीजिए और घर ले जाएँ अपनी पसंदीदा कार.

बड़ी बचत

ALTO ₹71 100*
CELERIO ₹60 100*

S-PRESSO ₹83 100*
ALTO K10 ₹81 100*

WAGONR ₹63 100*

ALTO S-PRESSO WAGONR CELERIO ALTO (K10)

E-book today at www.marutisuzuki.com or visit your nearest Maruti Suzuki dealership. | Maruti Suzuki vehicles are now available under CSD & CPC* | For bulk order, mail at: nishant.vijayvergia@maruti.co.in.

AUTHORISED DEALERS: **TELANGANA STATE:** VARUN: (NIZAMBAD) CALL: 8462236236, (KARIMNAGAR) CALL: 0878- 2950555. **HYDERABAD:** ADARSHA: (ATTAPUR) CALL: 8897973366, (KARMANGHAT) CALL: 8297576633. **KALYANI MOTORS:** (NACHARAM) CALL: 9100102157, (LB NAGAR) CALL: 9100102157. **GEM MOTORS:** (KONDAPUR) CALL: 9272506060. **ACER:** (TIRUMALGIRI) CALL: 9154073240. **AUTOFIN:** (BOWENPALLY) CALL: 040-67292222. **JAYABHERI:** (GACHIBOWLI) CALL: 8100823456. **PAVAN:** (SECUNDERABAD) CALL: 7093711199. **VARUN:** (BEGUMPET) CALL: 040-44607676, (BANJARA HILLS) CALL: 040-44887676, (KUKATPALLY) CALL: 040-44587676, (VANASTHALIPURAM) CALL: 040-24029979, (GACHIBOWLI) CALL: 040-49497676. **RKS:** (SOMAJIGUDA) CALL: 9848898488, (MALAKPET) CALL: 9848898488, (SECUNDERABAD) CALL: 9848898488, (KUSHAIGUDA) CALL: 9848898488. **MITHRA:** (HIMAYATHNAGAR) CALL: 040-27634444, (MEHDIPATNAM) CALL: 7799884949. **SAI SERVICE:** (ERRAGADDA) CALL: 7331168888, (MIYAPUR) CALL: 7331168888. **E-OUTLETS:** **SAI SERVICE:** (SANGAREDDY) CALL: 7331168888. **ADARSHA:** (SIDDIPET) CALL: 9581656633. **VARUN:** (MEDAK) CALL: 9703656111. **AUTOFIN:** (MEDCHAL) CALL: 8885040034. **PAVAN:** (IBRAHIMPATNAM) CALL: 7093711199.

*Offer includes consumer offer, retail support, exchange bonus, and corporate/ISL offer (wherever applicable). Above mentioned offer for Celerio is applicable on CNG variant only. Finance scheme details mentioned in the advertisement are at the sole discretion of financier and terms and conditions as specified by the financier shall apply. *Terms & Conditions apply. Creative visualization. The terms and conditions are subject to change without any prior notice. All offers are brought to you by Maruti Suzuki dealers only. Offers may vary from variant to variant. All offers shown are valid for limited period & for limited stock only. For more details, please contact your nearest ARENA dealership. Accessories and features shown in the pictures may not be a part of the standard equipment and may vary according to the variant. Black glass on the mirror is due to lightning effect. Colors shown may vary from actual body colors due to printing on paper. Images used are for illustration purposes only. Maruti Suzuki India Limited reserves the right to discontinue offers without notice. Price applicable on the date of invoice shall be applicable. *Above shown offers are applicable on MY- 2022 models only. Above offers are valid till 16th January 2023.

बीजेपी नेता मुरली मनोहर जोशी से गृह मंत्री अमित शाह ने की मुलाकात, पैर छूकर लिया आशीर्वाद

नई दिल्ली, 13 जनवरी (एजेंसियां)। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी के सीनियर नेता डॉ मुरली मनोहर जोशी से उनके घर पर जाकर मुलाकात की है। शाह ने इस मुलाकात की तस्वीरें साझा करते हुए ट्वीट किया और कहा, 'हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉ मुरली मनोहर जोशी से उनके आवास पर भेंटकर आशीर्वाद लिया और विभिन्न विषयों पर चर्चा की।' वहीं जोशी ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर शाह के साथ हुई मुलाकात की तस्वीरें



शेयर कीं और कहा, 'गृह मंत्री, भारत सरकार, अमित भाई शाह से आज आवास 6 रायसीना पर भेंट

।' बता दें कि मुरली मनोहर जोशी बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं और वाजपेयी सरकार में मंत्री भी

रहे। उन्होंने साल 1996 में बीजेपी की 13 दिनों की सरकार में गृह मंत्री का पद भी संभाला था। वह एनडीए सरकार में भारत के केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री थे। डॉ जोशी महज 10 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए थे। उन्होंने राजनीति में साल 1953-54 में पहली बार कदम रखा था। ये वो वक्त था जब गाय बचाओ आंदोलन में वह सक्रिय हुए थे। वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय में फिजिक्स के प्रोफेसर भी रह चुके हैं।

'13 दिन बाद पुलिस हत्या की धाराएं जोड़ने पर कर रही विचार' स्वाति मालीवाल बोलीं- हम पहले ही चीख रहे थे...



नई दिल्ली, 13 जनवरी (एजेंसियां)। दिल्ली के कंडावला-कांड में हर रोज नई बातें सामने आ रही हैं. पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही

है. अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने एक बार फिर जांच पर सवाल उठाए हैं. मालीवाल ने ट्वीट करके लिखा, 'अंजलि हत्या केस के 13 दिन बाद अब जाकर दिल्ली पुलिस मामले में हत्या की धाराएं जोड़ने पर विचार कर रही है.' उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पूरा देश चीख रहा था, हम चीख रहे थे लेकिन पुलिस ने अपना ढील रवैया नहीं छोड़ा. ऐसी जांच से क्या अंजलि को भी न्याय मिलेगा? सुल्तानपुरी के कंडावाला इलाके में 31 दिसंबर और 1 जनवरी की

रात एक सड़क हादसा हुआ था. हादसे में बलेंनो कार और स्कूटी की टक्कर हो गई थी, जिसमें स्कूटी सवार लड़की गाड़ी के नीचे आकर फंस गई थी और करीब 12 किलोमीटर तक वह धिसटती चली गई. पुलिस ने अंजलि की मौत के मामले में अमित खन्ना, दीपक खन्ना, मिथुन, कृष्ण, और मनोज मितल नाम के आरोपियों को रविवार (1 जनवरी) सुबह गिरफ्तार कर लिया था. हादसे से सम्पर्क स्कूटी पर अंजलि के साथ उसकी दोस्त निधि भी थी.

निधि पर भी गहराता जा रहा है शक अंजलि के साथ आखिरी समय पर मौजूद निधि ने बताया कि उसने ड्रिंक की हुई थी. उसकी अंजलि से लड़ाई भी हुई थी. इसके बाद निधि पर भी सवाल उठे रहें हैं वो कार से स्कूटी टकराने के बाद पुलिस के पास क्यों नहीं गई? अंजलि की मां ने भी कहा कि वो निधि को नहीं जानती है. पुलिस का निधि पर भी शक गहराता जा रहा है. मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है.

बड़गाम जिले के मजहामा स्टेशन पर ट्रेन पटरी से उतरी, सभी यात्री सुरक्षित

श्रीनगर, 13 जनवरी (एजेंसियां)। मध्य कश्मीर के बड़गाम जिले में मजहामा के पास ट्रेन पटरी से उतर गई। इससे यात्रियों में हड़कंप मच गया। हादसे में फिलहाल किसी भी प्रकार के नुकसान की जानकारी नहीं है। प्राथमिक तौर पर किसी प्रकार की तकनीकी गड़बड़ी भी हो सकती है। इसके अलावा बर्फबारी के कारण फिसलन भी कारण बन सकता है। प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि घटना में किसी भी यात्री को नुकसान नहीं हुआ है।

स्कूलों में कोई 'सर' या 'मैडम' नहीं

केवल 'टीचर' : केरल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग तिरुवनंतपुरम, 13 जनवरी (एजेंसियां)। केरल राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग (केएससीपीसीआर) ने राज्य के सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे स्कूल के शिक्षकों को उनके लिंग की परवाह किए बिना 'सर' या 'मैडम' के बजाय टीचर ('शिक्षक') के रूप में संबोधित करें. केरल बाल अधिकार पैनल ने निर्देशित किया कि संबोधित करने के लिए 'सर' या 'मैडम' जैसे मानदण्डों का तुलना में 'टीचर' अधिक लिंग-तटस्थ शब्द है. केएससीपीसीआर के आदेश में सर और मैडम जैसे शब्दों को बुलाने से बचने का भी उल्लेख किया गया है. पैनल के अध्यक्ष केवी मनोज कुमार

और सदस्य सी विजयकुमार की पीठ ने बुधवार को सामान्य शिक्षा विभाग को राज्य के सभी स्कूलों में 'टीचर' शब्द का इस्तेमाल करने के निर्देश देने का निर्देश दिया. बाल अधिकार आयोग ने यह भी कहा कि सर या मैडम के बजाय र्टीचरर कहने से सभी स्कूलों के बच्चों के बीच समानता बनाए रखने में मदद मिल सकती है और शिक्षकों के प्रति उनका लगाव भी बढ़ेगा. सूत्रों के अनुसार, शिक्षकों को उनके लिंग के अनुसार 'सर' और 'मैडम' संबोधित करते हुए भेदभाव को समाप्त करने की मांग करने वाले एक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर विचार करते हुए निर्देश दिया गया था.



नई दिल्ली, 13 जनवरी (एजेंसियां)। तमिलनाडु में स्थालिन बनाम राज्यपाल रवि विवाद अब राष्ट्रपति तक पहुंच गया है। इस बीच राज्यसभा सांसद संजय राउत ने शिवसेना के मुखपत्र 'सामना' में तंज कसा

ढाकरे सरकार में पापड़ की तरह तड़तड़ाते थे...बोले राउत

है। उन्होंने कहा है कि देश के आधा दर्जन राज्यों में सरकार बनाम राज्यपाल का टकराव बढ़ गया है और यह सभी गैर-भाजपा शसित राज्य हैं। उन्होंने आगे कहा कि राजभवनों को भाजपा के लोगों ने अपना कार्यालय बना लिया है और वे सरकार पर नियंत्रण रखने की कोशिश कर रहे हैं। सामना में उन्होंने कहा, तमिलनाडु में भी राज्यपाल विरुद्ध सरकार का संघर्ष छिड़ा हुआ है। जो महाराष्ट्र में चल रहा है, वहीं दूसरे रूप में तमिलनाडु में दिखाई दे रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि महाराष्ट्र में राज्यपाल द्वारा छत्रपति शिवाजी का अपमान

किए जाने के बाद भी सरकार व मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन तमिलनाडु में राज्यपाल द्वारा रामासामी पेरियार, डॉ. आंबेडकर, करुणानिधि जैसे महापुरुषों का अपमान करते ही मुख्यमंत्री स्थालिन ने विधानसभा में ही राज्यपाल के सामने स्वाभिमानी तैवर दिखाया, वह काबिलेतारीफ है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्थालिन ने राज्यपाल से संघर्ष किया और तमिल अस्मिता के लिए केंद्र से पंगा भी ले लिया।

पापड़ की तरह तड़तड़ाते थे महाराष्ट्र के राज्यपाल

राउत ने आगे कहा, तमिलनाडु के

राज्यपाल रवि सूट-बूट वाले भगतसिंह कोश्यारी हैं। महाराष्ट्र में 'ढाकरे सरकार' के समय मौजूदा राज्यपाल खोलते तेल में पापड़ की तरह तड़तड़ाते थे। सरकार के कई फैसलों पर आपत्ति जताते हुए मुख्यमंत्री को पत्र के माध्यम से मार्गदर्शन करते थे। सरकारी फैसलों और सिफारिशों को टाल देते थे। उन्होंने विधान परिषद के 12 मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति को भी लटककर रखा। लेकिन जैसे ही राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ, वे तड़तड़ाने वाले राज्यपाल कहीं दिखाई नहीं देते। राज्यपाल की अब ठंडी कुल्फी बन गई है।

सफेद हाथी बेकाबू होने लगे हैं

सामना में राउत ने आगे कहा, राज्यपाल संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। वे केंद्र और राज्य के बीच एक कड़ी के रूप में अपना कर्तव्य निभाते हैं। उम्मीत है कि ये सफेद हाथी संविधान के दायरे में रहकर काम करें। लेकिन ये सफेद हाथी अब बेकाबू होने लगे हैं। उन्होंने कहा, शिवसेना प्रमुख बालासाहेब ठाकरे मराठी लोगों को एक मंत्र हमेशा देते थे, वह मतलब 'दक्षिण के लोगों की जातीयता और मुसलमानों की कट्टरता जब तक आपके शरीर में नहीं घुलती महाराष्ट्र का उत्थान नहीं होगा।

प्रत्यर्पण से बचने के लिए भगोड़ा चौकसी एंटीगुआ में ख रहा साजिश रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा



नई दिल्ली, 13 जनवरी (एजेंसियां)। पीएनबी बैंक घोटाले में आरोपी और भारत के मोस्ट वांटेड भगोड़े मेहुल चौकसी को एंटीगुआ से भारत प्रत्यर्पित करने की कोशिशें हो रही हैं। अब खबर आई है कि मेहुल चौकसी भारत प्रत्यर्पित होने से बचने के लिए एंटीगुआ के बड़े अधिकारियों को रिश्वत दे रहा है। मशहूर आर्थिक अपराध जांचकर्ता केनेथ रिजोक ने अपनी रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला खुलासा किया है। रिजोक ने बताया ने ब्लॉगर पर लिखे अपने एक लेख में बताया है कि मेहुल

रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा

चौकसी एंटीगुआ के अधिकारियों को डॉलर में करोड़ों रुपए की रिश्वत दे रहा है ताकि वह उसके भारत प्रत्यर्पण को टाल सके। केनेथ रिजोक ने बताया कि चौकसी गैरकानूनी तरीके से एंटीगुआ की अदालत में उसके प्रत्यर्पण के मामले पर सुनवाई को टालने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए वह एंटीगुआ के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी एडोनिस हेनरी और एंटीगुआ मजिस्ट्रेट को रिश्वत देकर मेहुल चौकसी अपने भारत प्रत्यर्पण मामले पर सुनवाई को अनिश्चितकाल के लिए टालना चाहता है। रिजोक ने दावा किया है कि एंटीगुआ पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी और जज मिलकर ऐसी साजिश रच रहे हैं, जिससे मेहुल चौकसी का

भारत प्रत्यर्पण टाला जा सके या फिर इसमें अनिश्चितकाल की देरी हो सके। बता दें कि एंटीगुआ के साथ भारत सरकार की प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू होने के बाद मेहुल चौकसी ने क्यूबा भागने की कोशिश की थी क्योंकि भारत का क्यूबा के साथ संधि समझौता नहीं है। हालांकि मेहुल चौकसी उसमें सफल नहीं हो सका। भारत से फरार होने के बाद मेहुल चौकसी ने एंटीगुआ के आधार पर नागरिकता ले ली। अब इंटरपोल ने चौकसी के खिलाफ रेड नोटिस जारी किया है। प्रत्यर्पण की मांग करने वाले देश की अपील पर इंटरपोल महासचिव रेड नोटिस जारी करते हैं। रेड नोटिस के तहत भगोड़े का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने की कवायद की जाती है। हालांकि यह इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट नहीं माना जाता है।

पीएनबी घोटाले में वांछित है चौकसी

बता दें कि साल 2018 में पंजाब नेशनल बैंक में 13,578 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का खुलासा हुआ था। इस मामले में अरबपति हौरा कारोबारी नीरव मोदी और उसका मामा मेहुल चौकसी आरोपी हैं। आरोपियों ने साल 2011 में बिना तराशे हीरे आयात करने के लिए पंजाब नेशनल बैंक की एक ब्रांच से लाइन ऑफ क्रेडिट लिया। जिसके तहत बैंक के कर्मचारियों ने फर्जीवाड़े से दोनों को लाइन ऑफ अंडरटेकिंग जारी किए। इस घोटाले में सीबीआई ने पहली एफआईआर 30 जनवरी को दर्ज की थी लेकिन उससे पहले ही दोनों आरोपी देश छोड़कर फरार हो गए। नीरव मोदी को लंदन से गिरफ्तार किया गया और मेहुल चौकसी एंटीगुआ में है। भारत सरकार दोनों के भारत प्रत्यर्पण की कोशिशों में जुटी है।

कंधा टकसाने पर युवक की चाकू से हत्या

भागते वक्त रिक्शा चालक पर भी हमला... आखिरकार गिरफ्तार

नई दिल्ली, 13 जनवरी (एजेंसियां)। अशोक विहार इलाके में कंधा टकसाने पर पड़ोसी ने एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद भाग रहा आरोपी एक रिक्शा चालक से टकरा गया। रिक्शा चालक के विरोध करने पर आरोपी ने उसपर भी चाकू से हमला कर उसे बुरी तरह से घायल कर दिया और फरार हो गया। दोनों घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया,जबकि रिक्शा चालक का गंभीर अवस्था में इलाज चल रहा है। पुलिस ने रिक्शा चालक के बयान पर हत्या और हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

बेंगलुरु में मेट्रो पिलर गिरने से दो लोगों की मौत के मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान



बेंगलुरु, 13 जनवरी (एजेंसियां)। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बेंगलुरु मेट्रो हादसे का संज्ञान लिया है, जिसमें एक महिला और उसके दो साल के बेटे की मौत हो गई थी. दरअसल बेंगलुरु में निर्माणाधीन मेट्रो का एक खंभा मंगलवार को चार लोगों के परिवार पर गिर गया था. जिससे एक महिला और उसके ढाई साल के बेटे की मौत हो गई थी. जबकि उसका पति और एक अन्य बच्चा घायल हुआ था. घटना बेंगलुरु में एचबीआर लेआउट के पास आउटर रिंग रोड पर सुबह करीब साढ़े 10

बजे हुई थी. “नम्मा मेट्रो” (बेंगलुरु मेट्रो) के वास्ते कंक्रीट के खंभे को खड़ा करने के लिए की गई स्टील रॉड सेंटरिंग उनके स्कूटर पर गिर गई थी. खंभे की ऊंचाई 40 फुट से ज्यादा और वजन कई टन था. इस मामले में नागार्जुन विनिर्माण कंपनी (एनसीसी), उसके पांच अधिकारियों और बेंगलुरु मेट्रो रेल निगम लिमिटेड (बीएमआरसीएल) के दो अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. एनसीसी को पहला आरोपी (ए1) बताया गया है, और उसके बाद उसके अधिकारियों

को भी आरोपी बनाया गया है. मेट्रो के इस निर्माण कार्य का ठेका एनसीसी के पास है. घटना के बाद बीएमआरसीएल (बेंगलुरु मेट्रो) के तीन अधिकारियों को निलंबित भी कर दिया गया है. वहीं आईआईटी हैदराबाद के अधिकारियों को निर्माण के लिए उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल का सर्वेक्षण और निरीक्षण किया था. बीएमआरसीएल, प्रबंध निदेशक,अंजुम प्रियदर्श ने इस घटना को 'दुर्भाग्यपूर्ण' बताया हुए कहा था किवे एक ऑंतरिक ऑडिट भी शुरू करेंगे. हमारे इंजीनियर की रिपोर्ट के अनुसार, मानक प्रोटोकॉल के अनुसार सभी सुरक्षा उपाय किए गए थे, लेकिन फिर भी घटना हुई है. इसलिए हमें तथ्य खोजने का काम करना होगा. क्या कोई मानवीय लापरवाही या तकनीकी समस्या थी, हम इसका पता लगाएंगे.

रविंद्रा अस्पताल के बाहर बिरयानी की रेहड़ी लगाने वाले ने दिया या वारदात को अंजाम, दो आरोपी गिरफ्तार

हिसार, 13 जनवरी (एजेंसियां)। हिसार के वरिष्ठ डॉक्टर रविंद्र गुप्ता से मारपीट तथा अपहरण प्रयास में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह ने बताया कि रविंद्रा अस्पताल के पास बिरयानी की रेहड़ी लगाने वाले लोकेश ने अपने दो साथियों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। शुरुआती पूछताछ में सामने आया है कि लूटपाट के इरादे से वारदात को अंजाम दिया गया था। डॉ. रविंद्र गुप्ता ने अपहरण के प्रयास के आरोप लगाए हैं उस एंगल से भी पुलिस अपनी छानबीन करेगी। पकड़े गए लोकेश तथा उसके साथी जितेंद्र को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा और वारदात में शामिल तीसरे आरोपी सक्ति का पता लगाया जाएगा।

यवतमाल में कोयले की अवैध बिक्री, पुलिस ने करोड़ों के कोयले के 8 ट्रक किए जब्त

मुंबई, 13 जनवरी (एजेंसियां)। महाराष्ट्र के यवतमाल से एक मामला सामने आया है. स्थानीय वणी पुलिस और ब्रकम ब्रांच के अधिकारियों ने केंद्र सरकार को रॉयल्टी का भुगतान किए बिना अवैध कोयले की अवैध रूप से ट्रांसपोर्टेशन करने वाले ठेकेदार के आठ ट्रकों को ज़ब्त कर लिया है. वणी पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक और मामले के जांच अधिकारी प्रदीप सिरस्कर ने बताया कि उनकी टीम को एक गुप्त सूचना मिली थी कि इस तरह से अवैध रूप से रॉयल्टी चुराया जा रहा है जिसके बाद, वणी पुलिस और एलसीबी (लोकल क्राइम ब्रांच) ने बुधवार सुबह मुकुटबन और वणी शहर के आसपास बड़े

पैमाने पर कार्रवाई शुरू की और हर ट्रक की जाँच करना शुरू किया था. सिरस्कर ने बताया, जिन ट्रकों को रोक गया है उनपर आरोप है कि वे भारत सरकार को रॉयल्टी का भुगतान किए बिना अवैध तरीके से कोयले को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे. यवतमाल पुलिस का ये भी शक है कि ठेकेदार द्वारा जीएस्टी और उसके बाद आयकर की चोरी का भी इसमें मामला हो सकता है. पुलिस ने बताया, एक ट्रक से बरामद कोयले की कीमत करीबन 20 लाख 80 हजार रुपये की है. जबकि आठ ट्रकों की कुल कीमत लगभग 1.70 करोड़ रुपये है. वानी पुलिस ने बताया कि कोयले का संबंध बीएस इस्पात नाम की एक कंपनी से है.

केंद्रीय मंत्री ने दी मरीं चन्ना रेड्डी को श्रद्धांजलि



हैदराबाद, 13 जनवरी (स्वतंत्र वार्ता)। प्रदेश भाजपा नेताओं ने यहां इंदिरा पार्क के रॉक गार्डन में डॉ. एम. चन्ना रेड्डी की जयंती मनाई। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी. किशन रेड्डी, राज्यसभा सांसद डॉ. के. लक्ष्मण, पूर्व सांसद विवेक वेंकटस्वामी और कौंडा विश्वेश्वर रेड्डी और अन्य ने समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर नेताओं ने चन्ना रेड्डी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर बोलते हुए, एमपी लक्ष्मण ने याद किया कि चन्ना रेड्डी उन सभी लोगों की मदद करते

थे, जो उनकी पार्टी से जुड़े होने के बावजूद उनके निवास पर मदद मांगने आते थे। उन्होंने कहा कि चन्ना रेड्डी ने पुराने शहर में दंगों के दौरान आधी रात तक उनसे बात करके उनकी समस्याओं को हल किया। उन्होंने आरोप लगाया कि तेलंगाना में लोगों की समस्याओं का समाधान करने वाला कोई नहीं है।

कौंडा विश्वेश्वर रेड्डी और विवेक वेंकटस्वामी ने भी बात की।

उधर, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने गांधी भवन में पूर्व सीएम के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की।

कार्यक्रम में टीपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष एम. अंजन कुमार यादव, टीपीसीसी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष जी. निरंजन, टी. कुमार राव और चन्ना रेड्डी के पोते शादी आदित्य रेड्डी ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर बोलते हुए, कांग्रेस नेताओं ने डॉ. चन्ना रेड्डी द्वारा उनके जीवन काल में प्रदान की गई सेवाओं को याद किया। टीपीसीसी के महासचिव मानवता राय, पार्टी नेता आलम भास्कर, कृष्ण कुमार, बाबू राव और पूर्व नगरसेवक अय्यब ने भी इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया।

थैलेसीमियामुक्त महबूबनगर के लिए टीएससीएस का प्रशिक्षण कार्यक्रम



हैदराबाद, 13 जनवरी (स्वतंत्र वार्ता)। थैलेसीमिया एंड सिकल सेल सोसाइटी (टीएससीएस) ने एक पंजीकृत गैर-लाभकारी संगठन के रूप में महबूबनगर में चिकित्सा अधिकारियों, एनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। जिला परिषद हाल में आयोजित उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में तेलंगाना सरकार के मध्य निषेध और उत्पाद मंत्री डॉ. वी. श्रीनिवास गोड ने भाग लिया। साथ में विशिष्ट अतिथि के रूप में अतिरिक्त कलेक्टर, महबूबनगर तेजस नंदलाल पवार भी मौजूद थे। यह प्रशिक्षण शीघ्र भविष्य में महबूबनगर को थैलेसीमिया मुक्त जिला बनने में मदद करेगा। महबूबनगर जिले को पूरे तेलंगाना में घातक आनुवंशिक रक्त विकार - "थैलेसीमिया" से पूरी तरह मुक्त करने वाला पहला जिला बनने में सफल बनाने के लिए पहल की जा रही है। थैलेसीमिया से पीड़ित रोगियों विशेषकर बच्चों के लिए विशेष सहायता प्रदान करते हुए टीएससीएस हैदराबाद इस बीमारी को हमेशा के लिए खत्म करने के प्रयास में सबसे आगे है। टीएससीएस के अध्यक्ष चंद्रकांत अग्रवाल ने उद्घाटन के समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि

थैलेसीमिया रोगियों की सेवा कर रहा है और अब तक सोसायटी के साथ 3300 से अधिक रोगी पंजीकृत हैं। थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया की रोकथाम के लिए महबूबनगर जिले में चिकित्सा अधिकारियों, एनएम, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए अपनी तरह की पहली पहल के रूप में गर्भवती महिलाओं की प्रसवपूर्व जांच परियोजना शुरू की जा रही है। इससे आयोजक शीघ्र भविष्य में थैलेसीमिया मुक्त महबूबनगर की उम्मीद कर रहे हैं।

रिश्वत लेने के आरोप में अंबरपेट सीआई सुधाकर गिरफ्तार



हैदराबाद, 13 जनवरी (स्वतंत्र वार्ता)। अंबरपेट सीआई सुधाकर को पुलिस ने किया गिरफ्तार किया है। इस बारे में मिली जानकारी के मुताबिक, वनस्थलीपुरम पुलिस ने हैदराबाद में अंबरपेट के सीआई सुधाकर को गिरफ्तार किया। उन्हें जमीन विवाद में गिरफ्तार किया गया। वनस्थलीपुरम पुलिस ने एनआरआई के साथ धोखाधड़ी करने की शिकायत पर सीआई सुधाकर के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। आरोप है कि सीआई सुधाकर ने महेश्वरम में जमीन देने के एवज में 54 लाख रुपये रिश्त के रूप में वसूले हैं। ऐसा लगता है कि एनआरआई ने चार दिन से भी कम समय पहले वनस्थलीपुरम पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी और पुलिस ने गहन जांच के बाद सीआई को गिरफ्तार कर लिया था। उसे रिमांड पर लेने की तैयारी की जा रही है। पता चला है कि सीआई ने एनआरआई पर दबाव बनाया कि अगर वह उसके बताए स्थान पर जमीन खरीदेगा तो भविष्य में उसकी कीमत बढ़ जाएगी। यह पता चला कि एक नकली एमआरओ को मैदान में उतारा गया और एनआरआई को यह विश्वास दिलाने की कोशिश की गई कि वह जल्द ही आरडीओ बन जाएगा। एनआरआई ने अपनी शिकायत में कहा है कि 54 लाख रुपये लेने के बाद सीआई सुधाकर व अन्य लोगों ने जमीन नहीं देने और रुपये नहीं लौटाकर प्रताड़ित किया। इसके चलते इस बारे में आगे की जांच जारी है।

सीएम केसीआर से मिले ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री



हैदराबाद, 13 जनवरी (स्वतंत्र वार्ता)। ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री गिरिधर गमांग ने शुक्रवार को यहां प्रगति भवन में मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव से मुलाकात की। शिष्टाचार मुलाकात में गिरिधर गमांग के पुत्र शिशिर गमांग सहित अन्य मौजूद थे। बैठक के दौरान, दोनों नेताओं ने कथित तौर पर देश में मौजूदा राजनीतिक स्थिति और आने वाले दिनों में भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की कार्य योजना के बारे में चर्चा की।

एसीबी के जाल में बहादुरपुरा एसआई

हैदराबाद, 13 जनवरी (स्वतंत्र वार्ता)। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर आर. सावन कुमार को आज रंग हाथ पकड़ा गया जब उसने कथित तौर पर शिकायतकर्ता एमडी मुजीब से अपने बेटे को धोखाधड़ी का मामला में बचाने और बेटे का सेल फोन वापस करने के लिए 8,000 रुपये की रिश्त मांगी और स्वीकार की। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारियों ने रासायनिक परीक्षण के बाद आरोपी के कब्जे से आठ हजार रुपये की अवैध नकदी बरामद की। एसीबी महानिदेशक ने कहा कि आरोपी अधिकारी ने अवैध संतुष्टि प्राप्त करने के लिए अनुचित और बेईमानी से अपना कर्तव्य निभाया। एओ आर. श्रवण कुमार को एसपीई और एसीबी मामलों के प्रधान विशेष न्यायाधीश, नामपल्ली के समक्ष गिरफ्तार कर पेश किया गया। किसी भी लोक सेवक द्वारा रिश्त की मांग के मामले में, एसीबी डीजी ने कानून के अनुसार कार्रवाई करने के लिए जनता से टोल फ्री नंबर 1064 पर संपर्क करने का अनुरोध किया।



"तेलंगाना-भूमि और लोग-खंड II" पर पुस्तक का विमोचन



हैदराबाद, 13 जनवरी (स्वतंत्र वार्ता)। डॉ. एमसीआर एचआरडी संस्थान और सरकार के डीजी व प्रमुख सचिव तेलंगाना सरकार बेन्हूर महेश दत्त एक्का ने "तेलंगाना-भूमि और लोग, खंड II, शीर्षक से एक पुस्तक जारी की। यह पुस्तक तेलंगाना सरकार के पूर्व सलाहकार डॉ. एके गोयल, (सेवानिवृत्त), प्रोफेसर रेखा पांडे, पूर्व प्रमुख, इतिहास विभाग और महिला अध्ययन केंद्र, हैदराबाद विश्वविद्यालय, डॉ.

रावुलपति माधवी, एसोसिएट प्रोफेसर ला, प्रमुख, डा. एमसीआर संस्थान लोक प्रशासन केंद्र, डॉ. जरीना परवीन, निदेशक, तेलंगाना राज्य अभिलेखागार और गौरवशाली संस्कृति के बारे में तेलंगानावासियों की समझ को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। डॉ. एके गोयल (सेवानिवृत्त आईएएस) ने कहा कि डॉ. एमसीआर एचआरडी संस्थान तेलंगाना राज्य के कर्मचारियों के लिए तेलंगाना अभिविन्यास पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित कर रहा है। डॉ. रावुलपति माधवी ने कहा कि भले ही शासक 1323 सीई से 1724 सीई के दौरान मुस्लिम थे, उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के व्यक्तिगत कानूनों को समान सम्मान दिया और न्याय प्रशासन उनकी भावनाओं के अनुसार था।

करने के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध है", उन्होंने कहा और कहा कि तेलंगाना-भूमि और लोग, खंड II पर पुस्तक दुनिया भर में उनके शानदार इतिहास और गौरवशाली संस्कृति के बारे में तेलंगानावासियों की समझ को तेज करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। डॉ. एके गोयल (सेवानिवृत्त आईएएस) ने कहा कि डॉ. एमसीआर एचआरडी संस्थान तेलंगाना राज्य के कर्मचारियों के लिए तेलंगाना अभिविन्यास पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित कर रहा है। डॉ. रावुलपति माधवी ने कहा कि भले ही शासक 1323 सीई से 1724 सीई के दौरान मुस्लिम थे, उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के व्यक्तिगत कानूनों को समान सम्मान दिया और न्याय प्रशासन उनकी भावनाओं के अनुसार था।

कंटी वेलुगु कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए रहें तैयार : करीमनगर कलेक्टर

करीमनगर, 13 जनवरी (स्वतंत्र वार्ता)। कलेक्टर आरवी कर्णन ने कांटी वेलुगु कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अधिकारियों से अच्छी तरह तैयार रहने को कहा। उन्होंने शुक्रवार को थिम्मापुर मंडल के चिगुलमामिडी, मुल्कनूर और रामकृष्ण कॉलोनी में कांटी वेलुगु केंद्रों का दौरा किया। इस अवसर पर बोलते हुए, कर्णन ने अधिकारियों को सलाह दी कि 18 जनवरी से लोगों की आंखों की जांच में आने वाली किसी भी कठिनाई से निपटने के लिए तैयार रहें। कार्यक्रम के बारे में लोगों को शिक्षित करने के अलावा, पीने के पानी, बैठने की व्यवस्था, शामियाने, रोशनी, रोशनी जैसी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। केंद्रों पर जनता की सुविधा के लिए पंखे व अन्य की भी व्यवस्था की जाए। उन्होंने कर्मचारियों को सलाह दी कि वे टैब में अपना विवरण दर्ज करने के बाद ही लोगों को नेत्र परीक्षण की अनुमति दें।

मौके पर ही जरूरतमंदों को चश्मा उपलब्ध कराने के लिए कंपनी को ऑर्डर दिया जाएगा। कलेक्टर ने अधिकारियों को कांटी वेलुगु में लगे कर्मचारियों को आवास, भोजन और परिवहन सुविधाएं प्रदान करने का भी निर्देश दिया।

उन्होंने आशा व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए उन्हें जनता के अलावा अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखने की सलाह दी। सभी कर्मचारियों को खून की कमी की जांच करानी चाहिए और खून की कमी होने पर आयरन टेबल लेनी चाहिए। उन्हें ए-शील्ड मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने का निर्देश देते हुए, उन्होंने कहा कि एनीमिक मुक्त जिला कार्यक्रम, ए-शील्ड जनता तक तब पहुंचेगा जब केवल आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को कार्यक्रमों के बारे में स्पष्ट जानकारी होगी। मंडल विशेष अधिकारी नेतिन्याल, तहसीलदार मो. मुबीन (चिगुलमामिडी) व कनकैया (थिम्मापुर), एमपीडीओ नरसिहा, एपीओ श्रवण कुमार, चिकित्सा अधिकारी धर्म नाईक व अन्य उपस्थित थे।

एक शाम श्री खेतारामजी महाराज के नाम प्रवचन सम्पन्न



हैदराबाद, 13 जनवरी (स्वतंत्र वार्ता)। डी.वी.कॉलोनी तैरापंथ भवन स्थित बांकलिया राजपुरोहित परिवार द्वारा आयोजित एक शाम श्री खेतारामजी महाराज के नाम गादीपति श्री ब्रह्म सावित्री सिद्ध पीठाधीश्वर खेतेश्वर ब्रह्मधाम तीर्थ आसोतरा के गुरुवर श्री तुलसारामजी महाराज के सांनिध्य में श्री खेतारामजी महाराज की तस्वीर पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलितकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। आयोजक गजेन्द्रसिंह निम्बोल ने बताया कि दाता श्री तुलसारामजी महाराज के नगरागमन पर दर्शन, प्रवचन, भजनों व महाप्रसादी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ 6.15 बजे से राजेश शर्मा की मधुर आवाज में श्री खेतारामजी महाराज के चरणों में भजनों के पुष्प अर्पित किये गये। तस्वीर पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन के पश्चात् रात्रि 8.15 बजे गुरुवर श्री तुलसारामजी महाराज के मुखरिबंद से प्रवचन कार्यक्रम आयोजित किया गया।

प्रवचन के दौरान समाज बन्धुओं को एकता व संस्कारों से रहने की हिदायत देते हुए बताया कि समाज बन्धुओं व भक्तों को कर्म भूमि के साथ अपनी जन्मभूमि को भी नहीं भूलना चाहिए। अवसर पर कार्यक्रम आयोजक गजेन्द्रसिंह निम्बोल (अध्यक्ष श्री खेतेश्वर गोशाला निम्बोल, उपाध्यक्ष श्री आत्मधाम सेवा समिति बाड़वा) को राजपुरोहित पंचायत भवन संस्थान पुष्कर का अध्यक्ष निर्वाचित होने पर पुष्प-माला पहनाकर शुभकामनाएं दीं। पधारं भक्तों व महिलाओं ने गुरुवर से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आयोजकों द्वारा की गयी महाप्रसादी की विशेष व्यवस्था का सपरिवार लाभ लिया। विशेष प्रवचन पर भजन कार्यक्रम में समाज के गणमान्य हरिसिंह, तेजसिंह सेवड, शंकरसिंह दोनडी ढाणी, अशोकसिंह राजगुरु, लक्ष्मणसिंह, नारायणसिंह निमाज, प्रेमसिंह देसलसर, बाबुसिंह (बीबीसी) महिलावास,

लक्ष्मणसिंह भैसाणा, शम्भुसिंह, विजयसिंह, मांगूसिंह, चैनसिंह राजपुरोहित, श्रवणकुमार प्रजापत, नेमीचन्द लखारा, तेलंगाना ज्वैलर्स एंड पॉन ब्रोकर्स एसोशिएशन अध्यक्ष पारसमल रांका, जगदीश वर्मा, सतपाल ढाडिया, व बहुत से समाज बन्धु, भक्तगण कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम के सफल आयोजन में श्री बालाजी डेयरी प्रोडक्ट्स के रामसिंह, गजेन्द्रसिंह, पारससिंह, भगवानसिंह, हेमन्द्रसिंह, जयपालसिंह, पियुषसिंह, विरेन्द्रसिंह, गोरू, हर्ष, बिरबलसिंह बांकलिया राजपुरोहित (निम्बोल) व कार्यक्रम व्यवस्था में नारायणसिंह राजपुरोहित निमाज, परबत सोलंकी का विशेष सहयोग रहा। आयोजक गजेन्द्रसिंह निम्बोल ने गुरुवरश्री के चरणों में श्रीफल व पुष्प-माला भेंट की। मंच का संचालन सोहनसिंह राजपुरोहित ने किया। गजेन्द्रसिंह बांकलिया ने धन्यवाद ज्ञापन किया।

पॉजिटिव पे सिस्टम के लिए पंजीकरण कराएं

उच्च मूल्य के चेक की धोखाधड़ी से बचें।

• चेक की धोखाधड़ी से बचने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम

• यह सुविधा ₹50,000/- और उससे अधिक राशि के चेक जारी करने वाले सभी बैंक खाताधारकों के लिए उपलब्ध है

आरबीआई कहता है...
जानकार बनिए,
सतर्क रहिए!

जनहित में जारी
भारतीय रिजर्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA
www.rbi.org.in

अधिक जानकारी के लिए,
<https://rbikehtahai.rbi.org.in/positivepay> पर जाएं
फीडबैक देने के लिए, rbikehtahai@rbi.org.in को लिखें

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का दावा

2047 में दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे हम



लखनऊ, 13 जनवरी (एजेंसियां)। रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत आज दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्था वाले देशों में खड़ा है। जिस तरह से पीएम मोदी कार्य कर रहे हैं, साल 2047 तक देश अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया के टॉप 3 देशों में शुमार होग। आजादी के 100 साल पूरे होने तक भारत दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में भारत जब बोलता है तो दुनिया कान लगाकर सुनती है। यूक्रेन रूस युद्ध में भारतीय छात्रों को निकालने के लिये पीएम ने कुछ देर के लिये तो युद्ध भी रुकवा दिया था। हरिश्चंद्र वंशीय समाज-

रस्तोगी समिति की ओर से बृहस्पतिवार को साइंटिफिक कन्वेंशन सेंटर चौक में आयोजित सत्यवादी महाराजा हरिश्चंद्र जयंती समारोह में वे बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि जिस समय मैं पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष था, तब चुनावी घोषणा पत्र तैयार करते समय नरेन्द्र मोदी ने मुझसे कहा कि हमें घोषणा पत्र में उन्हीं चीजों को शामिल करना चाहिए, जिन्हें हम पूरा सके। साल 2019 के घोषणा पत्र में भी इस बात का ख्याल रखा गया। जो कहा वो पूरा किया, अब कॉमन सिविल कोड लागू करने पर काम किया जा रहा है। रक्षामंत्री ने कहा कि महाराजा हरिश्चंद्र सत्यवादिता की सबसे बड़ी मिसाल हैं। उनका जीवन हमारी सांस्कृतिक धरोहर है। कार्यक्रम में समाज के चंद्र किशोर रस्तोगी, डॉ। अनिल रस्तोगी और प्रकाश चन्द्रा को सम्मानित किया गया।

केशव प्रसाद के अखिलेश-डिंपल चालीसा आरोप पर शिवपाल का जवाब

मेरा नाम ही काफी है



इटावा, 13 जनवरी (एजेंसियां)। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव अपनी विधानसभा जसवंतनगर पहुंचे थे। एक होटल का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात की। शिवपाल से केशव प्रसाद मीर्य के बयान, “शिवपाल यादव पार्टी में पद पाने के लिए अखिलेश-डिंपल के नाम का चालीसा

पढ़ते हैं।” पर सवाल पूछे गए। केशव के इस बयान पर शिवपाल बोले, “मुझे किसी पद की जरूरत नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा व्यक्ति है, जो मुझे जानता नहीं है। मेरा बस नाम की काफी है। जय प्रकाश और डॉक्टर लोहिया का भी कोई पद नहीं था, हम तो उनकी परंपरा को निभा रहे हैं।”

आजम खान पर भी लगे झूठे आरोप

शिवपाल यादव ने आगे कहा, “हमारी पार्टी के आजम खान बहुत बड़े नेता हैं। कुछ लोगों ने उन पर भी कई झूठे आरोप लगाकर उन्हें जेल भेजा है। उन पर भी झूठे मुकदमे दर्ज कर उनके साथ साजिश कर रहे हैं।

बीजेपी सरकार नहीं लाई कोई निवेश

शिवपाल ने कहा, “हम बीजेपी सरकार के खिलाफ जनता को इकट्ठा कर रहे हैं। अब समय आ रहा है कि जल्द ही बीजेपी की चीजें सामने आ जाएं। बीजेपी सरकार बड़े-बड़े पूंजीपतियों को तो सस्ती बिजली दे रही है। दूसरी तरफ आम लोगों के लिए बिजली महंगी कर रही है। बीजेपी सरकार के निवेशों को अच्छा तो तब कह सकते हैं, जब यहां निवेश आए और जमीन पर काम दिखाई दे। जनता को सरकार को सबक सिखाने की जरूरत है।”

फर्जी वकील बनकर याने से ले गए एसयूवी

लखनऊ, 13 जनवरी (एजेंसियां)। लोगों के एक समूह ने खुद को वकीलों के रूप में पेश करते हुए लखनऊ के कैसरबाग पुलिस स्टेशन से एक जव्त एसयूवी को छुड़ा लिया। आरोपियों ने वकीलों की पहन रखी थी। एसयूवी को एक वकील की शिकायत पर थाने लाया गया था, जिसने एसयूवी के मालिक पर लखनऊ बार एसोसिएशन के महासचिव के पदनाम का इस्तेमाल करने और अधिवक्ताओं की छवि खराब करने का आरोप लगाया था। शिकायतकर्ता सब इंस्पेक्टर रामकेश सिंह ने कहा कि वह काम में व्यस्त थे, जब कॉस्टेबल अखिलेश ने उन्हें उन लोगों के बारे में बताया जो पुलिस को सूचित किए बिना एसयूवी को ले गए थे। सब-इंस्पेक्टर ने अपनी शिकायत में कहा कि आरोपी एसयूवी लेकर चले गए और कहा कि यह उनकी है। इससे पहले हुसैनगंज के एक अधिवक्ता गोविंद कर्नौजिया ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एक एसयूवी पर लखनऊ बार एसोसिएशन के महासचिव के फर्जी पदनाम का उपयोग करने का आरोप लगाया था। शिकायत पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और एसयूवी को जांच के लिए थाने ले जाया गया। गोविंद ने अपनी शिकायत में कहा है कि बदमाश बार एसोसिएशन के महासचिव पद का प्रयोग कर रहे थे।

'मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है' शरद यादव के निधन पर राहुल गांधी ने व्यक्त की संवेदनाएं

नई दिल्ली,पटना, 13 जनवरी (एजेंसियां)। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव के निधन पर देश भर में शोक की लहर है। शरद यादव ने गुरुवार की शाम अंतिम सांस ली। उनके निधन पर समाज नेताओं ने शोक संवेदना व्यक्त की है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी शोक जताया है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। गुरुवार की शाम निधन के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लिखा- शरद यादव जी समाजवाद के पुरोधा होने के साथ एक विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। उनके शोकाकुल परिजनों को अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। देश के लिए उनका योगदान सदा याद रखा जाएगा।



गया था।बयान में कहा गया- स्वास्थ्य जांच के दौरान, उनकी नाड़ी नहीं चल रही थी या रक्तचाप दर्ज नहीं किया गया। उपचार के सभी प्रयास नाकाम रहे। रात 10।19 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

किडनी की बीमारी से ये पीड़ित

वहीं शरद यादव के सहयोगियों ने कहा कि वह गुरुवार की शाम अपने छतरपुर आवास पर बेहोश हो गए। उन्हें गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल लाया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। लंबे समय से किडनी की बीमारी से पीड़ित थे। नियमित रूप से 'डायलिसिस' करवाते थे।

10 साल के लड़के ने 7 साल की बच्ची का किया रेप

बिजनौर, 13 जनवरी (एजेंसियां)। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से एक चौकाने वाली घटना सामने आई है। यहां 10 साल के एक लड़के ने सात साल की एक बच्ची के साथ कथित तौर पर दुष्कर्म किया है। धामपुर थाना प्रभारी (एसएचओ) माधो सिंह बिष्ट ने कहा कि, लड़के को हिरासत में ले लिया गया है और उसने अपना जुर्म

कबूल कर लिया है। हमने एक प्राथमिकी दर्ज की है, जिसमें लड़के पर बलात्कार और पॉक्सो अधिनियम का आरोप लगाया गया है। वहीं लड़के को जिला किशोर बोर्ड के सामने पेश किया गया और बाल सुधार गृह भेज दिया गया। वहीं लड़की के पिता ने कहा कि वह पढ़ने नहीं जाती है और घटना के वक्त घर के पास में खेत से गन्ने की

पत्ती लेने गई थी। जब बच्ची वापस आई तो उन्होंने उसे डरा हुआ और रोते हुए पाया। इसके बाद पीड़िता ने माता-पिता को आपबीती सुनाई। वहीं थाना प्रभारी ने बताया कि परिवार ने तुरंत पुलिस को घटना की सूचना दी। उन्होंने आगे कहा कि लड़की के मेडिकल टेस्ट में रेप की पुष्टि हुई है। पुलिस आगे की जांच कर रही है।

'आरजेडी हिंदू विरोधी पार्टी, चंद्रशेखर ने दिखाया असली चेहरा'

सुशील मोदी भी कूदे रामचरितमानस के सियासी युद्ध में

पटना, 13 जनवरी (एजेंसियां)। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी का कहना है कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के नेता वोट बैंक के चलते वे रामायण मेला करने वाले लोहिया को भूल गए हैं। आरजेडी नेता यह भी भूल गए हैं कि रामायण शबरी, केवट का आदर करने वाला ग्रंथ है। बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि पहले अयोध्या में बनने वाले श्रीराम मंदिर के खिलाफ जगदानंद सिंह ने दुराग्रही टिप्पणी की। इसके ठीक दो दिन बाद उनकी पार्टी के शिक्षा मंत्री प्रो चंद्रशेखर के श्रीरामचरित मानस की निंदा करने से साफ कि लालू प्रसाद के नेतृत्व वाला राजद एक हिंदू-विरोधी राजनीतिक संगठन है। सुशील मोदी ने कहा कि

समाज के बहुसंख्यक वर्ग की आस्था पर चोट करने वाले बयान पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुप्पी तोड़नी चाहिए और शिक्षा मंत्री के पद से तुरंत बर्खास्त करना चाहिए।

चंद्रशेखर पर चले राजद्रोह का मुकदमा- सुशील मोदी



ने कहा कि जिस ग्रंथ की सराहना फादर कामिल बुल्के जैसे कैथोलिक क्रिश्चियन ने की है। उसकी निंदा कर प्रो। चंद्रशेखर



ने साबित कर दिया कि वह शिक्षा मंत्री बनने के योग्य नहीं हैं। इससे यह भी साबित होता है कि उन्हें इस पद पर बैठाने

पटना के बाद अब एयरटेल ने मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बोधगया में सेवा दी

पटना, 13 जनवरी (एजेंसियां)। नवंबर अंत में बिहार की राजधानी पटना से 5जी की सुविधा शुरू करने वाले एयरटेल ने 13 जनवरी को इसका विस्तार राज्य के तीन और शहरों में कर दिया है। अब मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बोधगया में एयरटेल 5जी की सुविधा मिलने लगेगी। जिन मोबाइल डिवाइस में 5जी की सुविधा है, उसमें सेटिंग्स का बदलाव कर 5जी नेटवर्क की सुविधा ले जा सकेगी। फिलहाल 5जी सुविधा लेने के लिए किसी अतिरिक्त शुल्क के भुगतान की जरूरत नहीं पड़ेगी।पोस्टपेड और प्रीपेड जिन भी ग्राहकों के पास 5जी इनेबलड मोबाइल हैंडसेट होगा,

मकर संक्रांति के बाद और लुढ़केगा पारा?



पटना, 13 जनवरी (एजेंसियां)। बिहार में कड़ाके की ठंड जारी है। अलग-अलग जिलों में शीतलहर का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है। राजधानी पटना में भी कनकनी से लोग परेशान हैं। बर्फाली हवा से अभी लोगों को राहत नहीं मिलने वाली है। मकर संक्रांति के बाद पारा और लुढ़केगा। मौसम विभाग की ओर से इस संबंध में संभावना जताई गई है। आईएमडी के मुताबिक उत्तर-पश्चिम भारत में 15 जनवरी से बहुत घना कोहरा और अलग-अलग स्थानों में शीतलहर की स्थित शुरू होने की संभावना जताई गई है। आईएमडी के अनुसार, बिहार के अलग-अलग इलाकों में 15 और 16 कोहरा छाया

रहेगा। इसके साथ ही अधिक ठंड रहने की संभावना है। मौसम विभाग की मानें तो अभी कम से कम 16 या 17 जनवरी तक कोई राहत नहीं मिलने वाली है। अभी मौसम कुछ ऐसा ही रहेगा।

बांका में न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री रिकॉर्ड

मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार, 48 घंटे के बाद ठंड में और बढ़ोतरी के आसार हैं। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री की कमी आने की संभावना है। वातावरण के सतह पर धीमी गति से चल रही ठंडी पछुआ और हवा में मौजूद 90-100 फीट आद्रता के कारण बिहार में कड़ाके की ठंड पड़ेगी। कोहरा भी छाया रहेगा। गुरुवार को बांका में सबसे कम 2.4 डिग्री न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया।

पांच से छह डिग्री के बीच औसत न्यूनतम तापमान

बाकी जिलों की बात करें तो मोतिहारी में 4।6 डिग्री, शेखपुरा में 5.5, सबौर में 5, खगड़िया में 4.9, सीवान में 5, पूसा में 4.5, गया में 4.5 और नवादा में 5.6 डिग्री न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया है। पूरे प्रदेश में औसत न्यूनतम तापमान पांच से छह डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया है।

सुभाषिनी संभालेगी शरद की विरासत !

बिहारीगंज सीट से लड़ चुकी हैं विधानसभा चुनाव



हरियाणा में हुई है शादी

संभाल पाएंगी। यह सवाल इसलिए भी है कि मधेपुरा से हमेशा चुनाव में उतरने वाले शरद यादव खुद चाहते थे कि इस सीट पर उनके बाद परिवार को ही कोई व्यक्ति चुनाव लड़े। एनडीए में संयोजक रहते शरद यादव ने यह इच्छा प्रकट की थी, लेकिन संयोग से उस समय उनके परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में नहीं था। वहीं जब उनकी बेटी सुभाषिनी राजनीति में आई तब शरद यादव की राजनीति का पराभव चल रहा था। वह नीतीश कुमार से अनबन होने के बाद जदयू से अलग हो चुके थे। सुभाषिनी फिलहाल कांग्रेस में हैं और उन्हें राहुल गांधी और प्रियंका का करीबी माना जाता है। अभी भारत जोड़ो यात्रा में भी मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में शामिल हुईं थी। सुभाषिनी ने 2020 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में शामिल हुईं थीं और बिहारी गंज सीट से चुनाव भी लड़ा था। हालांकि इस चुनाव में उन्हें बुरी हार का सामना करना पड़ा था। इस चुनाव में प्रचार करने राहुल गांधी भी गए थे।

शरद यादव के दो संतान हैं। पहला बेटा है शोतनु, वह राजनीति में नहीं है, लेकिन बेटी सुभाषिनी 2020 में राजनीति में आई। सुभाषिनी की शादी हाल ही में हरियाणा के एक राजनीतिक परिवार में हुई है। अभी शरद यादव जब बीमार थे तो सुभाषिनी अपनी ससुराल में रहते दिल्ली के छतरपुर स्थित पिता के आवास पर जाकर उनकी सेवा करती थीं। गुरुग्राम के फोर्टिस अस्पताल में जब शरद ने अंतिम सांस ली तो भी सुभाषिनी उनके पास ही थीं और उन्होंने ही टवीटकर इसकी जानकारी देश को दी। इसके बाद से शरद यादव के लिए श्रद्धांजलि संदेश आने शुरू हुए।

मधेपुरा से बेटी को उतारना चाहते थे शरद

बिहार के मधेपुरा से चुनाव लड़ने वाले शरद यादव का इस सीट और यहां के लोगों से खास लगाव था। वह हमेशा चाहते थे कि उनके बाद इस सीट से उनके परिवार का ही कोई

व्यक्ति चुनाव लड़े। लेकिन उनके सक्रिय राजनीति में रहते परिवार का कोई सदस्य राजनीति में नहीं था। इसी बीच अगस्त 2017 में शरद यादव की नीतीश कुमार से ठन गई और वह जदयू से बाहर आ गए। फिर लोकतांत्रिक जनता दल (एलजेडी) बनाया। लेकिन 2019 के निधन के चुनाव में वह अपनी परंपरागत सीट मधेपुरा से ही हार गए।

पिता के बहुत करीब थीं सुभाषिनी

सुभाषिनी यादव अपने पिता के बहुत करीब थीं। यहां तक कि अपने भाई से भी ज्यादा उनकी पिता के साथ पसंदी थी। शरद यादव के निधन की खबर भी सबसे पहले सुभाषिनी ने ही टवीट करके दी। लिखा कि 'पपा नहीं रहे।' इस संदेश के साथ उन्होंने दुखी होने का इमोजी बनाया। निधन के बाद गुरुवार की रात शरद यादव का पार्थिव शरीर एंबुलेंस से दिल्ली के छतरपुर स्थित आवास ले जाया गया। यहां 5 वेस्टर्न एरलाइण्ड में आज पूरे दिन उनका शव अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा।

पटना में फेसबुक और व्हाट्स एप के जरिए लेते थे मर्डर की सुपारी

पटना, 13 जनवरी (एजेंसियां)। दानापुर पुलिस ने गुप्त सूचना पर थाना क्षेत्र के सहकारी बैंक के पास छापेमारी कर सात अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने एक देशी कट्टा, दो कारतूस, एक चोरी की बाइक और सात मोबाइल फोन बरामद किए। ये सभी अपराध करने के लिए किंग्स ऑफ कालिया व्हाट्सअप ग्रुप चलाते थे। साथ ही यू-ट्यूब पर इन्होंने मर्डर की सुपारी लेने का स्टेटस तक लगा रखा है। एक गुप्त सूचना के बाद पुलिस ने इन पर दबिश डाली। इस दौरान मनेर थाना क्षेत्र के छितनावां सन्नी कुमार, आदित्य कुमार और शाहपुर थाना क्षेत्र के दाउदपुर बगीचा निवासी सोनू कुमार, नीतीश कुमार, दीपू कुमार, रितिक कुमार और मोहित कुमार को गिरफ्तार किया। मोबाइल जांच में पाया गया कि इन सभी ने किंग्स ऑफ कालिया के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है।

बिजली कर्मों के घर बदमाशों का धावा, बुजुर्ग दंपति की निर्मम हत्या नगदी और जेवर लूटा

कानपुर, 13 जनवरी (एजेंसियां)। कानपुर में बिल्हौर के ककवन थाना क्षेत्र में डबल मर्डर और लूट की घटना सामने आई है। यहां गुरुवार देर रात बदमाशों ने एक निजी बिजली कर्मों के घर को निशाना बनाया। वहीं, घर के बुजुर्ग दंपति की हत्या कर नकदी और ज्वेलरी आदि सामान लूट ले गए। मिली जानकारी के अनुसार, फतेपुर गांव निवासी निजी बिजली कर्मों राजकुमार के वृद्ध पिता छम्मीलाल, मां इमरती, उसकी पत्नी और बच्चे घर पर सोए हुए थे। वहीं, राजकुमार गांव के बाहर बने दूसरे घर में सोया हुआ था। देर रात छत के रास्ते से डकेत घर में घुस आए। उन्होंने जेवर और नकदी का पता लगाने के लिए बिजली कर्मों के माता-पिता की गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर दी। वहीं, उसकी पत्नी और बच्चों को बांध कर डालने के बाद घर में रखा नकदी और जेवर लेकर फरार हो गए।

नफरत फैलाने वाला ग्रंथ बताते हैं। जो मंत्री रामचरित मानस को जातिगत भेदभाव वाला ग्रंथ बताते हों ,उसकी पीएचडी की उपाधि भी संदेहास्पद लगती है।

लालू प्रसाद ने लोहिया को भी नहीं छोड़ा- सुशील मोदी

सुशील मोदी ने कहा कि लालू प्रसाद ने पहले लोहिया को पार्टी के बैनर-पोस्टर से बाहर किया। इसके बाद समाजवाद को परिवारवाद में बदला और अब वे उस रामायण- रामकथा और रामचरित मानस को भी लखित करने वालों को पाल रहे हैं। जो सदियों से हिंदू समाज की प्रेरणा का स्रोत रहा है। सुशील मोदी ने कहा कि भारत में समाजवाद के पुरोधा डा। लोहिया ने कभी चित्रकूट में रामायण मेला आयोजित किया था।

स्वतंत्र वाक्ता

शनिवार, 14 जनवरी, 2023

दिल्ली सरकार घिरी

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहां तो सोचे थे कि सीएम बन कर दिल्ली पर राज करूंगा लेकिन हो रहा है उलटा। वह जो भी निर्णय लेते हैं उसी में फंसेते दिखाई देने लगते हैं। उन पर जो अनियमितता का आरोप लगता है वह थमने का नाम ही नहीं लेता। ताजा मामला है सूचना एवं प्रचार निदेशालय यानी डीआइपी का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजना। नोटिस में आदेश दिया गया है कि वे दस दिनों के भीतर सरकारी खजाने में वह एक सौ चौंसठ करोड़ रुपए जमा कराएं, जिसका दुरुपयोग कर उन्होंने चुनाव में अपना व पार्टी का प्रचार किया था। यह नोटिस उन्हें आम आदमी पार्टी का संयोजक होने के नाते भेजा गया है। डीआइपी का आरोप है कि पांच साल पहले दिल्ली सरकार ने सरकारी धन का दुरुपयोग कर दूसरे राज्यों में भी पार्टी का विज्ञापन किया था। इस नोटिस के बाद आम आदमी पार्टी भाजपा पर आगबबूला हो रही है। मोर्चा संभाला है दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने। मनीष सिसोदिया ने प्रेस वातां करके गुस्सा जाहिर किया कि केंद्र सरकार अफसरों का असंवैधानिक इस्तेमाल करते हुए दिल्ली सरकार के खिलाफ षडयंत्र कर कार्रवाई के लिए उकसा रही है। उन्होंने पूछा है कि आरोप के पक्ष में डीआइपी के पास आखिर क्या सबूत हैं? उन्होंने यह भी सवाल किया है कि दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री रोज अपनी सरकारों की उपलब्धियों के विज्ञापन दिल्ली के अखबारों में छपवाते हैं, पूरे देश में बहुत सारी जगहों पर उनके विज्ञापन-पट्ट लगे हैं। तो क्या इसके लिए भाजपा से रकम वसूली जाएगी? कुछ भी हो लेकिन प्रचार-प्रसार पर अनावश्यक खर्च को लेकर पहली बार वैधानिक ढंग से आम आदमी पार्टी पर कार्रवाई का प्रयास किया गया है, जबकि भाजपा के नेता बहुत पहले से दिल्ली सरकार के विज्ञापनों पर खर्च को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। नियमानुसार विज्ञापनों पर खर्च करने के लिए हर सरकार के पास निर्धारित बजट होता है। विज्ञापनों के स्वरूप को लेकर भी नियम-कायदे बने हुए हैं। लेकिन यह बात तो सभी जानते हैं कि हर सरकार उन नियम-कायदों को तोड़-मरोड़ कर सरकारी विज्ञापनों का इस्तेमाल अपनी पार्टी के प्रचार-प्रसार के तौर पर करती रहती है। प्रयास करती है। यही नहीं, उन विज्ञापनों के जरिए लेन-देन को चरितार्थ करते हुए संचार माध्यमों को उपकृत और फिर उन्हें अपने पक्ष में लाने की कोशिश भी करती हैं। विज्ञापनों के आबंटन में पक्षपात को लेकर भी सर्वोच्च न्यायालय तक को दखल देनी पड़ी थी। आम आदमी पार्टी की तो नीयत ही बन गई है कि जब भी वह कोई योजनाएं लेकर आती है तो उस पर आरोप लगने शुरू हो जाती है। ई योजनाओं को लेकर आरोप लगते रहे हैं कि उनसे जितना लाभ लोगों को नहीं मिला, उससे कई गुना अधिक उनके प्रचार-प्रसार पर खर्च किया गया। सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे आमतौर पर उन्हीं योजनाओं के विज्ञापन दें, जिनसे जनजागरूकता फैलती या कोई जनकल्याण का काम होता हो। मगर सरकारें प्रायः विज्ञापनों ने अपनी उपलब्धियों को लेकर अपने ही मुंह से मिट्टु बनती रहती हैं। छिपी बात नहीं है कि इसके पीछे भावना पार्टी के प्रचार की ही होती है। आम आदमी पार्टी ने भी ऐसे अनेक विज्ञापन लगातार प्रकाशित-प्रसारित कराए हैं। मगर जब इसे लेकर नैतिकता का प्रश्न खड़ा हुआ है, तो जैसा कि दूसरे अनेक मामलों में देखा जाता रहा है, वह भाजपा को कठघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रही है। कायदे से उसे चाहिए कि वह उन विज्ञापनों का आकलन करे, जिन्हें लेकर डीआइपी ने रकम वसूली का नोटिस भेजा है और फिर उन पर अपना स्पष्टीकरण दे। उसकी नैतिकता का तकाजा यही है कि वह अन्य सरकारों पर तोहमम मढ़ने की बजाय अपने कार्यों का अध्ययन करे और उसे सुधारने का प्रयास करे। दूसरे, डीआइपी को भी अपना नजरिया स्पष्ट करना चाहिए कि उसने किन विज्ञापन के महेनजर यह नोटिस भेजा और उन पर आए अंदाज का आकलन कैसे किया?इस तरह लोगों को हो कहीकत का खंदाज लग पाएगा और नाहक इस मामले को राजनीतिक रंग देकर एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने का सिलसिला थमेगा। संभव है, इससे दूसरे राजनीतिक दलों और उनकी सरकारों को भी कुछ सबक मिले कि सरकारी विज्ञापनों की सीमा रेखा तय हो जाए।

रेवड़ी कल्चर कहीं बर्बाद न कर दे



बलदेव राज भाटनगरी

2024 का मैदान सजने लगा है। एक एक करके सभी धुरंधर अपना अपना लंगोट कसने लगे हैं। जैसे एक खिलाड़ी या टीम खेल के मैदान में उतरने से पहले मैदान का चक्कर लगाते हैं, उसी प्रकार 2024 के खिलाड़ियों द्वारा मैदान का चक्कर लगाना शुरू हो गया है। इस चक्कर के दौरान जनता के बीच अपनी उपस्थिति को दर्ज करवाने के लिए कई प्रकार की घोषणाएं की जाने लगी हैं। हम यह फ्री देंगे, हम वो फ्री देंगे। तुम देने वाले कौन होते हो भाई? सब कुछ कहां से दोगे या कहां से बांटोगे? क्या तुहें मालूम भी है कि तुम क्या कर रहे हो? आखिर यह रास्ता किधर जाता है भाई? यहां सब कुछ बांटा जा रहा है। नेता लोग देश के लोगों को बांटने से लेकर देश की संपदा तक को बांटने में लगे हैं।

अपनी जुगत भिड़ाने में लगे नेता वोट की खातिर देश को बेचने में भी गुरेज नहीं करते। देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटने वाले थे नेता लोग आखिर जनता को किस रास्ते पर डालने का रहे हैं? एक नेता जी प्री बिजली पानी की घोषणा करते हैं तो दूसरे नेता जी बेरोजगारी को छह हजार रुपए महीने बेरोजगारी भत्ता देने का वादा कर देते हैं। एक साल में किसानों को छह हजार दे रहे हैं तो दूसरे ने महीने में छह हजार दे इन वादों को पूरा कर सके।

हजार रुपए बुढ़ापा पेंशन दे रहा है तो दूसरा पांच हजार रुपए बुढ़ापा पेंशन का वादा कर रहा हैं। एक मुफ्त अनाज दे रहा है तो दूसरा मुफ्त अनाज की मात्रा बढ़ाने और अन्ध मद बढ़ाने का भी वादा कर रहा है। जिस घर में बिजली, पानी, राशन सरकार मुफ्त में दे दे। बेरोजगार को छह हजार भत्ता दे दे, किसान पिता को छह हजार भत्ता महीना किसानी भत्ता दे दे। साठ साल से ऊपर के बुजुर्ग को पांच हजार पेंशन दे दे। उनकी साल में राशन पानी से लेकर बिजली तक सारी जिम्मेदारियां सरकार अपने आप उठा लेती है। उन्हें काम करने की आवश्यकता ही क्या रहेगी? जब कसैगी? जब वस्तुओं की पूर्ति घटेगी और मांग बढ़ेगी तो महंगाई बढ़ना अवश्यभावी है। इसके बावजूद भी लोग काम करने के लिए तैयार नहीं होंगे। क्योंकि उन्हें नेता लोग मुफ्त के खाने की आदत डाल चुके होंगे। फिर कोई नेता उनकी पेंशन, उनका बेरोजगारी भत्ता, उनके राशन पानी से लेकर दैनिक खर्च तक उठाने को तैयार हो जाएगा। यानि देश में अकर्मण्य लोगों की एक ऐसी फौज खड़ी हो जायेगी जो देश की अर्थव्यवस्था को पंगु बनाने में सहायक सिद्ध होगी। दूसरी बात यह समझ नहीं आती कि नेता लोग इतने बड़े बड़े वादे किस आधार पर करते हैं। क्या उनकी स्वयं की आय इतनी है जिससे वे इन वादों को पूरा कर सके।

बिहार की सियासत में आज कुछ तो बड़ा होने वाला है

मकर संक्रांति का महत्व हिंदू धर्म में बहुत है। मान्यता के अनुसार इसी दिन के बाद से शुभ कार्यों की शुरुआत लोग करते हैं। दही-चूड़ा खाकर। मकर संक्रांति का महत्व हिंदू धर्म में बहुत है। मान्यता के अनुसार इसी दिन के बाद से शुभ कार्यों की शुरुआत लोग करते हैं। दही-चूड़ा खाकर। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से 14 जनवरी को पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास में इस अवसर पर दही-चूड़ा के भोज का आयोजन किया गया है। हालांकि, लालू प्रसाद जब पटना में होते थे तब इस भोज की रौनक कुछ और होती थी।इस बार उनके बेटे और उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से इस भोज की रौनक होने वाली है। राजद कार्यकर्ताओं और तेजस्वी के शुभचिंतकों को ईंतजार है कि नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को कब मुख्यमंत्री पद की बागडोर सौंपते हैं। अजीब बात यह कि राजद की ओर से राबड़ी देवी के आवास पर दही-चूड़ा का भोज 14 जनवरी को है और इसी दिन जेडीयू संसदीय दल के नेता उपेन्द्र कुशवाहा के आवास पर जेडीयू की ओर से दही-चूड़ा भोज का आयोजन रख दिया गया है। यह लिखाव जैसी स्थिति के स्पष्ट संकेत हैं। वैसे बिहार की सियासत कब क्या हो जाए, कहा नहीं जा सकता। दोस्त कब दुश्मन बन जाए, ये भी कहना मुश्किल है। कल तक शांत दिखने वाले बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह फिर से तेवर में आ गए हैं। या यूं कहे पापा जगदानंद सिंह ने जिस तरह 60 दिन के बाद कमबैक किया है, शायद उसी के चलते सुधाकर सिंह भी पुराने तेवर में आ गए और सीएम नीतीश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। अगर ऐसा नहीं होता तो इतने दिनों तक शांत रहने वाले आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा नहीं

खोलते।अब सवाल उठता है कि मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद शांत रहने वाले सुधाकर सिंह को पावर कहां से मिल रहा है? क्या पापा जगदानंद सिंह बैक से पावर दे रहे हैं? क्या पार्टी ने भी मौन सहमति दे दी है या लालू यादव की रणनीति के तहत ही सुधाकर सिंह महागठबंधन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला है? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सुधाकर सिंह ने कहा कि बिहार में कृषि रोड मैप दो में 10 साल पहले कृषि विपणन के लिए कानून होना चाहिए, लेकिन अब तक उसे पुरा नहीं किया गया। उन्होंने यह भी घोषणा की कि कहा कि 13 दिसंबर से शुरू हो रहे बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र में मंडी कानून को क्रेडिट प्राइवेट मेंबर बिल लाएंगे। सुधाकर सिंह ने मंगलवार को पत्रकारों से बात करते हुए इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा विधानसभा को इसकी लिखित जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 2006 में कृषि मंडी कानून समाप्त करने के बाद मूल्य स्तर और उत्पादन स्तर पर राज्य के किसानों को गेहूं और धान में करीब 90 हजार करोड़ रुपये जबकि सभी फसलों को मिला लें तो करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। किसानों की इस स्थिति के लिए मुख्यमंत्री को जिम्मेदार बताते हुए सुधाकर सिंह ने कहा कि कई संस्थाएं यह कह चुकी हैं कि मंडी कानून होना चाहिए जिससे किसानों को फसल का न्यूनतम मूल्य मिल सके।उन्होंने प्राइवेट मेंबर बिल के संबंध में पूछे जाने पर कहा कि यह बिहार की 80 फीसदी आबादी को प्रभावित करना वाला बिल है। खाद्यान्न के रूप में देखें तो 100 फीसदी आबादी को प्रभावित करने वाला है। ऐसे मुद्दे को लेकर सदन में सहमति बन जाएगी,

इसकी मुझे पूरी उम्मीद है। मुझे विश्वास है कि कोई भी किसानों के खिलाफ नहीं जाना चाहेगा। उन्होंने दावे के साथ कहा है कि मुख्यमंत्री भी इसके साथ होंगे क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो कृषि रोड मैप में किसानों को कृषि विपणन की जरूरत की बात नहीं लिखी होती। हालांकि सुधाकर सिंह को तेजस्वी यादव दोबारा चेतावनी दे चुके हैं, लेकिन ये भाजपा के हाथों में न रहने वाले अंदाज में ही दी जा रही चेतावनी है।जेडीयू की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि चेतावनी देना तो ठीक है, लेकिन नीतीश कुमार को शिखंड कद देने वाले सुधाकर सिंह के खिलाफ एक्शन कब तक होगा? एक तरह से जेडीयू के सीनियर नेता उपेंद्र कुशवाहा ने आरजेडी नेतृत्व को अल्टीमेटम देने की भी कोशिश की है। लहजा थोड़ा नरम जरूर देखा गया है। उपेंद्र कुशवाहा का कहना है कि 14 जनवरी तक सुधाकर सिंह के खिलाफ कोई न कोई एक्शन जरूर होगा। नीतीश कुमार की लड़ाई लड़ने के साथ साथ उपेंद्र कुशवाहा अपनी राजनीतिक जमीन भी मजबूत करने की कोशिश में हैं, लेकिन कुछ भाजपा नेताओं से उनके संपर्क को लेकर बिहार की राजनीति तरह तरह की बातें भी चल रही हैं। ऐसी चर्चा भी चल पड़ी है कि उपेंद्र कुशवाहा फिर से भाजपा के साथ एनडीए में जा सकते हैं। वैसे भी कुछ दिनों से ये देखने को मिला है कि एनडीए में नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा में से कोई एक ही रहता है।एक तरह उपेंद्र कुशवाहा को बिहार में डिप्टी सीएम बनाये जाने की भी चर्चा चल रही है, और दूसरी तरफ उनका चूड़ा-दही भोज भी हॉट टॉपिक बना हुआ है। रही बात सुधाकर सिंह जैसे नेताओं के खिलाफ एक्शन लेने की तो, सुना है कि फैसला आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव

लेने वाले हैं। लालू यादव के लौटने का कार्यक्रम तो मार्च, 2023 तक है, लेकिन ये तो सबको पता है कि वो जहां भी रहते हैं चौबीस घंटे बिहार की राजनीति पर उनकी नजर रहती ही है। रंची से लेकर दिल्ली तक – और अभी सिंगापु्र से आरजेडी का हर फैसले की मंजूरी लालू यादव से लेनी ही पड़ती है।लेकिन ऐसा भी तो नहीं है कि सुधाकर सिंह बगैरे लालू यादव और तेजस्वी यादव से शह मिले नीतीश कुमार पर हमलावर बने रहें? जाहिर है नीतीश कुमार तो ये सब समझ ही रहे होंगे, लिहाजा अपनी तरफ से वो भी कोई कसर बाकी नहीं रख रहे हैं।अभी तो ऐसा लगता है जैसे नीतीश कुमार और लालू यादव कोई फ्रेंडली मैच खेल रहे हों। ये फ्रेंडली मैच भाजपा को गफलत में रखने के लिए भी हो सकता है और एक दूसरे के खिलाफ वास्तव में परदे के पीछे चल रही लड़ाई भी हो सकती है। नीतीश कुमार की समाधान यात्रा की शुरुआत और शुरुआती दौरा रूट मैप तो ऐसे ही इशारे कर रहे हैं जैसे निशाने पर भाजपा नहीं बल्कि महागठबंधन में प्रमुख पार्टनर राष्ट्रीय कुमार की मुस्लिम वोटर पर नजर तो ऐसा ही इशारा कर रहा है।समाधान यात्रा पर निकलने से पहले नीतीश कुमार की मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवियों के साथ मुख्यमंत्री आवास पर बंद कमरे में हुई मुलाकात काफी चर्चित रही। तब ऐसा लगा था कि भाजपा के साथ रह कर मुस्लिम वोटर की नजर में धूमिल हुई अपनी छवि को बदलने की कोशिश हो रही है।नीतीश कुमार ने असदुद्दीन औवैसी जैसे नेताओं से बचने की सलाह दी, रही बात मुस्लिम नेताओं से उनकी मुलाकात को अगले आम चुनाव की तैयारियों का हिस्सा समझा गया। तब

नीतीश कुमार ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से 2024 से पहले भाजपा के सक्रिय होने और सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने की भी आशंका जतायी थी। ऐसी ही आशंका नीतीश कुमार ने तब भी जतायी थी, जब उनके महागठबंधन में चले जाने के बाद केंद्रीय मंत्री अमित शाह पहली बार बिहार का दौरा करने वाले थे। नीतीश कुमार की समाधान यात्रा के आरंभिक पड़ावों के आस पास की आवादी भी मुस्लिम बहुल ही है। नीतीश कुमार ने 4 जनवरी को वाल्मीकि नगर का कार्यक्रम बनाया था, अगले दिन 5 जनवरी को पश्चिम केरल के बेतिया इलाके में समाधान यात्रा पहुंची थी। और वैसे ही 6 जनवरी को शिवहर और सीतामढ़ी में, 7 जनवरी को वैशाली और 8 जनवरी को सिवान पहुंचे थे - सिवान के बारे में तो सबको पता है, बाहुबली आरजेडी नेता शहाबुद्दीन का गढ़ रहा है। शहाबुद्दीन का गढ़ होने का मतलब इलाके के लोगों के लालू यादव और तेजस्वी यादव के समर्थक होने की गारंटी है।लेकिन ये सिवान का ही मामला नहीं है, शुरुआती पांचों पड़ावों के इर्द गिर्द मुस्लिम आबादी ही चुनावों में निर्णायक भूमिका में होती है। समाधान यात्रा पर निकलने से पहले एक और खास बात पर ध्यान दिया गया था। नीतीश कुमार ने मुस्लिम आबादी की चुनावों में निर्णायक भूमिका में होती है। समाधान यात्रा पर निकलने से पहले एक और खास बात पर ध्यान दिया गया था। नीतीश कुमार ने मुस्लिम बुद्धिजीवियों के साथ हुई बैठक से जेडीयू के मुस्लिम नेताओं को दूर रखा था।नीतीश कुमार की समाधान यात्रा में वैसे तो अफसरों का ही बोलबाला होता है, लेकिन कुछ नेता भी होते हैं। नेता से मतलब यहां मंत्रियों से ही है। नीतीश की समाधान यात्रा में बाकी मंत्री तो बदलते रहते हैं, लेकिन एक मंत्री को पहले पांचों पड़ावों में मौके पर मौजूद पाया गया है और वो मंत्री हैं, जमा खान।

-अशोक भाटिया

देशी नाचो-नाचो को अवार्ड, थिरक उठा भारत



नरेंद्र तिवारी

भारत के लि ए गौर व शाली पल है। इस गरिमा यी उपलब्धि मे भारत के कला प्रेमी थिरक उठें है। थिरके भी क्यों नहीं बात ही थिरकने की है। नाटू-नाटू पर ऐसे नाचे की सबको नचा दिया। फ़िल्म आरआरआर के गाने नाटू-नाटू मतलब नाचो-नाचो को बेस्ट ओरिजनल सॉन्ग के लिए अमेरिका के लॉस एंजेलिस में आयोजित 80 वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 के लिए नवाजा गया। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स आस्कर के पुरस्कार के बाद फ़िल्म ओर मनोरंजन जगत का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। यह उपलब्धि भारतीय सिनेमा जगत की स्वर्णिम उपलब्धियों में से एक मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में 'भारतीय सिनेमा के लिए ऐतिहासिक क्षण है', फ़िल्म के संगीतकार एमएम कीरावानी ने अवार्ड लेने के दौरान भावुक अंदाज में कहा 'इस उपलब्धि के पीछे पूरी टीम छिपी है। जिसमे डायरेक्टर, राजमौली, कोरियोग्राफ़र प्रेम रक्षित, गीतकार चंद्रबोस और गायक सिल्विर्गूज उन्होंने भैरव को भी धन्यवाद दिया।' इस गाने की शूटिंग यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन में हुई थी। कलाकार होने के नाते राष्ट्रपति जेलेन्स्की ने खुद इस गाने की शूटिंग के लिए मंजूरी दी थी। फ़िल्म आरआरआर में जूनियर एनटीआर और रामचरण ने 1920 के ब्रिटिश राज के समय भारत के स्वतंत्रता सेनानी कोमाराम भीम और अल्लुरी सीतारामाराजू की भूमिका निभाई

थी। इसके अलावा इस फ़िल्म में आलिया भट्ट, अजय देवगन के साथ-साथ ब्रिटिश एक्टर रे स्टीवेसन, एलिसन डूडी और ओलिविया मोरेंस भी शामिल हैं। फ़िल्म में जूनियर एनटीआर और रामचरण के देशी डांस नाचो-नाचो में ऐसा धमाल किया की ब्रिटिश डांस पार्टी में नाचो-नाचो पर गोरे अंग्रेज भी थिरकने लगे थे। गीत भी देशी अंदाज से परिपूर्ण दिखाई दिया। शब्द-शब्द देशी और गांव के रंग में रंगा दिखाई दिया। अवार्ड मिलने के बाद इस गीत के शब्द-शब्द पर गौर किया। जिसके बोल कुछ इस तरह के हैं 'बैल जैसे धूल उड़ा अगे, सींग उठा के तुम भी नाचो। बाजे जम के ताल-ढोल, बैटा राजू , उड़ू के नाचो। तीरों से भी तेज कोई कर सचे। तीरों से जो भेद नाचो, अस्तबल में घोड़े जैसे बाग-डोर छोड़ नाचो। मिट्टी जोता, रोड मोटा, मिर्चां खाके ऐसे नाचो, हाँ आजा छोरे। नाचो, नाचो-नाचो, नाचो वीरे नाचो। कच्ची केरी जैसा खट्टा नाचो, नाचो, नाचो-नाचो, बिच्छू काटा लागे ऐसा नाचो। गुँजे ढोल ऐसे देखो धन-धना के रोगी नाचे, शोर सुन लो है धमाका, जैसे शेर हाथी नाचे। देखो, दिल का ये मेला, यारा अपने साथ नाचो। एड़ियों के जोरों पे धूम-धड़का देशी नाचो, वो पसीना माथे का चमके दमके ऐसे नाचो। नाचो, नाचो-नाचो, उसने चखा लागे तीखा नाचो, झूमे गांव, है रेला, ऊंचा पैल चूँ पटका है ये देशी एक मेला, कैसे रहा याकयकी। धुमुक-धुमुक नाचे जा, दुनियाँ हिला दे सारी। नाचो, नाचो, नाचो।' इस गाने के बोल भी देशी अंदाज में रंगे सजे संवरें है, तो नृत्य भी दुनियाँ को हिला देने वाला रहा है। दुनियाँ को हिला

देने वाला ही नहीं भारत को अवार्ड दिला देने वाला भी रहा है। फ़िल्म आरआरआर स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई है। इसलिए राष्ट्रीय भावनाएं भी उफान मारती दिखाई देती है। फ़िल्म आरआरआर भी लगान की तरह अंग्रेजो के द्वारा भारतीयों से दोयम दर्जे के व्यवहार को प्रदर्शित करती फ़िल्म है। दक्षिण भारत का भी अपना स्वतंत्रताकालीन इतिहास रहा है। इस फ़िल्म में अंग्रेजो के भारतीयों पर किये जुल्म और ज्यादतियों को बखूबी प्रदर्शित किया। दक्षिण भारतीय फ़िल्मों ने विगत कुछ बरसों में दक्षिण के दर्शकों को नहीं अपितु सम्पूर्ण भारत ओर दुनियाँ के दर्शकों को आकर्षित किया है। फ़िल्में सिर्फ मनोरंजन का माध्यम ही नहीं होती है। फ़िल्मों के माध्यम से जनमानस में राष्ट्रीय चेतना का संचार भी होता है। फ़िल्में समाज में होतें माध्यम और ज्यादतियों के विरुद्ध एक नवीन चेतना का निर्माण करती है। दक्षिण भारतीय फ़िल्मों का बढ़ता आकर्षण इन्ही मानवीय भावनाओं के प्रगटीकरण के परिणामस्वरूप ही निर्मित हुआ है। जिसे वैश्विक स्तर पर सरहाना के साथ अवार्ड भी मिल रहा है। आरआरआर ने ग्लोबल लेवल पर 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की थी। नाटू-नाटू याने नाचो-नाचो बेस्ट ओरिजनल सॉन्ग मोशन पिक्चर की कैटेगरी में गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए चुना गया है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिले इस अवार्ड से भारत का गौरव बढ़ा है। फ़िल्म का यह गाना आस्कर फ़िल्म अवार्ड की दौड़ में भी शामिल है। भारतीय फ़िल्म जगत के इस गौरव पूर्ण क्षण से पूरा भारत गौरवान्वित

है। फ़िल्म के नाचो-नाचो गाने को सुनकर और देखकर माने मयूर सा नाच उठता है। भारतीय संगीत की परिभाषा को जाना तो पाया गीतम, वादयम तथा नृत्य त्रयम संगीतमुच्यते अर्थात गायन, वादन एवं नृत्य इन तीनों कलाओं के समावेश को ही संगीत की पूर्णता माना गया है। भारत में दक्षिण भारतीय संगीत दक्षिण भारत मे तो हिंदुस्तानी संगीत शेष हिंदुस्तान में लोकप्रिय रहा है। भारतवर्ष में सारी सभ्यताओं में संगीत का बड़ा महत्व रहा है। साधक नृत्य, वादन ओर गायन से ही ईश्वर की आराधना करतें है। भारत के देशी गीत और नृत्य अंतर राष्ट्रीय मंच पर सम्मान मिलना भारतीय संगीत और फ़िल्मी जगत के लिए गौरव की बात है। भारतीय सिनेमा और मनोरंजन जगत को अपनी उत्कृष्टता प्रदर्शित करना होगी। अंतर राष्ट्रीय मंच पर भारत की ख्याति और कीर्ति पतका फहराने में फ़िल्मी जगत भी अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। डायरेक्टर एसएस राजमौली की फ़िल्म आरआरआर ने यह गौरव भारत को दिलाया है। देशी नाचो-नाचो यह सा भारत थिरक रहा है। पर थिरकन रित्तरन चलती रहना चाहिए। गोल्डन ग्लोब से आस्कर तक चलती रहना चाहिए। भारत के सम्पूर्ण फ़िल्म जगत को संगीत की इस महान कला में फूहड़पन और अश्लीलता के समावेश की गैरजरूरी मौजूदगी पर भी विचार करना होगा। संगीत की यह पवित्र परम्परा जिसमे मनोरंजन के साथ अध्यात्म का भी समावेश है। संगीत की यहीं आध्यात्मिक शक्ति विश्व के लोगो में भारत के प्रति जुड़ने का भाव पैदा करती रही है।



राज कुमार सिंह

देश में राज्यापालों की भूमिका विवाद नये नहीं हैं, पर तमिलनाडु में जो कुछ हो रहा है, वह अवांछित है। बिहार के मूल निवासी और केरल कांडर के आईपीएस अधिकारी रहे रविंद्र नायरण रवि तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में जिन विवादों का कारण बन रहे हैं, उनसे किसी सकारात्मक परिणाम की उम्मीद तो नहीं। संविधान निर्माताओं ने राज्यपाल के पद की परिकल्पना राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि और संविधान के संरक्षक के रूप में की थी, लेकिन उनसे जुड़े. विवादों की बढती संख्या अब इस पद की प्रासंगिकता पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रही है। इस संवैधानिक पद की गरिमा के क्षरण के लिए स्वाभाविक ही राजनीति में मूल्यों का पतन जिम्मेदार है, जिसके चलते राजभवन चुनाव पराजितो या वुजुर्ग राजनेताओं के पुनर्वास केंद्र बनते जा रहे हैं। केंद्र में सत्तारूढ. दल द्वारा इस पद पर अपने ही दल के नेताओं या चहेते नौकरशाहों की नियुक्ति की जाती है। इसलिए उसे प्रश्न करने के लिए कई बार वे किसी भी हद तक चले जाते हैं। लंबे समय तक हमने पश्चिम बंगाल में राज्यपाल और निर्वाचित सरकार के बीच टकराव देखा तो केरल भी बीच-बीच में सुखियों में रहा। केंद्रशासित क्षेत्र दिल्ली में तो सरकार और उप राज्यपाल के बीच टकराव स्थायी भाव ही बन चुका है। यह समझना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि इसके मूल में राजनीति ही है, क्योंकि केंद्र और राज्य में सत्तारूढ. दलों के राजनीतिक हित न सिर्फ भिन्न हैं, बल्कि परस्पर विरोधी भी हैं। फिर भी तमिलनाडु का मामला ज्यादा गंभीर है। केंद्र से भिन्न दल की राज्य सरकारों को राज्यपाल पहले भी असहज करते रहे हैं। राज्य सरकारों ने भी प्रत्युत्तर में मर्यादा की लक्ष्मण रेखा पार करने में संकोच नहीं किया, पर तमिलनाडु में जो कुछ हो रहा है, उससे बचा जा सकता था—बचा जाना भी चाहिए। रवि पुलिस से सेवानिवृत्ति के बाद भी कुछ कार्य-दायित्वों में खरे उतरे हैं, लेकिन तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में वह जो कर रहे हैं, वह अवांछित लगता है। प्रक्रिया और परंपरा के मुताबिक राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अभिषेक के कुछ अंशों को न पढ.नेवाला तमिलनाडु का पहला राज्यपाल बन जाने से उनकी या पद की गरिमा बढी. तो नहीं। उन अंशों

में शायद ऐसा आपत्तिजनक भी कुछ नहीं था। राज्य सरकार की मानें तो धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय और महिला सशक्तीकरण की चर्चा ही थी। अगर तमिल संस्कृति और परंपरा का गुणगान था तो उस पर भी आपत्ति क्यों होनी चाहिए? तमिलनाडु भारत का हिस्सा है और उसकी संस्कृति —परंपरा देश के लिए ही गौरव का विषय होनी चाहिए। द्रविड. विचारधारा और आंदोलन के उल्लेख भी बचने का क्या औचित्य है? राज्यपाल द्वारा पूरा अभिभाषण न पढे. जाने पर मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने विधानसभा में प्रस्ताव रखा कि मूल भाषण को ही रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना चाहिए। आश्चर्य नहीं कि वह प्रस्ताव स्वीकृत भी हो गया। उसके विरोध में सदन का बहिष्कार कर राज्यपाल ने क्या संदेश दिया? तमिलनाडु के मतदाताओं ने जनादेश दे कर द्रमुक को सत्ता सौंपी है, जबकि राज्यपाल वह राष्ट्रपति के प्रतिनिधि और संविधान के संरक्षक हैं। अगर दोनों संविधान में उल्लेखित दायरे में अपनी भूमिकाओं का निर्वाह करें तो किसी टकराव की गुंजाइश ही नहीं। रवि की कथनी-करनी से उठा दूसरा विवाद तो और भी अवांछित है। प्रमुख तमिल त्योहार पोंगल के अवसर पर राजभवन में परंपरागत रूप से आयोजित होनेवाले कार्यक्रम के लिए भेजे निर्मण्न पत्र पर उन्होंने स्वयं के लिए तमिलनाडु के राज्यपाल के बजाय न सिर्फ तमिश्नाडा आलुनार या तमिश्नागम के राज्यपाल शब्द का उपयोग किया है, बल्कि प्रतीक चिन्ह भी बदल दिया है। स्वाभाविक ही इस पर राज्य में तनी प्रतिक्रिया हुई है। सत्तारूढ. द्रमुक ने राष्ट्र, विपक्षी अन्नाद्रमुक तक ने इस पर विरोध जताया है। इस पर रवि ने तो अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, बल्कि सुनिश्चित है— और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ एवं भाजपा की विचारधारा के अनुसार भी।

राज्यपाल रवि द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के प्रशिक्षु अधिकारियों से मुलाकात में की गयी टिप्पणियों के आधार पर पर आलोचक ऐसा कह रहे हैं।



मकर संक्रांति का धार्मिक महत्व

इन दो राशियों के लोगों पर मेहरबान रहते हैं सूर्य देव



साथ ही यह श्लोक पढ़ना चाहिए- 'यथा भेदं न पश्यामि शिवविष्णवर्कपद्मजा। ममास्तु विश्वात्मा शंकरः शंकरः सदा।।'

इसका अर्थ है- मैं शिव एवं विष्णु और सूर्य एवं ब्रह्मा में अन्तर नहीं करता। वह शंकर, जो विश्वात्मा है, सदा कल्याण करने वाला हो।

दान करना नहीं है, तो वह केवल फल का दान करें, लेकिन कुछ न कुछ दान जरूर करें।

- मकर संक्रांति को खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन उड़द की दाल और चावल का दान किया जाता है।

- मकर संक्रांति के दिन तिल, चिड़वा, सोना, ऊनी वस्त्र, कंवल आदि दान करने का भी महत्व है। दान के बाद बिना तेल वाला भोजन करना चाहिए और यथाशक्ति अन्य लोगों को भी भोजन देना चाहिए।



वैदिक ज्योतिष में सूर्य ग्रह का अधिक महत्व बताया गया है। सूर्य को देवता माना गया है और इनकी पूजा की जाती है। सूर्य को आत्मा का कारक माना जाता है। आइए जानते हैं किन-किन राशियों पर सूर्य देव मेहरबान रहते हैं और उनकी कृपा से उन्हें करियर और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने की मान्यता है।

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य देव जिस जातक की कुंडली में शुभ प्रभाव में होते हैं। उन्हें कार्यक्षेत्र और करियर में सकारात्मक नतीजे मिलते हैं। वहीं जिन जातकों की कुंडली में सूर्य देव अशुभ प्रभाव में होते हैं। उन्हें कारोबार, निजी जीवन आदि में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सूर्य देव सिंह राशि के स्वामी होते हैं और मेष उच्च राशि होती है।

संक्रांति के दिन दान दक्षिणा या धार्मिक कार्य का सौ गुना फल मिलता है। कहा भी गया है- 'माघे मासे महादेवः यो दास्यति घृतकम्बलम्। स भुक्त्वा सकलान भोगान् अन्ते मोक्षं प्राप्यति॥'

सूर्य के उत्तरायण होने का उत्सव ही मकर संक्रांति कहलाता है इसलिए कहीं-कहीं पर मकर संक्रांति को उत्तरायणी भी कहते हैं। उत्तरायण काल में दिन बड़े हो जाते हैं और रातें छोटी होने लगती हैं। वहीं दक्षिणायन काल में ठीक इसके विपरीत-रातें बड़ी और दिन छोटा होने लगता है।

शास्त्रों में वर्षभर की 12 संक्रांतियों को चार भागों में बांटा गया है- अयन, विषुव, षडशीति – मुख और विष्णुपदी या विष्णुपद संक्रांति। जब सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन और दक्षिणायन से उत्तरायण होता है, यानी सूर्य की मकर और कर्क संक्रांति 'अयन संक्रांति' कहलाती है।

जब रात– दिन बराबर होते हैं, यानी मेष और तुला संक्रांति को 'विषुव संक्रांति' कहते हैं। इसके अलावा मिथुन, कन्या, धनु और मीन संक्रांति को 'षडशीति–मुख' जबकि वृष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ संक्रांति को 'विष्णुपदी' या 'विष्णुपद' कहते हैं।

मकर संक्रांति में स्नान दान का है खास महत्व – सभी संक्रांति पर तीर्थस्थलों पर स्नान और दान का बड़ा ही महत्व है। मकर संक्रांति के दिन गंगा नदी में स्नान का विशेष महत्व है। लेकिन अगर आप वहां जाने में असमर्थ हैं तो इस दिन घर पर ही सामान्य पानी से

स्नान करना चाहिए। संभव हो तो उस जल में थोड़ा सा पवित्र नदियों का जल मिलाना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति का स्वास्थ्य उत्तम बना रहता है और उसे धन की कोई कमी नहीं होती।

- कहते हैं संक्रांति से एक दिन पूर्व व्यक्ति को केवल एक बार मध्याह्न में भोजन करना चाहिए। वहीं संक्रांति के दिन दांतों को साफ करके जल में तिल मिलाकर स्नान करना चाहिए या स्नान से पहले तिल का तेल या तिल का उबटन लगाना चाहिए।

- इस दिन व्यक्ति को किसी गृहस्थ ब्राह्मण को भोजन या भोजन सामग्रियों से युक्त तीन पात्र देने चाहिए और संभव हो तो यम, रुद्र और धर्म के नाम पर गाय का दान करना चाहिए। यदि किसी के बस में ये सब



सिंह और मेष राशि पर रहती है सूर्य देव की कृपा मान्यता के अनुसार सिंह और मेष राशि के जातकों पर सूर्य देव की कृपा रहती है। इन राशियों के जातकों को हमेशा सूर्य देव का साथ मिलता है। जातकों को कार्यक्षेत्र और नौकरी में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। वहीं कारोबार में बढ़ोतरी और मुनाफा भी होने की मान्यता है।

सूर्य ग्रह के उपाय
ज्योतिष शास्त्र में कई उपाय बताए गए हैं, जिन्हें करने से कुंडली में सूर्य देव की स्थिति मजबूत होने की मान्यता है। आइए जानते हैं कि वह उपाय कौन से हैं, जिन्हें करने से सूर्य देव का साथ मिल सकता है।

-रविवार को सूर्य देव की पूजा करें और व्रत रहें।
-रविवार को लाल और केसरिया रंग का वस्त्र धारण करें।
-गुड़, गेहूं, तांबा आदि वस्तुओं का दान करें।
-रूबी माणिक्य धारण करें।
-1 मुखी रूद्राक्ष धारण करें।
मान्यता के अनुसार इन उपायों को करने से कुंडली में सूर्य देव की स्थिति मजबूत होती है। जिसका सकारात्मक प्रभाव जातक के जीवन पर पड़ता है। कारोबार, करियर और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलती है।

क्यों मनाया जाता है भोगी पोंगल का त्योहार

क्या-क्या होता है इस दिन

उत्तरायण पर भीष्म पितामह ने त्यागे थे प्राण

उत्तर भारत, मध्य भारत मकर संक्रांति व पंजाब में लोहड़ी की खास रीनक होती है। वहीं, इस दिन दक्षिण भारत में पोंगल का त्योहार मनाया जाता है। इस साल पोंगल 15 जनवरी 2023 को मनाया जाएगा। इस का संबंध भगवान सूर्य देव और खेती से जुड़ा हुआ है। फसलों के लिए भगवान सूर्य नारायण की विशेष पूजा की जाती है। आस्था और संपन्नता का प्रतीक पोंगल का पर्व चार दिन तक मनाया जाता है। प्रत्येक दिन पोंगल का अलग अलग नाम होता है। पहले दिन भोगी पोंगल, दूसरे दिन



सूर्य पोंगल, तीसरे दिन मट्ट पोंगल और चौथे दिन कानुम पोंगल कहते हैं। आइये जानते हैं जानते हैं क्या है भोगी पोंगल और इसका महत्व क्या है।

भोगी पोंगल का महत्व
दक्षिण भारत में मनाया जाने वाले इस त्योहार की शुरुआत भोगी पोंगल से होती है। पहला दिन भगवान इंद्रदेव को समर्पित होता है। इस इंद्र पोंगल भी कहा जाता है। इस दिन अच्छी फसल के अच्छी बारिश हो इसलिए इंद्र देव को प्रसन्न किया जाता है।

कहते हैं कि इंद्रदेव की पूजा से सुख-समृद्धि और खुशी आती है। भोगी पोंगल का महत्व इसलिए भी है कि इस दिन ही तमिल के नये वर्ष की शुरुआत होती है। इस दिन भोगी पोंगल पर लोग सुबह स्नान करने के बाद भगवान इंद्रदेव की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। घरों की सफाई की जाती है। घर से पुरानी व अनुपयोगी वस्तुओं जैसे कबाड़ को बाहर कर दिया जाता है। साफ-सफाई के बाद चावल के सफेद पेस्ट से घर को सजाया जाता है। घर के आंगन व मुख्य द्वार पर कोलम बनाया जाता है और इस जगह पोंगल तैयार किया जाता है। भोगी पोंगल की संख्या पर लोग इकट्ठा होकर भोगी कोट्टम बजाते हुए लोकगीत गाते हैं और एक दूसरे को बधाइयां देते हैं और मिठाइयां खिलाते हैं।



उत्तरायण पर भीष्म पितामह ने त्यागे थे प्राण

इस बार मकर संक्रांति की तारीख को लेकर पंचांग भेद हैं। कुछ पंचांग में 14 को और कुछ में 15 जनवरी को मकर संक्रांति बताई गई है। इस पर्व को उत्तरायण भी कहा जाता है। मकर संक्रांति का संबंध में धर्म, ज्योतिष और खगोल विज्ञान से है। संक्रांति पर पूजा-पाठ, तीर्थ दर्शन और नदी में स्नान करने की परंपरा है। इस दिन सूर्य धनु से मकर राशि में प्रवेश करता है और सूर्य दक्षिणायण से उत्तरायण होता है। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पं. मनीष शर्मा कहते हैं कि महाभारत के समय भीष्म पितामह ने अपनी मृत्यु के लिए उत्तरायण का दिन चुना था। युद्ध खत्म होने के बाद उत्तरायण के दिन भीष्म पितामह ने प्राण त्यागे थे। जानिए भीष्म पितामह से जुड़ी कुछ खास बातें...महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित महाभारत ग्रंथ के मुताबिक भीष्म पितामह को अपने पिता शांतनु से इच्छामृत्यु का वरदान मिला था। इस वरदान की वजह से भीष्म पितामह बाणों की शय्या पर रहने के बाद भी जीवित थे। उन्होंने अपनी मृत्यु के लिए सूर्य के उत्तरायण होने का ईंतजार किया था।

भीष्म ने पांडवों को खुद बताया था अपनी पराजय का उपाय
जब महाभारत युद्ध शुरू हुआ तो भीष्म को कौरव सेना का सेनापति बनाया गया। युद्ध में पांडव भीष्म को पराजित नहीं कर पा रहे थे। भीष्म लगातार पांडव सेना को खत्म कर रहे थे। श्रीकृष्ण जानते थे कि अगर भीष्म जीवित रहेंगे तो पांडवों की जीत नहीं हो पाएगी। इसलिए एक दिन युद्ध के बाद वे सभी पांडवों के लेकर भीष्म के पास पहुंचे। श्रीकृष्ण



और पांडवों ने भीष्म से उन्हें पराजित करने का उपाय पूछा था।उस समय भीष्म पितामह ने बताया था कि वे रिव्यों पर प्रहार नहीं करते हैं। इसके बाद पांडवों ने योजना बनाई। अर्जुन के रथ पर शिखंडी भी सवार हो गया। युद्ध में जैसे ही भीष्म ने शिखंडी को देखा तो उन्होंने धनुष-बाण नीचे रख दिए, क्योंकि भीष्म शिखंडी को स्त्री ही मानते थे, क्योंकि वह पहले एक स्त्री ही था, बाद में पुरुष बना था। अर्जुन ने शिखंडी को आगे रखकर भीष्म पर प्रहार किए और भीष्म पराजित हो गए। अर्जुन ने भीष्म को इतने बाण मारे कि वे बाणों की शय्या पर पहुंच गए। इस तरह भीष्म पितामह को अर्जुन ने पराजित कर दिया। युद्ध के दसवें दिन भीष्म हुए थे पराजित महाभारत युद्ध के शुरुआती 9 दिनों तक पांडव भीष्म को पराजित नहीं कर पाए थे, लेकिन दसवें दिन अर्जुन ने भीष्म को पराजित किया। इसके बाद 8 दिनों में पांडवों ने कौरवों को हरा दिया था।



अगले तीन महीनों तक सूर्य-शनि का अशुभ योग बना रहेगा। जिससे राजनीतिक, प्रशासनिक और बड़े मौसमी बदलाव हो सकते हैं। 14 जनवरी की रात को सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर शनि के साथ हो जाएगा। फिर दो दिन बाद यानी 17 को शनि राशि बदलकर कुंभ में चला जाएगा। जिससे सूर्य-शनि का अशुभ द्विद्वादश योग एक महीने तक रहेगा। 13 फरवरी से फिर सूर्य-शनि एकसाथ कुंभ राशि में रहेंगे। इसके बाद 15 मार्च को सूर्य मीन राशि में चला जाएगा। जिससे 14 अप्रैल तक फिर से सूर्य-शनि का अशुभ द्विद्वादश योग रहेगा।

राजनीति में बड़े बदलाव और विवाद की आशंका

सूर्य का राशि परिवर्तन: खत्म होगा बुधादित्य योग 14 अप्रैल तक रहेगा सूर्य-शनि का अशुभ असर

14 जनवरी को बुधादित्य शुभ योग खत्म होगा। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा और शनि के साथ रहेगा। लेकिन अब

इन दिनों शनि अपनी ही राशि में है। सूर्य पर राहु की दृष्टि भी पड़ रही है। ग्रहों की ये स्थिति ठीक नहीं है। सूर्य के राशि बदलने का असर सभी 12 राशियों पर पड़ेगा। जिससे ज्यादातर लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। कई लोग मानसिक और शारीरिक तौर से तो परेशान रहेंगे ही साथ ही सेहत संबंधी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। शनि-सूर्य का अशुभ योग बनने से राजनीतिक नजरिये से समय अनकूल नहीं रहेगा। बड़े बदलाव और विवाद होने की आशंका है।

अशुभ असर से बचने के उपाय
रोज सुबह पानी में तिल और लाल चंदन डालकर नहाएं। उगते हुए सूरज को जल चढ़ाएं। सूर्य और शनि के अशुभ असर से बचने के लिए पीपल के पेड़ में जल चढ़ाएं और धी की दीपक लगाकर उसकी परिक्रमा करें। शाम को हनुमानजी और शनि देव के मंदिर में तिल के तेल का दीपक लगाएं। शनि देव को तिल या सरसों का तेल चढ़ाएं। जरूरतमंद लोगों को भोजन और गर्म कपड़ों का दान करें।



मिशन 2023 वनडे वर्ल्ड कप में जुटा भारत इन खिलाड़ियों में से चुनी जाएगी टीम?

भारतीय टीम ने इस साल अपने घर में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप की तैयारी शुरू कर दी है। टीम इंडिया फिलहाल श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है। यह इस साल भारतीय टीम की पहली वनडे सीरीज है। इस साल वनडे वर्ल्ड कप से पहले भारत को 12 तय वनडे (श्रीलंका के तीनों मैच मिलाकर) मैच खेलने हैं। इसके अलावा एशिया कप भी है। इतना ही नहीं, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने एक जनवरी को हुई रिव्यू मीटिंग में मिशन 2023 वर्ल्ड कप के लिए कई प्लान तैयार किए थे।

बीसीसीआई ने बताया था कि वनडे वर्ल्ड कप के लिए 20 खिलाड़ियों को तय किया गया है, जिन्हें समय समय पर रेटेट किया जाएगा। साथ ही इनके वर्कलोड मैनेजमेंट पर नेशनल क्रिकेट एकेडमी चयनकर्ताओं के साथ मिलकर काम करेगा। हालांकि, बोर्ड ने उन 20 खिलाड़ियों का नाम नहीं बताया था। हालांकि, फैंस ने 20 खिलाड़ियों के रोस्टर को लेकर कयास लगाना शुरू कर दिया है।

हम आपको 28 खिलाड़ियों की लिस्ट बता रहे हैं, जिनमें से खिलाड़ियों को अलग-अलग वनडे सीरीज के लिए रेटेट किया जा सकता है। इन्हीं में से वनडे वर्ल्ड कप के लिए भारतीय स्क्वाड को चुना जा सकता है। इन 28 खिलाड़ियों में पांच ओपनर्स हैं। मध्यक्रम के छह बल्लेबाज हैं, जबकि पांच फिनिशर या यूं कहें ऑलराउंडर्स हैं। नौ तेज गेंदबाजों को भी इस रोस्टर में शामिल किया गया है। वहीं, स्पेशलिस्ट स्पिनर के तौर पर तीन खिलाड़ी हैं।

रोहित, शुभमन, ईशान, धवन और

ऋतुराज ओपनर्स के तौर पर जो नाम वर्ल्ड कप के लिए प्रमुख हैं, उनमें कप्तान रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ईशान किशन, शिखर धवन और ऋतुराज गायकवाड़ प्रमुख हैं। हालांकि, रोहित, शुभमन, ईशान और धवन इस रोल के लिए पसंदीदा होंगे, लेकिन धवन को श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया का हिस्सा नहीं बनाया गया। ऐसे में यह देखने वाली बात होगी कि चयनकर्ता आगामी सीरीज के लिए धवन को वापस बुलाते हैं या नहीं। शुभमन और ईशान शानदार फॉर्म में चल



हार्दिक, अक्षर, जडेजा, सुंदर और हुडा

रहे हैं। ओपनर्स की लिस्ट : रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ईशान किशन (विकेटकीपर), शिखर धवन, ऋतुराज गायकवाड़ **मध्यक्रम में कौन-कौन रोस्टर में शामिल?** मध्यक्रम में बल्लेबाजी के लिए विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव और केएल राहुल का स्क्वाड में चुना जाना लगभग तय है।

मध्यक्रम बल्लेबाजों की लिस्ट : विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्यकुमार यादव, केएल राहुल (विकेटकीपर), संजू सैमसन



कप्तान रोहित शर्मा, शुभमन गिल, ईशान किशन, शिखर धवन और ऋतुराज गायकवाड़

(विकेटकीपर), ऋषभ पंत (विकेटकीपर) (चोटिल), **फिनिशर-ऑलराउंडर में कौन-कौन रोस्टर में शामिल?**

भारत के बेस्ट ऑलराउंडर्स में से एक हैं और उनका रहना टीम के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। इन तीनों के अलावा वॉशिंगटन सुंदर और दीपक हुड्डा भी ऑलराउंडर के तौर पर चयनकर्ताओं के निशाने पर होंगे। **फिनिशर/ऑलराउंडर्स की लिस्ट** हार्दिक पांड्या (पेस बॉलर), अक्षर पटेल (स्पिनर), रवींद्र जडेजा (स्पिनर) (चोटिल), वॉशिंगटन सुंदर (स्पिनर), दीपक हुड्डा (स्पिनर) **तेज गेंदबाजों के रोस्टर में कौन-कौन शामिल?**

भारतीय टीम ने पिछले कुछ वर्षों में पेस बैटरी का पूरा एक खेमा तैयार कर लिया है। जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी जैसे

दिग्गज तेज गेंदबाजों के चोटिल होने का भी बाकी तेज गेंदबाजों का फायदा मिला है। इस दौरान

सिराज, अर्शदीप सिंह, उमरान मलिक जैसे गेंदबाज उभर कर सामने आए। बुमराह अगर फिट रहते हैं तो उनका, शमी और सिराज का स्क्वाड में चुना जाना लगभग तय है। प्रसिद्ध कृष्णा भी चयनकर्ताओं की नजर में होंगे, लेकिन वह फिलहाल चोटिल हैं। इनके अलावा अर्शदीप, उमरान, शार्दूल ठाकुर, दीपक चाहर और कुलदीप सेन में से किसी को स्क्वाड में शामिल किया जा सकता है।

तेज गेंदबाजों की लिस्ट

जसप्रीत बुमराह (चोटिल), मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज

अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा (चोटिल), उमरान मलिक, शार्दूल ठाकुर, दीपक चाहर, कुलदीप सेन इस साल विश्व कप भारत में होना है, जिसमें स्पिनर्स की भूमिका अहम होगी। ऐसे में युजवेंद्र चहल और चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव का चुना जाना लगभग तय है। कुलदीप फिलहाल शानदार फॉर्म में हैं। वहीं, चहल भी किरायाती साबित हो रहे हैं। इनके अलावा रवि बिश्नोई भी चयनकर्ताओं की लिस्ट में शामिल होंगे।



स्पेशलिस्ट स्पिनर्स की लिस्ट : युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, रवि बिश्नोई

मैंने अभी टी-20 छोड़ा नहीं है: रोहित शर्मा श्रीलंका के खिलाफ बीसीसीआई ने दिया था आराम

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कहा है कि मैंने टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ा नहीं है। भारतीय कप्तान ने यह बयान उन्हें फटाफट फॉर्मेट से ड्रॉप करने की अटकलों के बीच दिया है। दरअसल, बीते दिनों कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि अब टी-20 टीम के लिए रोहित शर्मा और केएल राहुल के नाम पर विचार नहीं किया जाएगा। बीसीसीआई सूत्रों ने कहा था- 'टीम मैनेजमेंट हार्दिक पंड्या की कप्तानी में युवा टी-20 टीम तैयार कर रही है। यही युवा टीम 2024 के दौरान वेस्टइंडीज और अमेरिका में होने वाला वर्ल्ड कप खेलेगी।

रोहित ने कहा, 'लगातार कई इंटरनेशनल मैच खेलना किसी भी खिलाड़ी के लिए पॉसिबल नहीं है। तीनों फॉर्मेट खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए ब्रेक जरूरी है। मैं भी उन्हीं खिलाड़ियों का हिस्सा हूं। हमें न्यूजीलैंड के खिलाफ 3 टी-20 खेलने हैं। उसके बाद आईपीएल भी होगा। उसके बाद ही देखेंगे आगे क्या करना है। लेकिन, इस वक्त एक



चीज साफ है कि मैंने टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं छोड़ा है।' **वनडे वर्ल्ड कप है पहली प्राथमिकता** भारत अक्टूबर-नवंबर में वनडे वर्ल्ड कप होस्ट कर रहा है। पिछले दिनों BCCI की रिव्यू मीटिंग में कई

अहम फैसले लिए गए। वनडे वर्ल्ड कप के लिए 20 खिलाड़ियों की सूची तैयार करने की बात कही गई और आगे के मैचों में इन्हीं 20 खिलाड़ियों को आजमाने पर भी फैसला किया गया। हालांकि, उस सूची में शामिल 20 खिलाड़ियों के नामों की घोषणा अब तक नहीं की गई है। माना जा रहा है कि रोहित, विराट सहित श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए शामिल किए गए सभी खिलाड़ी इस लिस्ट में शामिल होंगे। इनके अलावा फिट होने पर कार एक्सीडेंट में घायल हुए पंत, रवींद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह को भी शामिल किया जाएगा। रिव्यू मीटिंग में सीनियर खिलाड़ियों को चोट से बचाने के लिए अहम कदम उठाने की बात भी कही गई है। टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड भी श्रीलंका के खिलाफ टी-20 सीरीज के दौरान कह चुके हैं कि टी-20 में युवा खिलाड़ियों को ही मौका दिया जाएगा। 2024 में होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया युवाओं की ही होगी।

रवींद्र जडेजा से संजू सैमसन तक, चोट से जूझ रहे हैं भारत के ये खिलाड़ी

भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर हो चुके हैं। सीरीज के पहले टी20 के दौरान सैमसन के घुटने में चोट लगी थी। उनसे पहले कई खिलाड़ी चोटिल हो चुके हैं। कुछ लंबे समय से क्रिकेट से दूर हैं, तो कुछ वापसी करने की तैयारी में हैं। टीम इंडिया के कप्तान रोहित शर्मा और अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए चुने गए हैं। दोनों चोट के बाद वापसी के लिए तैयार हैं।

आइए भारत के चोटिल खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं...

रवींद्र जडेजा: एशिया कप के बाद से ही जडेजा घुटने की चोट के कारण पेशेवर क्रिकेट से दूर हैं। वह एशिया कप के दौरान ही चोटिल हो

गए थे। साथ ही टी20 वर्ल्ड कप में भी टीम का हिस्सा नहीं रहे थे। उसके बाद बांग्लादेश के खिलाफ वनडे टीम में चुने जाने के बाद वह फिट नहीं हो सके और बाहर हो गए। जडेजा को श्रीलंका के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज के लिए नहीं चुना गया है।

नवदीप सैनी: चोट के बाद वापसी करने वाले नवदीप सैनी ने बांग्लादेश ए के खिलाफ दो प्रथम श्रेणी मैच में छह विकेट लिए थे। इसके बाद उनका चयन बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए हुआ था। हालांकि, सैनी दूसरे टेस्ट से पहले टीम से बाहर हो गए। पेट की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण उन्हें टीम का साथ छोड़ना पड़ा।

मोहम्मद शमी: भारत के अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी

बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज से ठीक पहले चोटिल हो गए थे। दाएं कंधे में चोट के बाद शमी टीम इंडिया से बाहर हो गए। वह अपने कंधे का इलाज करवा रहे हैं और उनके जल्द ठीक होने का अनुमान लगाया जा रहा है।

संजू सैमसन: सैमसन घुटने की चोट के कारण श्रीलंका के खिलाफ टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह जितेश शर्मा को भारतीय टीम में शामिल किया गया है।

सैमसन को मुंबई में सीरीज के पहले मैच में फोल्डिंग के दौरान घुटने में चोट लगी थी। पहले टी20 मैच के दौरान बाउंड्री के पास गेंद रोकने की कोशिश में सैमसन के बाएं घुटने में चोट लग गई थी।

क्या विराट समेत इन टॉप खिलाड़ियों का आईपीएल से कट सकता है पता?

खिलाड़ियों के वर्कलोड को कम करने के लिए आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट को भी दांव पर लगा देंगे रोजर बिन्नी

साल 2022 बीत चुका है और नया साल 2023 शुरू हो चुका है। अगर साल 2022 की बात करें तो यह साल भारतीय क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं रहा है। साल 2022 में T20 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में खेला गया था, जिसमें भारत को इंग्लैंड के हाथों सेमीफाइनल मुकाबले में करारी हार का सामना करना पड़ा था और टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता देखना पड़ा था। इसी हार को मध्य नजर रखते हुए बीसीसीआई ने नए साल के पहले दिन ही एक रिव्यू मीटिंग की। इस रिव्यू मीटिंग के दौरान बीसीसीआई ने कुछ कड़े फैसले लिए हैं और वह कुछ अलग करने के मूड में नजर आ रही है।



का हिस्सा हो सकते हैं। BCCI द्वारा खिलाड़ियों पर वर्क लोड होने के कारण होने आईपीएल में खेलने से भी रोका जा सकता है। आइए उन खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं जिन्हें बीसीसीआई



गई है जो आईपीएल 2023 को मिस कर सकते हैं। इस लिस्ट में विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, रवींद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या जैसे 5 टॉप खिलाड़ी शामिल हैं, जो आईपीएल के कुछ मैचों को मिस कर सकते हैं।

सभी पांच खिलाड़ी आईसीसी के दोनों बड़े टूर्नामेंटों का हिस्सा होंगे, इसीलिए इन पर वर्क लोड कम किया जाएगा। इन खिलाड़ियों का फिट होना बहुत जरूरी है। इंडियन प्रीमियर लीग एक ऐसा टूर्नामेंट है जो पूरे 1 महीने तक खिलाड़ियों को बिजी रखता है और इसी कारण बीसीसीआई यह कड़ा फैसला लिया है ताकि इन खिलाड़ियों पर प्रेशर कम किया जा सके।

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने यह कड़ा फैसला पिछली घटनाओं को देखते हुए लिया है। हालांकि बीसीसीआई हर साल आईपीएल टूर्नामेंट से काफी मोटी रकम कमाती है। अगर इस तरह भारतीय टीम के टॉप खिलाड़ी टूर्नामेंट नहीं खेलेंगे तो इसका रोमांच खत्म हो जाएगा। बीसीसीआई ने यह फैसला खिलाड़ियों को हो रहे वर्कलोड

और इंजरी के कारण लिया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप जसप्रीत बुमराह को देख सकते हैं जो पिछले कई महीनों से भारतीय टीम से बाहर हैं क्योंकि वह चोटिल है। वह साल 2022 में ओए T20 वर्ल्ड कप में भी नहीं खेल पाए थे और इसीलिए शायद भारतीय टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई। टीम इंडिया सेमीफाइनल मुकाबले में 1 विकेट लेने में नाकामयाब रही और इसलिए यह फैसला काफी हितकर साबित हो सकता है।

बिन्नी ने किया वादा पूरा

बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने रोजर बिन्नी ने पद संभालते ही सबसे पहले खिलाड़ियों के चोटिल होने पर चिंता जताई थी। जिसके बारे में उन्होंने कुछ नया करने के लिए भी कहा था। बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने रविवार को हुई मीटिंग के दौरान ये अद्भुत फैसला लेते हुए अपना वादा पूरा किया। यह बात किसी के दिमाग में नहीं आई होगी कि रोजर बिन्नी खिलाड़ियों के वर्कलोड को कम करने के लिए आईपीएल जैसे बड़े टूर्नामेंट को भी दांव पर लगा देंगे।



भारत के स्टार क्रिकेटर ऋषभ पंत के बारे में कौन नहीं जानता। बीते दिनों वह सुर्खियों में रहे इस बार उनकी सुर्खियों में रहने की वजह उनके साथ हुआ कार हादसा था। उसी हादसे के कारण वह दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं और उनको लेकर लोग लगातार उनके बेहतरी की प्रार्थना भी कर रहे हैं। ऋषभ पंत ने अपने दमदार खेल की वजह से अपनी पहचान बहुत कम समय में ही बना ली थी। उनकी प्रतिभा के बल बूते उन्होंने भारतीय टीम में भी बहुत जल्द एंट्री की थी। लेकिन ऐसी कई चीजें हैं जिसमें वह अपने साथी खिलाड़ियों को काफी पीछे छोड़ चुके हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में ऋषभ पंत भारत के उन चुनिंदा अमीर खिलाड़ियों में शुमार हैं जिनकी आए बाकियों से काफी ज्यादा है।

आज हम ऋषभ पंत की कुल संपत्ति के बारे में जानेंगे। जानकारी के अनुसार 2022 के संपत्ति के आंकड़े को देखने के बाद यह बताया गया कि ऋषभ पंत के पास कुल संपत्ति 70 करोड़ रुपये नकद राशि है। इसे उन्होंने भारतीय बोर्ड से कमाई है। इसके अलावा ऋषभ

उनकी बेशुमार सम्पत्ति को देखें तो यह कहना गलत नहीं होगा की वह बिना किसी परेशानी आजीवन आराम से अपनी जिंदगी बिता सकते हैं

से पता चलता है कि ऋषभ पंत इस दर्जे के खिलाड़ी हैं। इस कमाई के साथ साथ इस खिलाड़ी को गाड़ियों का भी बेहद शौक है।

अपने शौक को पूरा करते हुए ऋषभ पंत के पास कई गाड़ियां भी हैं। हाल ही में हुई दुर्घटना में ऋषभ पंत को काफी चोट आयी है। लेकिन उनकी बेशुमार सम्पत्ति को देखें तो यह कहना गलत नहीं होगा की वह बिना किसी परेशानी आजीवन आराम से अपनी जिंदगी बिता सकते हैं। बताया जाता है कि



जिस कार से ऋषभ पंत का हादसा हुआ वह कार करोड़ों की थी। यही नहीं बल्कि ऋषभ पंत ऐसे तीन गाड़ियों के मालिक हैं जो पूरे भारत में किसी के पास नहीं है। वे बेहद महंगे गाड़ियों के काफी शौकीन हैं। यही नहीं बल्कि उनके पास दिल्ली में तीन घर भी हैं इसके अलावा उत्तराखंड में एक फार्महाउस भी उनके नाम हैं। इन से पता चलता कि ऋषभ पंत की लाइफ काफी लज्जिरियस है।





केंद्रीय आईटी राज्यमंत्री चंद्रशेखर ने कहा स्व-नियामक निकाय पर नहीं होगा उद्योगों का कब्जा

नई दिल्ली, 13 जनवरी (एजेंसियां)। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार डिजिटल यूजर की सुरक्षा के नए नियमों के साथ ऑनलाइन गेमिंग के विकास के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन प्रस्तावित स्व-नियामक निकाय (एसआरओ) पर उद्योग के कब्जे की इजाजत नहीं देगी।

बीते सप्ताह पेश किए गए ऑनलाइन गेमिंग विनियमन मसौदे के तहत एसआरओ भी प्रस्तावित किया गया है। इसके दो काम होंगे। पहला, डिजिटल स्पेस में नागरिकों के हितों की रक्षा करना और दूसरा, देश के कानूनों, नागरिक हितों को ध्यान में रखकर ऑनलाइन गेमिंग को मंजूरी देना। राजीव चंद्रशेखर ने बताया, केंद्र ने मसौदे पर व्यापक सार्वजनिक परामर्श शुरू किया है। बुधवार को हितधारकों माता-पिता, छात्रों और शिक्षाविदों के साथ पहली बार हुई चर्चा में सभी की चिंताओं, उम्मीदों और सुझावों को सुना गया। कई



शिक्षकों ने आग्रह किया कि प्रस्तावित स्व-नियामक निकाय ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के इशारों पर संचालित न हो, बल्कि दोनों में एक मानक दूरी रहे। इसे लेकर आईटी मंत्री ने कहा, नियामक निकाय उद्योग या नागरिक हितों के खिलाफ नहीं होगा। ऑनलाइन गेमिंग

एसआरओ को जवाबदेही और पारदर्शिता के सिद्धांतों पर आधारित बताते हुए चंद्रशेखर ने कहा, वह प्रस्तावित बोर्ड की तरफ से तय दायित्वों को पूरा करेगा। प्रतिभागियों ने सुझाव दिया कि एसआरओ को व्यापक अधिकार दिए जाएं, ताकि यह गेम सामग्री, और व्यसन उत्पन्न करने वाले मनोवैज्ञानिक मुद्दों को नियंत्रित कर सके।

बोर्ड और एसआरओ में गेमिंग, स्पोर्ट्स व एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के प्रमुख लोग शामिल होंगे, जो खेलने वालों का प्रतिनिधित्व करेंगे। इसके अलावा एक मनोविज्ञानी व ग्राहक शिक्षा से जुड़ा व्यक्ति तथा लोक नीति, कानून प्रवर्तन, सार्वजनिक वित्त जैसे मसलों के विशेषज्ञ भी इसमें शामिल होंगे। इसमें तकनीक विशेषज्ञों को भी शामिल किया जाएगा। आईटी मंत्री ने कहा कि सरकार चाहती है कि ऑनलाइन गेमिंग देश की डिजिटल इकोनॉमी का प्रमुख हिस्सा बने, देश

शनिवार, 14 जनवरी, 2023 वित्त-वाणिज्य स्वतंत्र वार्ता,हैदराबाद

सेंसेक्स 303 अंक चढ़कर 60,261 पर बंद, निफ्टी भी 98 अंक चढ़ा

मुंबई, 13 जनवरी (एजेंसियां)। तीन दिनों की गिरावट के बाद आज यानी शुक्रवार (13 जनवरी) को शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 303 अंक चढ़कर 60,261 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 98 अंक उछलकर 17,956 के स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स के 30 में से 20 शेयरों में बढ़त रही। वहीं सिर्फ 10 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। आज सोना अपने ऑल टाइम हाई तक पहुंच गया है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के



मुताबिक, 13 जनवरी को सराफा बाजार में सोना 365 रुपए महंगा होकर 56 हजार 462 रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले इसी

महीने 9 जनवरी को सोना सबसे महंगा हुआ था। तब 10 ग्राम के दाम 56 हजार 336 रुपए हुए थे। आईटी कंपनी विप्रो लिमिटेड ने अक्टूबर-दिसंबर तिमाही के नतीजे जारी किए हैं। इसके अनुसार अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड मुनाफा 2695 करोड़ रुपए से बढ़कर 3050 करोड़ रुपए रहा। तिमाही आधार पर कंसोलिडेटेड इनकम 22540 करोड़ रुपए बढ़कर 23230 करोड़ रुपए रही। कंपनी ने 1 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड देने का एलान किया।

बैंक में है काम तो जल्द निपटा लें, इस महीने होने वाली है हड़ताल

नई दिल्ली, 13 जनवरी (एजेंसियां)। अगर आप भी इस महीने बैंक से जुड़ा कोई काम ब्रांच में जाकर निपटाना चाहते हैं तो आपको अपना प्लान बदल लेना चाहिए। ऐसा इसलिए है, क्योंकि महीने के आखिर में बैंक कर्मचारियों ने हड़ताल करने का एलान किया है। बैंक यूनियनों के संगठन, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस ने हड़ताल का आह्वान किया है। यह फेसला गुरुवार को मुंबई में हुई यूएफबीयू की बैठक में लिया गया। अगर 30 और 31 जनवरी को हड़ताल होती है तो बैंक लगातार चार दिन बंद रहेंगे। ऐसा इसलिए है क्योंकि 28 जनवरी को चौथा शनिवार और 29 जनवरी रविवार होने के कारण साप्ताहिक अवकाश है। 30 और 31 जनवरी को हड़ताल होने

के चलते बैंक बंद रह सकते हैं। इस तरह 4 दिन बाद ही 1 फरवरी को बैंक खुलेंगे। लगातार 4 दिन बैंक बंद होने से ग्राहकों को काफी परेशानी हो सकती है। एटीएम में नकदी खत्म होने और चेक क्लियरेंस जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। बैंक कर्मचारी अपनी कुछ मांगों को मानने की अपील पिछले काफी दिनों से कर रहे हैं। सरकार द्वारा ये मांगे पूरी न करने पर ही अब कर्मचारी सरकार पर दबाव बनाने के लिए 30 जनवरी से दो दिनों की हड़ताल पर जा रहे हैं। अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ के एक अधिकारी ने कहा कि 30 और 31 जनवरी को बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। एआईबीईए ने कहा कि उन्होंने अपनी मांगों पत्रों के जरिये भारतीय बैंक संघ को भेजी हैं।

हर सफेद चावल बासमती नहीं! एलन मस्क तुमसे ना हो पाएगा!

एफएसएसआई ने पहली बार बताई असली चावल की पहचान, अब दुकानदार नहीं दे पाएंगे धोखा

नई दिल्ली, 13 जनवरी (एजेंसियां)। हमारे देश में बासमती चावल का क्रेज बहुत ज्यादा है और यह मध्य वर्गीय परिवारों के स्टैंडर्ड का भी हिस्सा है. लेकिन, अक्सर हम असली बासमती चावल की पहचान नहीं कर पाते और दुकानदार भी हमें चूना लगा जाते हैं. अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने उपभोक्ताओं को असली बासमती चावल की पहचान करने के लिए खास तरीका बताया है. एफएसएसएआई ने पहली बार बासमती चावल के स्टैंडर्ड बताया है। एफएसएसएआई ने देश में बिकने वाले सभी तरह के बासमती चावल के रूप-रंग और सुगंध को लेकर मानक तैयार किए हैं, जो 1 अगस्त 2023 से लागू होंगे. इसमें



ब्राउन बासमती चावल, मिलड बासमती चावल, उसना भूरा बासमती और मिलड उसना बासमती चावल शामिल है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है की एफएसएसएआई ने पहली बार बासमती चावल के स्वाद और सुगंध को लेकर स्पष्ट व्याख्या दी है और अब किसी भी ग्राहक के लिए इसकी पहचान करना आसान हो जाएगा. दुकानदार भी चावल में मिलावटी सुगंध के

जरिये बासमती बताकर उसे नहीं बेच सकेंगे। मामले से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि देश में बासमती चावल के साथ मिलावट के सबसे ज्यादा मामले सामने आते हैं. इस पर रोक लगाने के लिए एफएसएसएआई क्वालिटी पैरामीटर बना रहा है. सबसे ज्यादा मामले गैर बासमती चावल की मिलावट को लेकर आते हैं. चूंकि, इसकी कीमत गैर बासमती से ज्यादा होती है लिहाजा दुकानदार इसमें मिलावट करके ऊंची कीमतों पर बेच देते हैं. बासमती को सिर्फ भारत ही नहीं दुनियाभर में पसंद किया जाता है।

इंफोसिस ने दिसंबर तिमाही में 6000 फ्रेशर्स हायर किए

बोली-31 मार्च तक 50 हजार का लक्ष्य होगा पूरा

नई दिल्ली, 13 जनवरी (एजेंसियां)। आईटी कंपनी इंफोसिस ने वित्तीय वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही में 6000 फ्रेशर्स को हायर किया है। वित्तीय वर्ष 2022-2023 की शुरुआत में कंपनी ने 50000 फ्रेशर्स की हायरिंग का लक्ष्य रखा था। कंपनी ने उनमें से 40000 लोगों की बहाली साल के पहले छह महीने में ही कर ली थी। कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर निलांजन रॉय के अनुसार कंपनी अपना वार्षिक लक्ष्य हासिल करगी और वह अपने लक्ष्य में कोई परिवर्तन नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि साल के अंत तक हम अपनी हायरिंग का लक्ष्य हासिल करने के करीब होंगे। हमने अभी से ही बहाली शुरू कर दी है। रॉय ने कहा कंपनी के पास फ्रेशर्स की

एक बड़ी पाइपलाइन है जो मैसूर में इंफोसिस के प्रशिक्षण कार्यक्रम से गुजरती है। वे अब बेंच पर हैं। हम उन्हें प्रशिक्षित कर रहे हैं, उन्हें फिर से कुशल बना रहे हैं। वास्तव में इससे हमें विकास में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि बीते साल हमने बड़ी संख्या में फ्रेशर्स हायर किया और उन्हें प्रशिक्षित किया। समय के साथ वे कंपनी के उत्पादन का हिस्सा

होंगे। उन्होंने कहा कि फ्रेशर्स की उपयोगिता को लेकर हम अभी से चिंतित नहीं हैं। समय के साथ ये फ्रेशर्स हमारे लिए उपयोगी साबित होंगे। आज बजट के पहले समाज के सभी वर्ग उत्सुक हैं कि इस बार सरकार उनके लिए क्या नई घोषणाएं करेंगी। इस बीच कुछ गैर सरकारी संगठनों बजट में बुजुर्ग लोगों को रियायत देने की मांग की है।

10 लाख है सालाना सैलरी तो भी नहीं देना पड़ेगा एक रुपया इनकम टैक्स!

नई दिल्ली, 13 जनवरी (एजेंसियां)। अगर आप इनकम टैक्स भरने वालों टैक्सपेयर्स हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल, कमाई बढ़ने के साथ टैक्स देनदारी भी बढ़ती है। लेकिन अगर सही से प्लानिंग की जाए तो ज्यादा सैलरी ब्रेकेट पर भी टैक्स बचाया जा सकता है। अगर आपकी सैलरी 10 लाख रुपये सालाना से ज्यादा है, तो टैक्स भी मोटा चुकाना पड़ता है। अगर आपकी सैलरी 10.5 लाख रुपये है तो आप इस सैलरी पर भी 100 फीसदी टैक्स बचा सकते हैं। अगर किसी टैक्सपेयर्स की सालाना आय 10.5 लाख रुपये है।

एक फीसदी भारतीय अमेरिका के कुल टैक्स कलेक्शन का 6% करते हैं अदा, सांसद ने की प्रशंसा

नई दिल्ली, 13 जनवरी (एजेंसियां)। अमेरिकी सांसद रिच मेकार्मिक ने अमेरिका में बसे भारतीय समुदाय के लोगों की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि भारतीयों की आबादी हमारे देश में महज एक प्रतिशत है पर वे कुल कर संग्रह का छह प्रतिशत अदा करते हैं। यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में अपने पहले भाषण में जॉर्जिया के कांग्रेस सदस्य ने एक व्यवस्थित इमिग्रेशन प्रक्रिया की गुहार लगाई। साथ ही सांसद ने इस बात पर भी जोर दिया कि ये समुदाय देश में समस्या पैदा नहीं करता है और कानूनों का पालन करता है। मैककार्मिक पेशे से एक डॉक्टर हैं और जॉर्जिया जिले का प्रतिनिधित्व करते हैं।

अमेजन में छंटनी शुरू, भारत के हजार कर्मचारियों समेत 18000 होंगे बाहर पांच महीने का अग्रिम वेतन देगी कंपनी

नई दिल्ली, 13 जनवरी (एजेंसियां)। आईटी क्षेत्र की दिग्गज कंपनी अमेजन में छंटनी शुरू हो चुकी है। इसकी पुष्टि खुद कंपनी के सीईओ एंडी जेसी ने की है। उन्होंने कहा है कि छंटनी शुरू हो रही है और कंपनी से करीब 18000 से अधिक कर्मचारी इससे प्रभावित होंगे, जिसमें भारत में भी हजारों कर्मचारी शामिल हैं। बता दें, बीते दिनों भी कुछ रिपोर्ट में इस बात के संकेत मिले थे कि कंपनी भारत में करीब 1000 से ज्यादा कर्मचारियों को बाहर कर सकती है। इससे तकनीकी, मानव संसाधन व अन्य विभाग प्रभावित होंगे। पिछले सप्ताह कंपनी के सीईओ एंडी जेसी ने अपने ब्लॉग में कहा था कि कंपनी 18 जनवरी के बाद छंटनी से प्रभावित कर्मचारियों के साथ संवाद

करेगी। गुरुग्राम-बेंगलुरु के कार्यालयों में शुरू हुई छंटनी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में अमेजन के गुरुग्राम, बेंगलुरु व अन्य कार्यालयों में छंटनी शुरू हो चुकी है। इसमें सबसे ज्यादा असर घाटे में चल रहे विभागों पर पड़ा है। भारत में से बाहर किए जा रहे कर्मचारियों में फ्रेशर्स व अनुभवी दोनों शामिल हैं। प्रभावित कर्मचारियों को मिलेगा पांच महीने का वेतन रिपोर्ट्स के मुताबिक, अमेजन ने निकाले गए कर्मचारियों को इमेल भेजकर पांच महीने के अग्रिम वेतन की पेशकश की है। कर्मचारियों को एक निश्चित तरीख पर लीडरशिप टीम से मिलने को कहा है। सूत्रों के

मुताबिक, अमेजन में छंटनी अभी शुरू हुई है, जो आने वाले हफ्तों तक चलने की उम्मीद है। मंदी के दौर में सबसे बड़ी छंटनी मौजूदा मंदी के दौर में अमेजन का 18,000 कर्मचारियों को हटाना अब तक की सबसे बड़ी छंटनी होगी। सितंबर के अंत तक अमेजन के साथ 15 लाख से अधिक कर्मचारी जुड़े थे। इस छंटनी का अर्थ है कि नवीनतम कटीौ कार्यबल का करीब एक फीसदी होगा। कंपनी के पास दुनियाभर में लगभग 350,000 कॉर्पोरेट कर्मचारी हैं। पिछले साल गई 1.5 लाख से ज्यादा नौकरियां टैक्निक साइट लेआउट डॉट एफवाईआई के मुताबिक, पिछले साल टेक उद्योग में 1.5 लाख नौकरियां


गईं। छंटनी का दौर नए साल में भी जारी रहेगा। फेसबुक की मूल कंपनी मेटा ने नवंबर में 11,000 कर्मचारियों को निकाला था। स्नैपचैट ने अगस्त में 1,200 छंटनी की थी। ट्विटर ने अक्टूबर में 7,500 को नौकरी से निकाला था। क्रंचबैक टैली के मुताबिक, अमेरिका में टेक कंपनियों ने 2022 में 9,1000 छंटनी की थी। दुनियाभर की टेक कंपनियों में हड़कंप वैश्विक आर्थिक मंदी की आशंका के बीच दुनियाभर की टेक कंपनियों में हड़कंप मचा हुआ है। ट्विटर, मेटा, अमेजन के अलावा एचपी इंफो की करीब 6,000 कर्मचारियों की छंटनी कर सकती है। हाल ही में पेप्सिको ने भी कटीौती की घोषणा की है।

आपका मन अच्छी बातों के प्रति ग्रहणशील रहेगा। आशीर्वाद रूप में मनोकामना पूरी होगी और सौभाग्य आपके रास्ते में आएगा- और पिछले दिनों की मेहनत के परिणाम के रूप में। यह अवधि आपके माता-पिता को अपनी नई परियोजनाओं की दृढ़ धृ ज्ञ ज दे दो और योजनाओं के बारे में विश्वास में लेने के लिए भी अच्छी है। घ घी पं. महेशचन्द्र शर्मा 9247132654, 8309517693

दैनिक पंचांग			
ग्रह गोचर			
शुक्र शनि	शुक्र बुध	शुक्र बुध	शुक्र बुध
गुरु शनि	गुरु शनि	गुरु शनि	गुरु शनि
राहु शनि	राहु शनि	राहु शनि	राहु शनि
मंगल	मंगल	मंगल	मंगल
ग्रह स्थिति	ग्रह स्थिति	ग्रह स्थिति	ग्रह स्थिति
सूर्य धनु	सूर्य धनु	सूर्य धनु	सूर्य धनु
चंद्र कन्या	चंद्र कन्या	चंद्र कन्या	चंद्र कन्या
मंगल वृष	मंगल वृष	मंगल वृष	मंगल वृष
बुध धनु	बुध धनु	बुध धनु	बुध धनु
गुरु मीन	गुरु मीन	गुरु मीन	गुरु मीन
शुक्र मकर	शुक्र मकर	शुक्र मकर	शुक्र मकर
शनि मकर	शनि मकर	शनि मकर	शनि मकर
राहु मेष	राहु मेष	राहु मेष	राहु मेष
केतु तुला	केतु तुला	केतु तुला	केतु तुला

विशेष:- राशिफल ग्रहों के गोचर के आधार पर लिखा गया है।सूक्ष्म फलादेश के लिए जन्म पत्रिका की सूक्ष्म स्थिति जानने के लिए जन्म कृण्डी दिखाना चाहिए।	राहुकाल 09:38 से 11:01 तक
श्री पंचांगुली ज्योतिष केन्द्र Hyd,Sec	
दिन का चौघड़िया	रात का चौघड़िया
काल. 06:53 - 08:14 अशुभ शुभ. 08:14 - 09:38 शुभ राग 09:38 - 11:01 अशुभ उत्पात 11:01 - 12:25 अशुभ चंचल 12:25 - 13:49 शुभ लाभ 13:49 - 15:12 शुभ अमृत 15:12 - 16:36 शुभ काल 16:36 - 17:56 अशुभ	लाभ 17:56 - 19:36 शुभ उत्पात 19:36 - 21:12 अशुभ शुभ 21:12 - 22:49 शुभ अमृत 22:49 - 00:25 शुभ चंचल 00:25 - 02:02 शुभ राग 02:02 - 03:38 अशुभ काल 03:38 - 05:14 अशुभ लाभ 05:14 - 06:53 शुभ

आपका राशिफल	
मेष	मृगशिरा
वृष	मिथुन
ई उ ए जो वा वी वू वे वो	कर्क
मिथुन	सिंह
मा मी मू मे मो टा टी टू टे	कन्या
आपका आत्मविश्वास और ऊर्जा आज अधिक रहेगी। आर्थिक तौर पर आज का दिन मिलाजुला रहने वाला है। आप आज मौद्रिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आप वास्तव में कड़ी मेहनत करें। बच्चे घर के कामों को पूरा करने में आपकी मदद करते हैं।	तूला
दूसरी के साथ खुशियां बांटने से सेहत खिल सकती है। पैसों की अहमियत को आप अच्छी तरह से जानते हैं इसलिए आज के दिन आपके द्वारा बचाया गया पैसा धैर्य के साथ आकांक्षक हो जाते हैं और आपके लिए जीवन कठिन बना देते हैं।	मकर
आपकी व्यक्तिगत समस्याएं मानसिक खुशी को बर्बाद कर सकती हैं लेकिन इन दबावों का सामना करने के लिए कुछ दिलचस्प पढ़कर खुद को मानसिक व्यायाम में शामिल करें। दिन भर के लिए जीने और मनोरंजन पर जरूरत से ज्यादा समय और पैसा खर्च करने की अपनी प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखें।	धनु
आज आप ध्यान महसूस करेंगे और छोटी-छोटी बातों को लेकर परेशान हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि आप ठीक-ठीक करने में कि लोग आपसे क्या चाहते हैं और क्या चाहते हैं- लेकिन कोशिश करें कि आज अपने स्वयं में बहुत ज्यादा फिज्जलखी न करें। जिस पर आप भरोसा करते हैं वह आपको पूरा सच नहीं बता रहा होगा।	मकर
आपका मन अच्छी बातों के प्रति ग्रहणशील रहेगा। आशीर्वाद रूप में मनोकामना पूरी होगी और सौभाग्य आपके रास्ते में आएगा- और पिछले दिनों की मेहनत के परिणाम के रूप में। यह अवधि आपके माता-पिता को अपनी नई परियोजनाओं की दृढ़ धृ ज्ञ ज दे दो और योजनाओं के बारे में विश्वास में लेने के लिए भी अच्छी है। घ घी पं. महेशचन्द्र शर्मा 9247132654, 8309517693	मकर



एसी कोच में यात्रियों को मिले बदबूदार कंबल

(एक्सक्लूसिव डेस्क), 13 जनवरी। एसी कोच में दिए जाने वाले कंबल की वजह से यात्रियों की तबीयत खराब हो गई। मामला लखनऊ से वाराणसी सिटी जाने वाली 15008 कृषक एक्सप्रेस का था।

थर्ड एसी कोच में सफर करने वाले यात्रियों ने कंबल से बदबू आने की शिकायत एक-दूसरे से की। रेलवे तक शिकायत पहुंचाने के लिए यात्रियों ने कोच अटेंडेंट को तलाश। वो नहीं मिला तब टीटीई को इस बारे में बताया गया। इसके बाद कंबल बदले गए।

जैसे ही ट्रेन बादशाहनगर स्टेशन पहुंची, यात्रियों को उल्टियां होने लगीं। 3 की तबीयत इतनी बिगड़ी की मेडिकल टीम बुलानी पड़ी।

गंदे और बदबूदार बेडरोल को लेकर अक्सर ऐसी शिकायत आती रहती हैं। आपके साथ भी ऐसा हो तो भूल से इग्नोर न करें। कहां और कैसे शिकायत करनी है, यह हम आपको बताते हैं।

१।एक्सपर्ट हैं- एडवोकेट योगेश भटनागर(रेलवे एक्सपर्ट), एडवोकेट चिकिशा मोहंती और रेलवे पीआरओ सुबेदार

एसी कोच में मिलने वाले बेडरोल में रेलवे की तरफ से क्या-क्या मिलता है?

हर यात्री को एक तकिया, दो चादर, एक कंबल और एक छोटा तौलिया मिलता है।

रेलवे में बेडरोल की साफ-सफाई को लेकर क्या नियम है?

कंबल हर दो महीने में ड्राई क्लीन कराए जाएंगे। लिनेन की चादर, तकिया कवर और तौलिया हर बार इस्तेमाल के बाद धोए

तबीयत बिगड़ी, बुलानी पड़ी डॉक्टरों की टीम, गंदे बेडरोल मिलने पर कहां करें शिकायत

जाएंगे।

रेल मदद ऐप पर शिकायत करने का क्या तरीका है?

इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के बाद आपको अपना नाम, पासवर्ड और फोन नंबर या ईमेल आईडी डालकर इसे साइन अप करना होगा। फिर अपनी आईडी पासवर्ड के साथ इसे लॉग इन करें।

लॉग इन के बाद विंडो खुलती है। जिसमें ट्रेन की शिकायत, स्टेशन की शिकायत, शिकायत को ट्रैक करना और सुझाव जैसे टैब मिलेंगे।

क्या रेल मदद ऐप से केवल गंदे कंबल, चादर या कोच की ही शिकायत की जाती है?

नहीं, आप शिकायत दर्ज करने के साथ-साथ टिकट बुकिंग, ट्रेन की पूछताछ, रिजर्वेशन की पूछताछ, रिटायरिंग रूम बुकिंग की जानकारी ले सकते हैं। यह सभी टैब आपको भारतीय रेलवे की अन्य आधिकारिक वेबसाइट और ऐप तक ले जाएंगे।

रेल मदद ऐप से शिकायत करते वक़्त इन बातों का ध्यान रखें

शिकायत का टाइटल, दूसरा टाइटल, घटना की तारीख, समय, उसकी पूरी डिटेल सब दर्ज करानी होगी।

इसके साथ अगर आपके पास शिकायत से रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट है तो उनके फोटो खींचकर अपलोड कर सकते हैं। शिकायत सबमिट करने के बाद इस ऐप पर ही आप उसके

स्टेटस की जानकारी ट्रैक कंप्लेंट में देख सकते हैं।

रेलवे से मिलने वाली सुविधाओं में गड़बड़ी होने पर क्या कंप्यूमर फोरम में भी शिकायत कर सकते हैं?

जब आप टिकट खरीदते हैं तब उसे कहते हैं कॉन्सिडरेशन यानी आपने रेलवे की सर्विस अवेल की। रेलवे ने आपसे पैसे लिए इसका मतलब वो आपका सर्विस प्रोवाइडर है। अब रेलवे की जिम्मेदारी है कि ट्रेन के अंदर मौजूद सारी सुविधा सही तरह से कस्टमर यानी अपने यात्री को दें। इस तरह कंबल-चादर देना और वो भी साफ देना रेलवे की रिसर्पॉन्सिबिलिटी है। अगर यह सब साफ नहीं है तो एक यात्री के पास अधिकार है कि वो कंप्यूमर फोरम में शिकायत करे।

कंप्यूमर फोरम में शिकायत दर्ज कराने के लिए किन-किन बातों का ख्याल रखना चाहिए?

खाने में कंकड़ निकले, कोच में सफाई न होने की वजह से कॉकोरोच और चूहे मौजूद हों, या फिर कंबल-चादर गंदे हों आप सबकी शिकायत कंप्यूमर फोरम में कर सकते हैं।

सबसे पहले जिस बात की शिकायत करना चाहते हैं उसकी फोटो क्लिक कर लें।

नॉर्मल पेपर पर अपनी शिकायत डिटेल में लिखें।

नेक्स्ट स्टेशन पर मौजूद स्टेशन मास्टर के पास जाकर अपनी लिखित शिकायत देकर रिसीविंग ले लें।



पशु तस्करी कर बंगाल ले जाते थे

गुमला, 13 जनवरी (एजेंसियां)। गुमला में पशु तस्कर गिरफ्तार किये गये हैं। पशु तस्करी की गिरफ्तारी चक्रधरपुर-सोनुआ मार्ग पर पदमपुर गांव में हुई है। इसी गांव के पास से पशु तस्करी करते पांच लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि इस रास्ते से पशु तस्करी हो रही है। चक्रधरपुर थाना प्रभारी चंद्रशेखर कुमार ने कहा, मंगलवार रात को पुलिस अधीक्षक चाईबासा को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी। पश्चिम बंगाल के कुछ पशु तस्कर चक्रधरपुर थाना क्षेत्र के कुछ स्थानीय लोगों के साथ मिलकर पशु को तस्करी कर रहे हैं। चक्रधरपुर प्रखंड के पदमपुर से बांझीकुसुम होते हुए कुदलीबाड़ी के रास्ते से बंगाल ले जाने वाले थे। इस मामले पर कार्रवाई करते हुए एक टीम गठित की गयी।

सहायक पुलिस अधीक्षक सह अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कपील चौधरी ने इस टीम का गठन किया। नेतृत्व थाना प्रभारी चंद्रशेखर कुमार कर रहे थे। पदमपुर गांव में छापेमारी कर गोवंशीय पशु की तस्करी एवं परिवहन करते हुए पांच व्यक्तिों को गिरफ्तार कर लिया गया। 102 गोवंशीय पशु, चार लाख 98 हजार रुपये नगद, एक मारुति कार, 10 मोटरसाईकिल एवं स्कूटी, तीन मोबाईल फोन के साथ पकड़ा गया।

लोक सेवकों के कदाचार की शिकायत सुनता है आयोग छत्तीसगढ़ लोक आयोग की स्थापना का मकसद लोक सेवकों के कदाचार, शक्ति के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार के मामलों की सुनवाई करना है। ऐसी शिकायतों की सुनवाई कर आयोग सरकार को सुझाव देती है। उसी आयोग के दफ्तर में एक आईएएस अफसर का शराब के नशे में हंगामे में अच्छी-खासी किरकिरी करा दी है।

15 लाख का इनामी नक्सली गिरफ्तार

पारसनाथ इलाके में आंतक का दूसरा नाम था कृष्णा हांसदा, सुरक्षा बलों ने किया गिरफ्तार

गिरिडीह, 13 जनवरी (एजेंसियां)। सुरक्षा बल ने 15 लाख इनामी नक्सली कृष्णा हांसदा को गिरफ्तार किया है। सर्व अभियान के दौरान सुरक्षा बलों को यह बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने दुमरी थाना इलाके के फतेहपुर से एक हार्डकोर नक्सली को पकड़ा है। सीआरपीएफ और जिला पुलिस के जवानों ने संयुक्त रूप से अभियान चलाकर यह गिरफ्तारी की है। पारसनाथ इलाके में यह नक्सली सक्रिय था। सुरक्षा बल लंबे समय से नक्सली की तलाश कर रहे थे। कई मौके पर यह आमने सामने भी हुए लेकिन हर बार नक्सली कृष्णा हांसदा फरार होने में सफल रहा। इस बार सुरक्षा बल ने उसे धर दबोचा है। भाकपा माओवादी संगठन के रिजनल कमिटी का

सदस्य है। उसके जिम्मे पारसनाथ का पूरा इलाका था। कृष्णा हांसदा को दुमरी थाना इलाके के फतेहपुर से गिरफ्तार किया गया है। हालांकि पुलिस ने आधिकारिक तौर पर यह जानकारी नहीं दी है। पुलिस सूत्रों की माने तो जिस नक्सली को गिरफ्तार किया गया वह कृष्णा हांसदा ही है। एक करोड़ के इनामी नक्सली और नक्सलियों के थिंक टैंक माने जाने वाले प्रशंत बोस की गिरफ्तारी के बाद पारसनाथ के इलाके की जिम्मेदारी कृष्णा हांसदा को दी गयी थी। कृष्णा 15 लाख के इनामी और हार्डकोर नक्सली अजय महतो उर्फ टाडगर का सबसे करीबी माना जाता है। कृष्णा हांसदा की गिरफ्तारी से नक्सली कमजोर पड़े हैं पूरे इलाके में कई घटनाओं को नक्सली अंजाम दे चुका है।

अब इस रिसीविंग और टिकट की फोटो कॉपी के साथ यात्री कंप्यूमर फोरम में जा सकता है। पिछले 15 दिनों में गंदे कंबल-चादर की शिकायत आती रही है बेडरोल में मौजूद कंबल, चादर क्या धोए नहीं जाते?

रेलवे साफ बेडरोल देने का वादा करता रहा है, लेकिन हकीकत में अब तक ऐसा हो नहीं पा रहा है। कंबल की धुलाई को लेकर रेलवे ने स्वीकार कर लिया है कि कंबल की धुलाई महीने में एक या दो बार की जाती है। ठेकेदार रेलवे से कम दर पर कोटेशन भरकर ठेका ले लेते हैं। इसके बाद इस्तेमाल की हुई चादरों और तकिया की बिना धुलाई के दोबारा प्रेस करके पैकेट में रख देते हैं।

2016 में रेलवे ने कहा था कि गंदे कंबल की शिकायत लगातार आ रही है, इसलिए एनआईएफटी के स्टूडेंट्स से कॉटन और वूल मिक्स वॉशबल कंबल बनाने की बात की है। इसे पहले प्रीमियम ट्रेनों में यूज किया जाएगा, बाद में सभी ट्रेनों में। इस प्रोजेक्ट का क्या हुआ अब तक पता नहीं। इसी तरह संसद में इस मुद्दे पर कई बार चर्चा की गई पर साफ-सफाई को लेकर कोताही कम नहीं हुई। पिछले साल नवभारत टाइम्स गोल्ड ने एसी कोच में क्यों मिलती हैं गंदी चादरें इसका खुलासा किया। रिपोर्टर ने नोएडा के सेक्टर 83 की लाउंडरेइस कंपनी में प्रेस करने वाले मजदूर की नौकरी की। रिपोर्ट में उसने

खुलासा किया कि गंदे और बदबूदार कंबल को प्रेस कर पैक कर दिया जाता है। जहां प्रेस किया जाता है वहां लगे सभी सीसीटीवी कैमरे या तो बंद हैं या खराब।

चलती ट्रेन में आपका यानी पैसेंजर का सामान चोरी हो जाए तो क्या करें?

चलती ट्रेन में सामान चोरी हो जाए, तो पैसेंजर ट्रेन के टीटीई, कंडक्टर, कोच अटेनडेंट, गाई या जीआरपी एस्कॉर्ट को इस बात की जानकारी दें। वो आपको चोरी हुए या गुम हुए सामान की शिकायत करने में मदद करेंगे।

ट्रेन में सामान चोरी हो जाए, तो एफआईआर के लिए पैसेंजर को अपनी यात्रा ब्रेक कर किसी स्टेशन में उतारना जरूरी है?

नहीं। ऐसा करना जरूरी नहीं है। आप चलती ट्रेन में भी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं, लेकिन अगर सिचुएशन ज्यादा खराब हो और पैसेंजर की गवाही की जरूरत हो, तब आपको किसी स्टेशन में उतरकर जीआरपी थाने में गवाही देनी पड़ सकती है।

चलती ट्रेन में सामान चोरी हो जाए, तो ऐसे करें शिकायत

ट्रेन में मौजूद किसी भी रेल कर्मचारी से संपर्क करें, जैसे- रेलवे पुलिस, टीटीई या गाई।

इन्हें पूरा मामला बताएं, ये आपको एफआईआर फॉर्म देंगे, जिसे आपको भरना होगा।

पूरी जानकारी भरने के बाद आपने जिनसे फॉर्म लिया था, उन्हें सौंप दें।

कई जगहों पर ईडी की रेड

आईएएस अन्बलगन पी के घर में छापा, दुर्ग-भिलाई, बिलासपुर कोरबा, महासमुंद में कारोबारियों के ठिकानों पर भी कार्रवाई



रायपुर, 13 जनवरी (एजेंसियां)। रायपुर के कई ठिकानों में शुक्रवार तड़के फिर ईडी की रेड पड़ी है। जानकारी के मुताबिक आईएएस अन्बलगन पी के घर में और अशोका टावर, ऐश्वर्या किंगडम समेत शंकर नगर के कुछ बंगलों में छापेमार कार्रवाई चल रही है। आईएएस अन्बलगन पी के रायपुर और भिलाई स्थित घरों में भी अधिकारी जांच कर रहे हैं। पी अंबलगन अभी पर्यटन एवं संस्कृति सचिव हैं। इससे पहले खनिज सचिव रहे हैं। इनकी पत्नी अलरमई मंगई डी भी आईएएस हैं। बताया जा रहा है कि पूर्व विधायक और वर्तमान में एक बोर्ड के अध्यक्ष के घर पर भी कार्रवाई जारी है। बता दे कि, 20 अलग-अलग

टीम शहर के कई जगहों पर छापेमारी की तैयारी से गुरुवार रात में होटलों में रुकी हुई थी। छत्तीसगढ़ में फिर कई जगहों पर ईडी ने की छापेमार कार्रवाई चल रही है। आईएएस पी. अन्बलगन के निवास पर ईडी का छापा सुबह से जारी है। सीआरपीएफ जवानों के साथ अधिकारियों की टीम उनके निवास पर मौजूद है। इधर पटेल ट्रांसपोर्टर्स विपुल पटेल के रायपुर और बिलासपुर के ठिकाने पर ईडी ने दबिश दी है। महासमुंद में अग्नि चंद्रकार के यहां भी छापेमारी की जानकारी लगी है। इसके साथ ही कारोबारी स्वंत्रत जैन समेत प्रदेश के अलग अलग जगहों पर छापे की खबर है। कोरबा के व्यापारी एमएल पटेल के

क्रूरता साबित नहीं होने पर हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

पति ने पत्नी के खिलाफ दायर की थी अपील



रायपुर, 13 जनवरी (एजेंसियां)। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण मामले में सुनवाई करते हुए कहा है कि पति-पत्नी में मामूली बातों पर झगड़ा, विवाद और चिड़चिड़ाहट जैसी स्थिति पति पत्नी के विवाह विच्छेद के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम भादुड़ी की डिवीजन बेंच ने यह टिप्पणी करते हुए परिवार

न्यायालय के आदेश के खिलाफ पति के द्वारा की गई अपील को खारिज कर दिया है। जानकारी के लिए बता दें कि राजनांदगांव के रहने वाले मनीष राय की शादी 2015 में कांकिर की रहने वाली एक युवती से हुई थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही दोनों के संबंधों में खटास आने लगी। बढ़ती विवाद की स्थिति के

इन 3 स्टैप्स को फॉलो करने के बाद आपकी शिकायत दर्ज हो जाएगी ।

भेंट मुलाकात कार्यक्रम में पहुंचे सीएम भूपेश बघेल

पिपरिया में की कई बड़ी घोषणा कोरबा, 13 जनवरी (एजेंसियां)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री अपनी भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ के कोरबा जिला में पोड़ी उपरोड़ा के पिपरिया गांव पहुंचे। पिपरिया में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों-कर्मचारियों एवं जनता ने हेलीपैड पर आत्मीय स्वागत किया। हेलीपैड पर ग्राम अमझार के ग्रामीणों ने डंडा नृत्य कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। पारंपरिक धुन और मांदर की थाप पर डंडा नृत्य ने मुख्यमंत्री का मन मोह लिया। उनके स्वागत में भारी संख्या में ग्रामीणजन हेलीपैड पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने सभी का स्वागत स्वीकार करते हुए सभी का अभिवादन किया। गोंड जनजाति द्वारा खुशी के अवसर एवं गौरा गौरी त्योहार के अवसर पर डंडा नाच किया जाता है।

आदिवासी संस्कृति की विशेष पहचान डंडा नाच जनजाति सदस्यों द्वारा फसल कटाई की खुशी और त्योहारों पर किए जाने वाले विशेष नृत्य है। सीएम के स्वागत के दौरान पाली तानाखार क्षेत्र के विधायक मोहित राम केरकेड़ा, जनपद सदस्य भोला गोस्वामी, नगर पालिका कटघोरा अध्यक्ष रतन भित्तल सहित ग्रामीण जन मौजूद रहे।

शराब पीकर लोक आयोग पहुंचे आईएएस सुधाकर खलखो

रायपुर, 13 जनवरी (एजेंसियां)। छत्तीसगढ़ के एक आईएएस अधिकारी सुधाकर खलखो गलत वजहों से चर्चा में आ गये हैं। खलखो छत्तीसगढ़ लोक आयोग के सचिव थे। वे शराब पीकर कार्यालय पहुंच गये। वहां देर तक अपनी हरकतों से बवाल काटते रहे। इसकी शिकायत पहुंची तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें वहां से हटाने का निर्देश दिया। दोपहर बाद तक उनको लोक आयोग से हटाने का आदेश जारी कर दिया।

बताया जा रहा है, सुधाकर खलखो आये दिन शराब पीकर दफ्तर पहुंच रहे थे। लोक आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति टी.पी. शर्मा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से इसकी शिकायत की थी। उसके बाद खलखो को लोक आयोग से हटाने का आदेश जारी हो गया। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 2012 बैच के आईएएस अफसर सुधाकर खलखो को मंत्रालय बुला लिया गया है। उनको अभी बिना विभाग संयुक्त सचिव बनाया गया है। खलखो जून 2022 में ही लोक आयोग का सचिव बनकर आये थे। उससे पहले वे ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प विकास बोर्ड, माटी कला बोर्ड और हाथकरघा विकास और विपणन

अध्यक्ष की शिकायत पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हटाया, अब अनुराग पांडेय को जिम्मेदारी



संघ की जिम्मेदारी संभाल चुके थे। लोक आयोग में उनका शराब पीकर अजीब हरकते की जानकारी के बाद अब उन्हें लोक आयोग से हटा दिया गया है। उनकी जगह पर 2009 बैच के आईएएस अनुराग पाण्डेय को लोक आयोग के सचिव की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है। अनुराग के पास अभी जल संसाधन विभाग के विशेष सचिव हैं। उनके पास राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की अतिरिक्त जिम्मेदारी है। अब लोक आयोग के सचिव की जिम्मेदारी भी उनसे जुड़ गई है।

हंगामा ऐसा कि घरवालों को बुलाना पड़ा

बताया जा रहा है, आईएएस सुधाकर खलखो गुरुवार सुबह 9.30 बजे नगर निगम के पास स्थित लोक आयोग के कार्यालय पहुंचे गये थे। उस समय वे नशे में धुत थे। उन्होंने कर्मचारियों से कार्यालय के लॉन में कुर्सी लगावाई। वहां वे शर्ट का बटन खोलकर बैठ गये। एक कर्मचारी ने उनसे कमरे में चलकर बैठने को कहा तो भड़क गए। वे वहां बैठे-बैठे हवा में गाली देने लगे। लोक आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति टी.पी. शर्मा के कहने पर कर्मचारियों ने इसकी सूचना आईएएस के घरवालों को दी। बाद में सुधाकर खलखो के पिता वहां पहुंचे और जैसे-तैसे उनको घर

जिला चिकित्सालय में दो अलग-अलग हाई रिस्क मामलों का सफलता पूर्वक हुआ ऑपरेशन



दुर्ग, 13 जनवरी (एजेंसियां)। दुर्ग जिला चिकित्सालय में दो अलग-अलग हाई रिस्क प्रकरण का सफलता पूर्वक ऑपरेशन किया गया। पहला मामला मरीज आदित्य प्रसाद (सात वर्ष) जो कि आदित्य नगर दुर्ग का रहने वाला है। उनके राइट पैर में सात उंगलियां थी जो कि बहुत ही रेयर होती हैं।

सामान्यतः पॉलिडेकट्राइल के केसेस में 6 उंगलियां पाई जाती हैं लेकिन इस केस में 7 उंगलियां

थी, जिससे आदित्य को चलने में समस्या, जूते या चप्पल नहीं पहन पाना एवं हमेशा दर्द की शिकायत रहना इत्यादि समस्याएं थी। इसलिए ऑपरेशन करना बेहद जरूरी था। इस ऑपरेशन को करने वाले सर्जन डॉ. अखिलेश यादव, एनेस्थीसिया देने वाले डॉ. बंसत चौरसिया, स्टॉफ नर्स सिबेन, रमेश एवं मयूरी ने अहम भूमिका निभाई। वहीं दूसरे केस में 21 वर्ष की दिव्या कुमारी जो कि उमरपोटी

सतीश पूनिया को फिर मिल सकती है राजस्थान भाजपा की कमान

ओबीसी वोटर्स को साधने के लिए बनी रणनीति

जयपुर, 13 जनवरी (एजेंसियां)। राजस्थान भाजपा के अध्यक्ष सतीश पूनिया को कार्यकाल में विस्तार मिल सकता है। उन्हें सितंबर 2019 में राजस्थान का अध्यक्ष बनाया गया था। इस प्रकार 2022 के अंत में ही उनका कार्यकाल पूरा हो चुका है। इसके बाद से ही राजस्थान अध्यक्ष पद को लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं, लेकिन राज्य में इसी साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए पार्टी संगठन में कोई बड़ा बदलाव करने के मूड में नहीं है और यही कारण है कि ओबीसी नेता सतीश पूनिया को अध्यक्ष के तौर पर कार्यकाल में विस्तार मिल सकता है। इसकी घोषणा पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद की जा सकती है।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के प्रचारक रहे सतीश पूनिया भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के काफी करीबी माने जाते हैं। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का नजदीकी माना जाता है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से होते हुए भाजपा की मुख्यधारा की राजनीति में आए सतीश पूनिया को लेकर संघ भी सकारात्मक है और यह बात उनके पक्ष में जाती है। राजस्थान में ओबीसी समुदाय का बड़ा वोट बैंक है। राज्य में ओबीसी कैटेगरी में लगभग 91 जातियां आती हैं जो राज्य के कुल मतदाताओं का लगभग 52 प्रतिशत वोट बैंक बनाती हैं। सतीश पूनिया



स्वयं ओबीसी जाट समुदाय से आते हैं। उन्हें सेवा विस्तार मिलने से इस वोट बैंक को साधने में भी मदद मिल सकती है। उन्हें हटाने से ओबीसी समुदाय के बीच एक नकारात्मक संदेश जा सकता है जिसका खतरा पार्टी चुनावी साल में नहीं उठाना चाहेगी। प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर उनका कार्यकाल भी बेहतर रहा है। सतीश पूनिया के नेतृत्व में भाजपा ने कई राजनीतिक कार्यक्रम चलाए जो काफी सफल रहे। इस समय भी प्रदेश के हर जिलों में जन आक्रोश यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा में कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी इस यात्रा में हर समुदाय के लोगों की भागीदारी होने से भाजपा मजबूत होती दिख रही है। वसुंधरा राजे सिंधिया जैसे कद्दावर नेताओं के होने के बाद भी पार्टी के अंदर गुटबंदी न होने देने को उनकी बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जा रहा है। संगठन का

व्यक्ति होने के कारण भाजपा को पूनिया का लाभ मिलता दिख रहा है। अभी राज्य में विधानसभा के चुनाव साल के अंत में होने हैं, लेकिन पार्टी अभी ही 52 हजार बूथों में से लगभग 49 हजार बूथों पर अपना काम समाप्त कर चुकी है। सभी बूथों पर पन्ना प्रमुखों तक की जिम्मेदारी तय की जा चुकी है। विभिन्न चुनावों में पार्टी को इस रणनीति का लाभ मिलता रहा है। राजस्थान में भी उसे इसका लाभ मिल सकता है।

दूसरे राज्यों में भी सफल रहे पूनिया
हाल ही में संपन्न हुए गुजरात विधानसभा चुनावों में सतीश पूनिया को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उन्हें राजस्थान से संते गुजरात के उत्तरी इलाकों में 43 विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। राजस्थान भाजपा अध्यक्ष ने चुनाव से छह महीने पहले ही अपनी टीम लेकर इन इलाकों में काम किया और भाजपा को 33 सीटों पर जीत दिलाई। इस सफलता ने पार्टी में उनका ग्राफ ऊंचा किया है। इसके पहले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी उन्हें लगभग 90 सीटों पर पार्टी को मजबूत बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। किसान आंदोलन को लेकर सरकार के रुख के कारण इस चुनाव में जाट समुदाय के लोगों के बीच भाजपा को लेकर काफी नाराजगी होने की बात भी कही जा रही थी, लेकिन अमित शाह के नेतृत्व में भाजपा ने जाट बहुल पश्चिम के इलाके में खूब मेहनत की।

लाइजन अधिकारी और उसका सहयोगी 50

हजार रिश्त लेते दबोचे
भीलवाड़ा, 13 जनवरी (एजेंसियां)। भीलवाड़ा में एसीबी मुख्यालय के निर्देशन पर भीलवाड़ा द्वितीय इकाई ने शुक्रवार को मकान न तोड़ने की एवज में 50 हजार रुपये की रिश्त मांगने वालों दो लोगों को गिरफ्तार किया। शंभूलाल बावरिया लाइजन अधिकारी आईआरबी मॉर्डन रोड मेकर्स प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा (ए.एन.आई.ए से संबंध) एवं उसके दलाल हस्तीमल जैन को परिवादी से 50 हजार रुपये की रिश्त राशि लेते एसीबी ने रो हाथों गिरफ्तार किया है।

एसीबी की भीलवाड़ा द्वितीय इकाई को परिवादी ने शिकायत देकर बताया कि बाईपास पर निर्माणाधीन मकान को न तोड़ने के बदले शंभूलाल बावरिया लाइजन अधिकारी आई. आर. बी मॉडल रोड मेकर्स प्राइवेट लिमिटेड भीलवाड़ा 50 हजार रुपये रिश्त राशि मांग कर उन्हें परेशान कर रहा है। जिस पर एसीबी अजमेर के उपमहानिरीक्षक समीर कुमार सिंह के सुपर विजन में एसीबी भीलवाड़ा द्वितीय इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वृजराज सिंह के नेतृत्व में शिकायत दर्ज की गई।

राजस्थान की राजनीति में फिर गर्माहट

पायलट-गहलोत रार के बीच प्रताप सिंह ने भी दावेदारी ठोकी



जयपुर, 13 जनवरी (एजेंसियां)। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने अपनी मुख्यमंत्री बनने की संभावनाओं के चलते लोगों से अगला चुनाव जिताने की बात कह कर राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर से गर्माहट पैदा कर दी। अपने विधानसभा क्षेत्र में एक कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए बोले कि इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही मुझे निपटाने का प्रयास करेंगे, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर और झुककर निवेदन कर रहा हूं कि मैं पंजे पर ही चुनाव लड़ने वाला हूं। यह चुनाव कोई आम चुनाव नहीं होगा क्योंकि इस बार भाजपा और कांग्रेस के विरोधी मुझसे अपनी टसन निकालेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रताप सिंह किसी से आगे झुका नहीं है। उन्होंने कहा कि सब जानते हैं, नया दौर शुरू होगा। उस दौर में मैं किसी से पीछे नहीं हूं। मुझे राजनीति आती है। मुझे सब जानते हैं। पूरे देश में लोग मुझे जानते हैं। 200 एमएलए हैं। सबको कौन जानता है, लेकिन भगवान की कृपा से मुझे सब

जानते हैं। मैं अगर जीता तो राजस्थान की मेन कुर्सी सिविल लाइन के हाथ में होगी, लेकिन आपके बिना नहीं जीत पाऊंगा। **कांग्रेस में कुर्सी जाने का डर**
अशोक गहलोत के सामने, मैं बच्चा हूं। उनकी इतनी उम्र है, लेकिन फिर भी मैं स्टैंड लेता हूं। आप मेरी मदद करना। आपको मदद सिविल लाइन का इतिहास बना सकती है। ये मुझे धेरेंगे, यहीं पटक दो, ऊपर झगड़ा ही नहीं होगा। उन्होंने कहा कि किसी ने बीजेपी को वोट दिया हो तो इस बार मेहरबानी करके मुझे ही वोट देना। आप मेरे बारे में पता करवाना। मैं किसी से डरता नहीं हूं। चुनाव जीतने के लिए

राहत खत्म, कल से फिर शुरू होगा शीतलहर का सिलसिला

विभाग ने जारी किया अलर्ट

जयपुर, 13 जनवरी (एजेंसियां)। राहत खत्म, शीतलहर एक बार फिर लोगों को सताने वाली है। पहाड़ों की बारिश और बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में दिखने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार बर्फाली हवा चलने के साथ घना कोहरा छाएगा और तापमान में भी जबर्दस्त गिरावट आएगी। छह जिलों में अर्रिंज और 13 जिलों में यलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी शुरुआत में मौसम मैदानी इलाकों में दिखाई देगा। कई इलाकों में इससे न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी जाएगी। वहीं, कहीं-कहीं तापमान जमाव बिंदु तक जा सकता है। गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर एरिया में कल दिन में घना कोहरा छाया। यहाँ दिन का तापमान दस डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। जैसलमेर में तापमान गिरकर 17.4 पर पहुंच गया। गंगानगर में 13.5 पर आ गया। बीकानेर में भी 20.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम केंद्र जयपुर ने चूरू, बीकानेर, हनुमानगढ़, झुंझुनूं, सीकर और नागौर जिलों में अर्रिंज अलर्ट जारी किया है। इसी तरह गंगानगर, अलवर, जयपुर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, बूंदी, भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया है।

बिजसनेसमैन का किडनैप, 2 करोड़ की फिरोती मांगी

50 लाख वसूलकर छोड़ा, पुलिस वर्दी में आए बदमाशों ने किया किडनैप

जयपुर, 13 जनवरी (एजेंसियां)। पुलिस वर्दी में आए बदमाशों ने जयपुर के एक होटल कारोबारी को किडनैप कर लिया। बिजनेसमैन से मारपीट कर 2 करोड़ की डिमांड की गई। 50 लाख रुपए देने के बाद बदमाशों ने बिजनेसमैन को छोड़ा। बाकी डेढ़ करोड़ रुपए जल्द नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देकर उसे छोड़ा गया। पीड़ित बिजनेसमैन ने शिप्रापथ थाने में गुरुवार रात रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस वारदातस्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेजों को खंगालने में जुटी है। एसीपी (मानसरोवर) हरिशंकर ने बताया- अग्रवाल फार्म मुहाना निवासी अजय मंगल (58) ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। अजय मंगल का सिंधीकैम्प बस स्टैंड के पास जयमंगल पैलेस के नाम से होटल है। 10 जनवरी की सुबह करीब 10 बजे वह कार से होटल जाने के लिए निकले थे। सेंट विलफ्रेड कॉलेज के सामने बीआरटीएस रोड पर मार्किट स्विफ्ट डिजायर उसकी कार के सामने आकर रुकी। कार से पुलिस वर्दी पहने युवक उसके पास



आया। उसने 31 दिसम्बर 2022 को कहाँ होने के बारे में पूछा। पुलिसकर्मी समझकर बताया- जयपुर से बाहर था। गाड़ी के बारे में पूछने पर घर होना बताया।

जबरन कार में डालकर ले गए
पुलिसकर्मी ने उसे कहा- कोई वारदात हुई है। आप कार से बाहर आओ साहब बुला रहे हैं। कोई तपस्तीश करनी है। कार को रोड साइड लगाकर खड़ी कर दी। पुलिसकर्मी के साथ स्विफ्ट कार के पास पहुंचा। कार में तीन लोग बैठे हुए थे। फिर जबरन कार में बैठा लिया।

एक ने उसके कमर पर पिस्तौल लगाई। दूसरे ने गर्दन पर पिस्तौल लगाकर चुपचाप बैठने का कहकर पीटा। तभी एक साथी और आया। जिसे बिजनेसमैन ने अपनी कार की चाबी दे दी। बदमाश उसका किडनैप कर मुहाना की ओर ले गए। चलती कार में चारों बदमाशों ने उसके साथ मारपीट की। वर्दी पहने व्यक्ति की नेम प्लेट पर नीतेश कुमार मीणा लिखा था। उसने अपनी वर्दी खोलकर थैले में रख ली।

बोले-कई दिनों से कर रहे थे रेकी
मांग्यावास होते हुए रिंग रोड क्रॉस करके सुनसान जगह की तरफ ले गए। रास्ते में बदमाश बिजनेसमैन को पीटते रहे। बोले- हम तेरी कई दिनों से रेकी कर रहे हैं। 2 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। छुड़ाने के लिए। नहीं तो कोटा चंबल के जंगल में ले जाकर मार देंगे। आप 2 करोड़ रुपए का इंतजाम कर लो। बिजनेसमैन ने कहा- इतनी जल्दी 2 करोड़ का इंतजाम कैसे होगा। बदमाशों ने उसे कहा- पैसे घर से भी नहीं मंगवाने हैं और होटल से भी नहीं मंगवाने हैं। कहीं तीसरी जगह से भी मंगवाओ।

बीड़ी निर्माता कारोबारी के 29 से ज्यादा ठिकानों पर आयकर टीम का डेरा

बाहर आ रही काली कमाई

जयपुर, 13 जनवरी (एजेंसियां)। आयकर विभाग को राजधानी में कारोबारी के ठिकानों पर चल रही काली कमाई की जानकारी को आज तीन दिन हो गए हैं। अधिकारियों ने टीम बीड़ी निर्माता कारोबारी के ठिकानों पर लगातार तीन से डेरा डाले हुए है। इस दौरान 29 से अधिक ठिकानों पर छापेमारी की अंजाम दिया गया है। कार्रवाई के बाद धीरे-धीरे काली कमाई बाहर निकल रही है। छापों में बड़े पैमाने पर ब्लैक मनी के दस्तावेज मिले हैं और एक दर्जन से ज्यादा अघोषित लॉकर्स का खुलासा हुआ है। इतना ही नहीं जमीनों की खरीद-फरोख्त के दस्तावेज के साथ ही कई जगहों पर बड़े पैमाने पर नकदी भी मिली है। ईद मोहम्मद और निजामुद्दीन सहित कई उद्योगपतियों के घर पर टीम जयपुर में भी सर्च कर रही है। इन पर आरोप है कि इनकी ओर से आयकर रिटर्न में दी गई जानकारी सही नहीं है। राजस्थान के तीन जिलों जयपुर, टोंक और दौसा में बुधवार सुबह से छापे की कार्रवाई जारी है। कारोबारियों का व्यापार राजस्थान के अलावा यूपी, हरियाणा और दिल्ली में भी है। टीम को छापे के दौरान ग्रुप की करोड़ों की काली कमाई का अनुमान है। अब तक ब्लैक मनी और अघोषित लॉकर्स का खुलासा हुआ है। बड़े पैमाने पर नकदी भी मिली है। जयपुर के सिविल लाइंस में कारोबारी समूह ने बंगला भी खरीदा है।

जयपुर में 15 करोड़ की पतंगें बिकी

20 लाख की ज्वेलरी लेने का भी आरोप; अफसर का दावा- हनीट्रैप का शिकार, 44 लाख दिए

जयपुर, 13 जनवरी (एजेंसियां)। जयपुर में पुलिस मुख्यालय में पोस्टेड पुलिस उपाधीक्षक पर महिला ने रेप का केस दर्ज करवाया है। अधिकारी की विवाहित से फेसबुक के जरिए दोस्ती हुई थी। महिला का आरोप है कि जाँब लगाने और शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया गया। वहीं, दो दिन पहले डीएसपी ने महिला के खिलाफ सीकर में हनीट्रैप की एफआईआर दर्ज करवाई थी। अधिकारी ने शिकायत में बताया है कि महिला की डिमांड के अनुसार उसे 44 लाख रुपए दिए, लेकिन वो फिर भी ब्लैकमेल कर रही थी। रात जयपुर के विद्याधर नगर थाने में पीड़िता ने आरोपी आरपीएस राजीव राहड के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। वहीं, आरपीएस ने भी 11 जनवरी को महिला के खिलाफ सीकर में हनीट्रैप का मामला दर्ज करवाया था।

एसएसओ वीरेंद्र कुरील ने बताया कि- विद्याधर नगर निवासी 26 वर्षीय विवाहिता का आरोप है कि जनवरी 2021 में फेसबुक पर भेजी फ्रेंड रिक्वेस्ट के जरिए उसकी दोस्ती राजीव राहड से हुई थी। इसके बाद दोनों ने एक-दूसरे के मोबाइल नंबर एक्सचेंज कर लिया। मोबाइल पर लगातार



दो साल से दे रहा था शादी का झांसा

दोनों की बात होने लगी। बातचीत के दौरान आरोपी पुलिस अधिकारी ने खुद का पत्नी से तलाक होना बताया था। उससे मिलने आने पर आरोपी आरपीएस राजीव ने जबरन रेप किया। शादी करने का उसे झांसा भी दिया। शादी का झांसा देकर लगातार रेप करने लगा। इस दौरान हॉस्पिटल में जाँब लगाने का भी झांसा दिया। जाँब दिलाने के एवज में उससे 40 तोला सोने के गहने भी हड़प लिया।

जेलों के चार हजार प्रहरी आज से भूखे पेट करेंगे काम

ग्रेड-पे तीन से बढ़ाकर पांच करने की मांग


जयपुर, 13 जनवरी (एजेंसियां)। राजस्थान में जेल कार्मियों ने शुक्रवार से मेस का भोजन त्याग कर भूखे पेट काम करना शुरू कर दिया है। प्रदेश की कुल 105 जेलों के सभी प्रहरी, मुख्य प्रहरी भूख हड़ताल पर चले गए हैं। जेल प्रहरी अपनी इ्यूटी निभाते हुए मेस बहिष्कार कर रहे हैं। 2017 का वेतन विसंगति समझौता नहीं हुआ लागू अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त एकीकृत महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गजेन्द्र सिंह ने बताया कि महासंघ के नेतृत्व में यह भूख हड़ताल की गई है, क्योंकि 2017 का वेतन विसंगति समझौता राज्य सरकार ने लागू नहीं किया है। सरकार को बार-बार चेतावनी भी दी गई, लेकिन अब तक समझौता लागू

नहीं किया गया है। इसलिए मजबूर होकर यह कदम उठाया गया है। गजेन्द्र सिंह राठीड ने आंदोलन को समर्थन देते हुए बताया कि जब तक इनकी वेतन विसंगति का निवारण नहीं किया जाता है, तब तक मेस बहिष्कार जारी रहेगा। ये प्रहरी अपनी इ्यूटी पर रहते हुए अन्न का त्याग करेंगे। प्रदेश की तमाम जेलों में काम के बीच प्रहरियों ने छुट्टी नहीं ली है, लेकिन भूखे रहकर अनशन का गांधीवादी तरीका अपना लिया है। यह सारा मामला अफसरों की नजर में है, बावजूद जेल विभाग के सीनियर अफसरों ने अब तक सरकार से इस मसले पर कोई चर्चा नहीं की है। जेल कार्मिकों की पीड़ा है कि सरकारी नौकरी में रहकर वह खुलकर अपनी बात भी नहीं कह सकते हैं।

लीक हुए पेपर का नया टाइम टेबल हुआ जारी

29 जनवरी को दो ग्रुप में होगा ग्रुप-सी के जीके का पेपर

अजमेर, 13 जनवरी (एजेंसियां)। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित वरिष्ठ अध्यापक (माध्यमिक शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा 2022 के तहत ग्रुप-सी की सामान्य ज्ञान परीक्षा का आयोजन 29 जनवरी 2023 को किया जाएगा। पूर्व में 24 दिसंबर 2022 को इस परीक्षा का आयोजन स्थगित किया गया था। इसके लिए ग्रुप-सी में सम्मिलित विषयों को दो ग्रुपों में बांटा गया है। में विज्ञान एवं पंजाबी विषय तथा ग्रुप-डी में संस्कृत एवं गणित विषय रखे गए हैं। आयोग सचिव एचएल अटल ने बताया कि ग्रुप-सी में सम्मिलित विज्ञान तथा पंजाबी विषय के अभ्यर्थियों की सामान्य ज्ञान परीक्षा प्रातः 10.30 से 12.30 बजे तक आयोजित की जाएगी। ग्रुप-डी में सम्मिलित किए गए संस्कृत एवं गणित विषय के अभ्यर्थियों की सामान्य ज्ञान विषय की परीक्षा का आयोजन दोपहर 2.30 से 4.30 बजे तक किया जाएगा।



अग्रवाल समाज सहायता ट्रस्ट भवन निर्माण के संदर्भ में बैठक



हैदराबाद, 13 जनवरी (स्वतंत्र वार्ता)। अग्रवाल समाज सहायता ट्रस्ट द्वारा अग्रवाल समाज तेलंगाना के सभी पूर्व अध्यक्ष,

वर्तमान केन्द्रीय समिति के पदाधिकारियों, वर्तमान सभी शाखा पदाधिकारियों एवं वर्तमान केन्द्रीय समिति सदस्यों की एक

विशेष बैठक होटल ब्लू सिल, हिमायतनगर में आयोजित की गई। बैठक में अग्रवाल समाज सहायता ट्रस्ट भवन निर्माण के संबंध में

ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने भूमि दान के लिए सीएम केसीआर का आभार जताया

विचार-विमर्श किया गया। खासकर तेलंगाना सरकार द्वारा उपलब्ध क्षेत्र में प्रदान की गई 3 एकड़ भूमि पर 1,50,000 वर्ग फीट का विशाल पाँच मंजिला भव्य भवन निर्माण हेतु 25 जनवरी को होने वाले भूमि पूजन के संदर्भ में चर्चा हुई। सर्व प्रथम महाराजा अग्रसेन की पुजा अर्चना कर अग्रवाल समाज सहायता ट्रस्ट के चेयरमैन करोडीमल अग्रवाल ने आये हुए सभी का स्वागत किया। सहायता ट्रस्ट के केमैजिंग ट्रस्टी राजेश अग्रवाल ने अपने सम्बोधन में कहा कि इस सभा का उद्देश्य अग्रवाल बन्धुओं को जोड़ना है। अग्रवाल समाज सहायता ट्रस्ट को सरकार द्वारा दी गई तीन एकड़ जमीन सभी अग्रबन्धुओं की है। इस बात का आश्वासन देते हुए सभी को 25 जनवरी बुधवार सुबह 11 बजे भूमि पूजन में सभी अग्रबन्धु उपलब्ध के भवन स्थल पर एकत्रित होकर सरकार के सामने अग्रवाल भाइयों की एकता बताने का अनुरोध किया। उन्होंने तेलंगाना के सीएम के. चन्द्रशेखर राव के प्रति आभार जताया। अग्रवाल समाज तेलंगाना के

अध्यक्ष अंजनी कुमार ने अपने सम्बोधन में सभी अग्रबन्धुओं को इस शुभ कार्य में शामिल होने का निवेदन किया। अंजनी कुमार के निवेदन पर राजेश अग्रवाल इस भूमि को सरकार से लेने के अपने अनुभव साझा किये। अग्रवाल समाज सहायता ट्रस्ट के संस्थापक चेयरमैन नरेश कुमार चौधरी ने सहायता ट्रस्ट की विस्तृत जानकारी दी। अग्रवाल समाज तेलंगाना के उपाध्यक्ष दिलीप कुमार पेंसारी ने अपनी खुशी जताते हुए इस कार्य में तन-मन अथवा धन से जुड़ने को कहा। भूमि पूजा के संयोजक महावीर प्रसाद अग्रवाल ने ट्रस्ट की सहमति से शाखा सदस्यों को भूमि स्थल तक पहुंचने के लिए बस व्यवस्था की सहयोग करने की बात कही। आज की सभा का संचालन अग्रवाल समाज सहायता ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष कपूरचन्द गुप्ता ने किया, भारत कुमार सौधलिया को ट्रस्टी बनाया गया। पूर्व अध्यक्ष दुर्गाप्रसाद नरेठा, मर्जे ब्यूरो चेयरमैन मुकुंद दयाल, केपी अग्रवाल, राजकुमार गुप्ता एवं

अन्य ने अपने विचार रखे। अग्रवाल समाज सहायता ट्रस्ट की ट्रस्टी श्याम सुन्दर अग्रवाल धन्यवाद ज्ञापन के साथ सभा का समापन हुआ। बैठक में अग्रवाल समाज बन्धुओं द्वारा संचालित संस्थाएँ अग्रवाल शिक्षा समिति, अग्रसेन बैंक, अग्रोहा बैंक, श्री श्याम मन्दिर सेवा समिति, श्रीकृष्ण गौशाला मंडल, रानी सती दादी मंदिर (घासी बाजार), सालासर हनुमान मन्दिर, पहाड़ी हनुमान मंदिर, अग्रसेन भवन, अग्रवाल मानव सेवा मंच, अग्रवाल सेवा दल, हरियाणा नागरिक संघ, अभा अग्रवाल सम्मेलन, श्री गोपाल गौशाला, श्री श्याम सत्संग समिति, शुद्धनू प्रगति संघ भायनगर गौशाला सदन के अलावा अग्रवाल बंधुओं द्वारा संचालित अन्य संस्थाओं के पदाधिकारियों ने भाग लिया। एक दूसरी विशेष बैठक गुरुवार 19 जनवरी को सायं 5 बजे से आयोजित की जायेगी। बैठक में उपस्थित समाज बन्धुओं को भवन निर्माण से संबंधित विस्तृत जानकारी दी जायेगी।

रंगोली प्रतियोगिता की विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया गया



हैदराबाद, 13 जनवरी (स्वतंत्र वार्ता)। सरीलिंगमपल्ली निर्वाचन क्षेत्र विवेकानंद नगर मंडल "वैकटेश्वर नगर" में संक्रांति समारोह के हिस्से के रूप में रंगोली प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसमें भाजपा प्रभारी गज्जला योगानंद ने बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। उनके साथ मंडल प्रतियोगी नगरसेवक मेडचल शहरी जिला महिला मोर्चा सचिव विद्या, कल्पना, एकांत गौड़ भी उपस्थित रही। इस अवसर पर संभाग भाजपा नेता एकांत गौड़, भानु यादव, अशोक, जितेन्द्र, वीरेंद्र चारी, रमेश, मर्या श्रृंग, संतोष, विनोद, महिला मोर्चा नेता संध्या, राजेश्वरी, मंजुला, श्रुति गौड़, शालिनी, भारती, अनीता, उषा, नागरानी गौड़ उपस्थित थे।

आयोजित करने में उन्हें बहुत खुशी हो रही है, जो हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को दर्शाता है। उसके बाद 5000 रुपये का प्रथम पुरस्कार, 2500 रुपये का दूसरा पुरस्कार, 2000 रुपये की साड़ी का तीसरा पुरस्कार और मुगुला प्रतियोगिताओं में जीतने वाली महिलाओं को सोलह पुरस्कार दिया गया। इस अवसर पर संभाग भाजपा नेता एकांत गौड़, भानु यादव, अशोक, जितेन्द्र, वीरेंद्र चारी, रमेश, मर्या श्रृंग, संतोष, विनोद, महिला मोर्चा नेता संध्या, राजेश्वरी, मंजुला, श्रुति गौड़, शालिनी, भारती, अनीता, उषा, नागरानी गौड़ उपस्थित थे।

सुब्रत मंडल ने आरईडी (दक्षिण) एनटीपीसी का अतिरिक्त प्रभार संभाला



हैदराबाद, 13 जनवरी (स्वतंत्र वार्ता)। सुब्रत मंडल ने आरईडी (दक्षिण), एनटीपीसी का अतिरिक्त प्रभार संभाला है। वर्तमान में, श्री मंडल आरईडी, पश्चिमी क्षेत्र-1, मुंबई हैं। एनआईटी दुर्गापुर से मैकेनिकल इंजीनियर, श्री मंडल ने 1985 में एक कार्यकारी प्रशिक्षु (ईटी) के रूप में एनटीपीसी में कार्यभार ग्रहण किया। उनके पास फ्यूल हैंडलिंग, मैकेनिकल मटेरिअल, सेनपीप, मटेरिअल, ओ एंड एम और पावर प्लांट के अन्य क्षेत्रों का समृद्ध और विविध अनुभव है। उन्होंने सैंतीस साल से अधिक के करियर में कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया और एनटीपीसी की विभिन्न परियोजनाओं जैसे फरका, ईआरएचब्यू-1, सिंगारोली, कांटी (मुजफ्फरपुर) और बांग्लाईगाम में काम किया। उनके श्रेय के लिए, श्री मंडल कांटी और बांग्लाईगाम के एचओपी भी थे।



वनस्थलीपुरम स्थित एंजोस कालोनी में तेलंगाना पॉन ब्रोकर्स एवं ज्वेलर्स, एसोसिएशन, सिकंदराबाद-हैदराबाद के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष पुपुलाल रावरीया का सम्मान करते हुए दौलाराम कडवा, हनुपुल्लाम खोखर, चिन्नाराम मुंदियाडा, धर्माराम ढाका व अन्य।

जनसमस्याओं को सुलझाने पर किया गया सम्मान



हैदराबाद, 13 जनवरी (स्वतंत्र वार्ता)। गोशामहल निर्वाचन क्षेत्र में रामकृष्ण थियेटर के पीछे, तुरुष बाजार, आबिड्स, रामकृष्ण थियेटर लाइन, हनुमान टेकड़ी और अन्य स्थानों पर पदयात्रा कर स्थानीय बीआरएस नेता एम आनंद कुमार गौड़ ने जनसमस्याओं का जायजा लिया। गौरतलब है कि इस क्षेत्र की जनसमस्याओं को सुलझाने में श्री गौड़ कई दिनों से जुटे हुए हैं। इसी तर्ज पर सड़क क्षतिग्रस्त होने को लेकर अधिकारियों से चर्चा कर मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव के सहयोग से सीएम फंड से 30 लाख स्वीकृत किए गए। इस पर संक्रांति के बाद काम शुरू होगा। उन्होंने कहा कि वह अपनी हार के बाद 24 घंटे जनता के बीच रहेंगे। इस दौरान तुरुष बाजार के मूल निवासियों ने इस सड़क को सुधारने के लिए आनंद कुमार गौड़ को सम्मानित किया। इस दौरान जांबाग मंडल युवा नेता सुरेश, अल्पसंख्यक अध्यक्ष अहमद, बलराज, आसिफ, मोहम्मद, भास्कर, नरेश गौड़, सैयद यूसुफ, इफ्फान, इब्राहिम, ललित, खालिद आदि शामिल रहे।

प्रथम पृष्ठ का शेष

एफआईआर दर्ज करने ...

इस हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारी को, मामले की अभी तक की जांच की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट सामाजिक कार्यकर्ता तुषार गांधी की अवमानना याचिका पर सुनवाई कर रहा था। जिसमें आरोप लगाया गया था कि कथित हेट स्पीच के मामले में उत्तराखंड पुलिस और दिल्ली पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। याचिका में कहा गया कि यह तहसील पूनावाला केस में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले का

उल्लंघन है। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने नफरत भरे भाषणों और मॉब लिंगिंग के मामले में क्या कार्रवाई करनी चाहिए, इसकी जानकारी दी है। अवमानना याचिका में दिल्ली पुलिस चीफ और उत्तराखंड पुलिस चीफ को सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के तहत कोई कार्रवाई ना करने के लिए सजा देने की मांग की गई थी। हालांकि बीते साल 11 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और उत्तराखंड पुलिस के मुखिया को अवमानना याचिका से मुक्त कर दिया था। बता दें कि दिसंबर 2021 में हिंदू युवा वाहिनी के एक कार्यक्रम में कथित तौर नफरत भरे भाषण दिए गए।

भाजपा विधायक इटैला राजेंद्र ने किया रक्तदान शिविर का उद्घाटन



हैदराबाद, 13 जनवरी (स्वतंत्र वार्ता)। मारवाड़ी युवा मंच मेडचल शाखा द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस एवं स्वामी विवेकानंद जी की 160वीं जयंती के उपलक्ष

पर अन्नदनाम एवं रक्तदान शिविर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन हजूरबाद विधानसभा क्षेत्र के विधायक एटैला राजेंद्र द्वारा

किया गया। प्रेस वज्रसि में पन्नालाल सीरवी ने बताया कि स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष पर मेडचल स्थित विवेकानंद स्वामी की प्रतिमा के

समीप रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें 30 यूनिट रक्त संग्रहित हुआ। इस अवसर पर अन्नदाम कार्यक्रम भी रखा गया जिसमें पाँच हजार लोगों के लिये भोजन की व्यवस्था की गई। कार्यक्रम में प्रेमराज प्रजापति, सोहनलाल सीरवी, मोहनलाल सीरवी, संजय सीरवी, कैलाश प्रजापति, रावताराम सीरवी, संदीप शर्मा, सेषाराम चौधरी, दिनेश प्रजापति, चिन्नाराम, मदनलाल प्रजापति, पन्नालाल, मनिकचंद, डायाराम, सुरेश देवासी, बगदराम देवासी, सुरेश सीरवी, ताराराम, राजू प्रजापति, हिमनाराम, नारायणल ओगड़राम, चंद्रराम काग, लच्छाराम, जयेश सोलंकी, कुन्नाराम, गणेश राम, जगदीश एवं सभी मंच के सदस्य



मदनूर, 13 जनवरी (स्वतंत्र वार्ता)। स्थानीय पशु चिकित्सा अधिकारी विजय बंडीवार एसजी 1898 ज्वार किस्म के बीज सरकारी सब्सिडी के माध्यम से वितरित करते समय किसानों को संबोधित करते हुए बताया कि इन ज्वार के बीजों की कटाई बुवाई के 45 दिन बाद की जाती है। यह 5 किलो का बैग है। इसकी कीमत 61.00 रुपये है। मदनूर पशु चिकित्सालय में ये बीज 5 किटल उपलब्ध है। इच्छुक किसानों इस बीज का लाभ ले। उन्होंने कहा कि तेलंगाना सरकार किसानों की भलाई चाहती है। इस समय सरपंच सुरेश उप सरपंच विठल के साथ स्थानिक किसान व पशु वैद्यकीय अधिकारी उपस्थित थे।

सीरवी समाज करमनघाट वॉली बॉल व क्रिकेट प्रतियोगिता आज से

हैदराबाद, 13 जनवरी (स्वतंत्र वार्ता)। सीरवी समाज ट्रस्ट करमनघाट अलमासगुडा हैदराबाद समाज बन्धुओं के तत्वावधान में दो दिवसीय वॉली बॉल एवं क्रिकेट प्रतियोगिता-2023 का भव्य शुभारम्भ 14 जनवरी प्रातः 7.30 बजे श्री आईमाता मंदिर में पूजा-अर्चना के पश्चात् भव्यरूप से किया जाएगा। जारी प्रेस विज्ञप्ति में अध्यक्ष हंसाराम आगलेचा व सचिव हीरालाल सैणचा ने संयुक्तरूप से बताया कि हर वर्ष की भांति समाज की टीमों के मध्य दो दिवसीय वॉलीबॉल व क्रिकेट प्रतियोगिता शनिवार 14 जनवरी व रविवार 15 जनवरी को मंदिर के वॉलीबॉल ग्राउंड एवं एम.सी.जी. क्रिकेट ग्राउंड अलमासगुडा में खेला जाएगा। उद्घाटन मुकाबला 14 जनवरी प्रातः 8 बजे से खेला जाएगा। वॉलीबॉल प्रतियोगिता में समाज की 17 टीमों एवं क्रिकेट में 6 टीमों भाग ले रही है। अध्यक्ष हंसाराम आगलेचा ने बड़े के सभी पदाधिकारियों, मंत्रियों व कार्यकर्ताओं से निवेदन किया है कि प्रतियोगिता के सफल आयोजन में सभी मिलजुलकर अपना सहयोग करें। खिलाड़ियों एवं पक्षीय समाज बन्धुओं के लिए प्रातः कालीन नास्ता, मध्याह्न भोजन एवं सायं हाईटी की व्यवस्था कार्यक्रम स्थल पर रहेगी। कार्यक्रम से सम्बंधित जानकारी के लिए खेल मंत्री धनराज चौहान व डुंगाराम सोलंकी से सम्पर्क करें। सचिव हीरालाल सैणचा ने बताया कि सभी टीमों का रजिस्ट्रेशन पूर्ण चुका है।

टास्कफोर्स पुलिस ने देसी शराब तस्करो को पकड़ा



आसिफाबाद, 13 जनवरी (स्वतंत्र वार्ता)। कागजगुजर एक्स रोड पर बस स्टैंड पर टास्क फोर्स इस्पेक्टर ने देसी दारू की तस्करी करने वालों को पकड़ा। टास्क फोर्स इस्पेक्टर सुधाकर ने विश्वसनीय सूचना के आधार पर देसी दारू का कुमरम भीम जिले की विभिन्न बेल्ट दुकानों में तस्करी किया जा रहा था। तब इस्पेक्टर ने अपने कर्मचारियों के साथ तेलंगाना से संबंधित कार नंबर श्रृंखला TS02EU2359 के साथ महाराष्ट्र से संबंधित एक संदिग्ध टाटा टिगाओ MH 34 BB1387 कार

की जांच की और उनमें से लगभग 30 कार्टून, (3000 देसी दारू की बोतलें) पाई। लगभग उसका मूल्य 10,50,00 रुपये (खुले बाजार में इसका मूल्य लगभग 2,50,000) तस्करी करने वालों में चंद्रपुर के अजय राकेश, रोट सिंघा, सुभाष है। उन्होंने कहा कि कम समय में अधिक पैसा बनाने के इरादे से उसने महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक अज्ञात व्यक्ति से देसी दारू खरीदा और उसे कुमरम भीम जिले यानी कागजगुजर मंडल में अलग-अलग बेल्ट की दुकानों में अधिक कीमत पर लाया। बाद में तीनों आरोपियों और उनके पास मिली देसी दारू, टाटा टिगाओ कार MH34BB1387 को आगे की जांच के लिए रेबेना पुलिस को सौंप दिया गया। इस कार्य में टास्क फोर्स सीआई सुधाकर, एसआई संदीप कुमार व स्टाफ ने भाग लिया।



ब्रह्मर्षि गुरु आनंद स्वामी की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लिये बिहार एसोसिएशन के अध्यक्ष हरराम सिंह का सम्मान किया गया। इसमें भाग लेते हुए भरत सिंह, सतीश सिंह, श्यामसुंदर सिंह, सुमीत सिंह, एच. नारायण झा, आदित्यनाथ झा, राखी झा, शालिनी झा, पी. मिश्र, शंभु मिश्र के अलावा भारी संख्या में स्वामीजी के भक्त मौजूद रहे।

हिन्दी महाविद्यालय में राष्ट्रीय युवा दिवस संपन्न



हैदराबाद, 13 जनवरी (स्वतंत्र वार्ता)। स्वामी विवेकानंदजी के जन्मोत्सव के संदर्भ में हिन्दी महाविद्यालय में राष्ट्रीय युवा दिवस आयोजित किया गया। इस अवसर पर हिन्दी महाविद्यालय समिति के मानद मंत्री सीए लीक्ष्मीनिवास शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता हिन्दी महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. अविनाश जायसवाल ने की। छात्रों की ओर से साई तेजा ने स्वामी विवेकानंद के जीवन की प्रमुख घटनाओं का

विस्तार से वर्णन करते हुए विद्यार्थियों से अनुरोध किया कि वे भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता का पालन करें एवं उसकी रक्षा, प्रचार एवं प्रसार करें। हिन्दी विभाग की अध्यक्ष डॉ. रजनीधारी ने अपने संदेश में कहा कि युवा वर्ग को स्वामी विवेकानंद की जीवनी का सर्वांगीण अध्ययन करके अपने विकास में उसको आत्मसात करना चाहिए। हिन्दी महाविद्यालय की उप-प्राचार्य श्रीमती अश्विनी सनपूरकर ने अपने उद्बोधन में कहा कि स्वामी

विवेकानंद के बताए मार्ग पर चलने पर कोई भी युवा अपने मार्ग पर भटक नहीं सकता और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकता है। प्राचार्य डॉ. अविनाश जायसवाल ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि स्वामी विवेकानंद की जीवनी से प्रेरणा प्राप्त करके उनके बताए सिद्धांतों का पालन करने से ही स्वामी विवेकानंद को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है। इस कार्यक्रम में प्राध्यापकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों ने भाग लिया।

सरकारी अस्पताल में प्रसव के बाद दो महिलाओं की मौत

परिजनों ने किया अस्पताल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन



हैदराबाद, 13 जनवरी (स्वतंत्र वार्ता)। नगर के एक सरकारी अस्पताल में प्रसव के बाद दो महिलाओं की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने शुक्रवार को अस्पताल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। डॉक्टरों की लापरवाही का आरोप लगाते हुए मृतक के परिजन मलकपेट के सरकारी अस्पताल के सामने धरने पर बैठ गए। उन्होंने लापरवाही के लिए जिम्मेदार डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। गांधी अस्पताल में इलाज के दौरान दोनों महिलाओं की मौत

हो गई, जहां उनकी हालत गंभीर होने के बाद उन्हें स्थानांतरित किया गया था। नागरकुर्नूल जिले के एक गांव के डाइवर महेश ने सोमवार को अपनी पत्नी श्री वेनेला (23) को अस्पताल में भर्ती कराया था। उसने बुधवार को सिजेरियन सेक्शन से एक बच्चे को जन्म दिया। उन्होंने कहा कि कुछ घंटे बाद वह कांपने लगी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगले दिन उन्हें बताया गया कि उनकी हालत ठीक नहीं है क्योंकि प्लस रेट कम हो गया है और दिल की धड़कन बढ़ गई है।

हालत गंभीर होने पर स्टाफ ने

उसे गांधी अस्पताल में शिफ्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि गांधी अस्पताल के डॉक्टरों ने उन्हें बताया कि उन्हें पांच दिनों से डेंगू बुखार है और प्लेलेट्स गिर गए हैं। इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। अपनी नवजात बेटी को गोद में लिए महेश ने अधिकारियों से उनके साथ न्याय करने की मांग की।

कांग्रेस ने महिलाओं की मौत पर लापरवाही का आरोप लगाया

हैदराबाद, 13 जनवरी (स्वतंत्र वार्ता)। हैदराबाद डीसीसी अध्यक्ष समीर वलीउल्लाह के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने शुक्रवार को मालकपेट में एमएन एरिया अस्पताल में विरोध प्रदर्शन किया, सिजेरियन सेक्शन से गुजरने वाली दो महिलाओं की डिलीवरी के कुछ घंटों के भीतर मौत हो गई। गौरतलब है कि 11 जनवरी को मलकपेट के एमएन एरिया अस्पताल में सिजेरियन सेक्शन कराने वाली दो महिलाओं, वेनेला और शिवानी की हालत गंभीर हो गई और गुरुवार को गांधी अस्पताल में स्थानांतरित करने के कुछ घंटों के भीतर उनकी मृत्यु हो गई। हैदराबाद डीसीसी के अध्यक्ष समीर वलीउल्लाह ने मांग की कि यह लापरवाही का सीधा मामला है और सभी इसके लिए जिम्मेदार डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मचारियों को दंडित किया जाना चाहिए। हैदराबाद डीसीसी अध्यक्ष समीर वलीउल्लाह, महिला कांग्रेस हैदराबाद अध्यक्ष वारा लक्ष्मी, ग्रेटर हैदराबाद अल्पसंख्यक विभाग के अध्यक्ष शाइक अरशद, टीपीसीसी अल्पसंख्यक विभाग के उपाध्यक्ष अशफाक खान, चारमीनार निर्वाचन क्षेत्र

के प्रभारी एडवोकेट मुजीबुल्ला शरीफ, टीपीसीसी के महासचिव बोलू किशन और च. श्रीनिवास सहित कांग्रेस नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल पुराना पुल असलम शरीफ से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार गंटला कृष्णा और मलकपेट निर्वाचन क्षेत्र के सभी मंडल और ब्लॉक अध्यक्षों ने इस मुद्दे पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण आयुक्त, कोटी के आयुक्तालय में एक ज्ञापन सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया कि बीआरएस सरकार यह ध्योरी बनाकर चिकित्सकीय लापरवाही को ढंकने की कोशिश कर रही है कि महिलाएं डेंगू और अन्य स्वास्थ्य स्थितियों से पीड़ित थीं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में चिकित्सकीय लापरवाही का यह पहला मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले साल सितंबर में इब्राहिमपट्टनम के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में नसबंदी कराने के बाद चार महिलाओं की मौत हो गई थी। इसी तरह जगतियाल के राजकीय मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की लापरवाही के कारण सी-सेक्शन सर्जरी के बाद छह महिलाओं को संक्रमण हो गया। अब सरकारी अस्पताल में सिजेरियन सेक्शन के बाद घंटों के भीतर दो महिलाओं की मौत हो गई। हैदराबाद डीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि बीआरएस सरकार ने हैदराबाद में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल स्थापित करने का वादा किया है। हालांकि, उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार पिछली कांग्रेस सरकारों द्वारा बनाए गए चिकित्सा बुनियादी ढांचे को बनाए रखने में भी विफल रही है। उन्होंने कहा कि सुधारात्मक उपाय करने के बजाय, बीआरएस सरकार चिकित्सकीय लापरवाही के कारण होने वाली मौतों के मामलों को कवर करने की पुराओर कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि संक्रमण और मौतों के हाल के मामलों, विशेष रूप से सी-सेक्शन सर्जरी में गरीब लोगों में डर पैदा कर दिया है और वे निजी अस्पतालों से संपर्क करने के लिए मजबूर हो रहे हैं।

रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करें स्टार्टअप समुदाय : केटीआर

हैदराबाद, 13 जनवरी (स्वतंत्र वार्ता)। आईटी और उद्योग मंत्री केटी रामाराव ने स्टार्टअप समुदाय से केवल मूल्यांकन, फंडिंग और उपयोगकर्ताओं जैसे सामान्य व्यवसाय करने के बजाय प्रभाव निर्माण और रोजगार सृजन पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया।

डलास और हैदराबाद में स्थित एक उद्यम पूंजी फार्म, डलास वेंचर कैपिटल (डीवीसी) के साथ टी-हब की साझेदारी की घोषणा करने के लिए टी-हब में आयोजित एक कार्यक्रम में बोले हुए, मंत्री केटी रामा राव ने कहा कि नए स्टार्टअप के बीच एक नया विश्वास पाया गया है। कि पूंजी जुटाना कोई चुनौती नहीं है। यह उदर विचार की क्षमता है कि वे बैंकिंग हैं।

केटीआर ने कहा कि दुनिया निवेश के व्यवहार्य अवसरों की तलाश कर रही है। कई पेंशन और सांख्यिक फंड भी निवेश के लिए भारत की ओर देख रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि बहुती भारतीय अर्थव्यवस्था में निवेश करना एक अच्छा व्यावसायिक प्रस्ताव होगा। हालांकि, यह विचार है जो होगा इन निवेशों को आकर्षित करने के लिए मामला। शहर स्थित स्काईरूट एयोरस्पेस की सफलता का हवाला देते हुए, जिसने हाल ही



में भारत के पहले निजी रॉकेट को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया, उन्होंने कहा कि इसे राज्य समर्थित स्टार्टअप एनेबलर टी-हब में इनस्यूबेट किया गया है। एलोन मस्क का स्पेसएक्स अपने तीसरे प्रयास में अपना रॉकेट लॉन्च करने में सफल रहा लेकिन स्काईरूट अपने पहले प्रयास में सफल रहा। एक अन्य शहर आधारित स्टार्टअप, ध्रुव ने भी सफलतापूर्वक नैनो उपग्रहों का प्रक्षेपण किया। जबकि वे अभी तक यूनिर्कॉर्न नहीं बने हैं, सफलताएं अन्य देशों के कई खिलाड़ियों के साथ इन खिलाड़ियों को असाइनमेंट देने के लिए नए अवसर खोलेगी। हमें इस तरह का प्रभाव पैदा करने पर

ध्यान देना चाहिए। तेलंगाना के दृष्टिकोण पर, रामाराव ने कहा कि राज्य ने अपने टी-हब के माध्यम से सफलतापूर्वक एक मजबूत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया है। राज्य में 6,000 से अधिक स्टार्टअप हैं और देश भर में यह संख्या लगभग 60,000 है। हालांकि, देश भर के स्टार्टअप में केवल 10,000 एंजेल निवेशक ही निवेश कर रहे हैं। हैदराबाद में डलास वेंचर कैपिटल का स्वागत करते हुए उन्होंने कहा कि इस संख्या को बढ़ाना होगा, जिसने 350 करोड़ रुपये का इंडिया फंड स्थापित किया है। डीवीसी और टी-हब हैदराबाद स्थित स्टार्टअप को सलाह देंगे। सर्वश्रेष्ठ बी2बी सॉफ्टवेयर-एज-ए-सर्विंस स्टार्टअप भारत में ढाले जा रहे हैं। डीवीसी के प्रबंध निदेशक दयाकर पुस्कूर ने कहा कि एक क्रॉस-बॉर्डर वेंचर कैपिटल फर्म के रूप में, डीवीसी एडवांटेज प्रोग्राम के माध्यम से स्टार्टअप को विस्तार करने और विश्व स्तर पर बढ़ने में मदद करने के लिए तैनात है। टी-हब के सीईओ श्रीनिवास राव महनकली ने कहा कि टी-हब हैदराबाद से बाहर के स्टार्टअप में तेलंगाना राज्य की निवेश क्षमता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। डीवीसी इंडिया फंड ने पांच स्टार्टअप में निवेश किया है।

तेलंगाना में टीडीपी के साथ कोई गठबंधन नहीं : तरुण चुघ

हैदराबाद, 13 जनवरी (स्वतंत्र वार्ता)। आगामी विधानसभा चुनावों के लिए तेलंगाना में भाजपा द्वारा तेदेपा के साथ हाथ मिलाते की कोशिशों के बीच, भाजपा तेलंगाना मामलों के प्रभारी तरुण चुघ ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी का राज्य में तेदेपा के साथ गठबंधन करने का कोई इरादा नहीं है।

तरुण चुघ ने गुरुवार को नई दिल्ली में मीडिया को बताया कि उनकी पार्टी टीडीपी के साथ गठबंधन करने की योजना बना रही थी। तरुण चुघ ने आरोप लगाया कि भाजपा-तेदेपा गठबंधन के संबंध में रिपोर्ट पूरी तरह से भ्रामक और शरारतपूर्ण हैं और इसका उद्देश्य झूठी कहानी बनाना है। उन्होंने कहा कि भाजपा तेलंगाना में बीआरएस का मुकाबला करने के लिए काफी मजबूत है और उसे राज्य में सत्ता में आने के लिए किसी अन्य पार्टी की मदद की जरूरत नहीं है।

मैं मीडिया के एक वर्ग में मेरे हवाले से रिपोर्ट की कड़ी निंदा



करता हूं कि बीजेपी तेलंगाना में टीडीपी के साथ गठबंधन के बारे में सोच रही है। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिसे दूर से भी टीडीपी के साथ गठबंधन के विचार या तेलंगाना में श्रीमती शर्मिला के साथ खड़े होने के सुझाव के रूप में समझा जा सके। टीडीपी पर सीधे तौर पर निशाना साधते हुए चुघ ने कहा कि कुछ राजनीतिक दल जो राज्य में आधार और प्रासंगिकता खो चुके हैं, वे भाजपा और संभावित गठबंधनों पर झूठे प्रचार का सहारा ले रहे हैं।

विधायक खरीद फरोख्त मामले के आरोपी नंद कुमार जेल से रिहा

हैदराबाद, 13 जनवरी (स्वतंत्र वार्ता)। बीआरएस विधायकों की खरीद फरोख्त मामले के आरोपियों में से एक नंद कुमार को शुक्रवार को यहां चंचलगुडा के केंद्रीय कारागार से रिहा कर दिया गया। कोर्ट ने नंद कुमार को सशर्त जमानत दी और उन्हें 10-10 हजार रुपये की दो जमानतें जमा करने को कहा।

गौरतलब है कि रामचंद्र भारती, सिमहाजी और नंद कुमार को साइबरबाद पुलिस ने 26 अक्टूबर को हैदराबाद के पास मोडनाबाद में एक फार्म हाउस पर छापेमारी के दौरान गिरफ्तार किया था। उच्च न्यायालय ने 1 दिसंबर को सभी तीन संदिग्धों को पहले जमानत दे दी थी। हालांकि, रामचंद्र भारती और नंद कुमार को उनके खिलाफ

दर्ज अन्य मामलों के संबंध में 8 दिसंबर को जेल से रिहा होने के तुरंत बाद पुलिस ने फिर से गिरफ्तार कर लिया था। जहां रामचंद्र भारती पर कई पासपोर्ट, आधार कार्ड और अन्य दस्तावेज रखने का मामला दर्ज किया गया था, वहीं नंद कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य अपराधों के लिए पांच मामले दर्ज किए गए थे। जहां कुछ दिन पहले रामचंद्र भारती जेल से रिहा हुए थे, वहीं नंद कुमार शुक्रवार को केंद्रीय कारागार से बाहर आए।

सीएम केसीआर ने शरद यादव के निधन पर शोक जताया

हैदराबाद, 13 जनवरी (स्वतंत्र वार्ता)। मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर रावने पूर्व केंद्रीय मंत्री और राजद नेता शरद यादव के निधन पर शोक व्यक्त किया है। यहां एक शोक संदेश में, मुख्यमंत्री ने तेलंगाना अलग राज्य आंदोलन के लिए शरद यादव के समर्थन को याद किया और शरद यादव के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। देश के सबसे लोकप्रिय समाजवादी नेताओं में से एक यादव का गुरुवार को गुध्राम में निधन हो गया। वह 75 वर्ष के थे।

सिकंदराबाद-विशाखापट्टनम वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ कल



हैदराबाद, 13 जनवरी (स्वतंत्र वार्ता)। आठवीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को 15 जनवरी को सिकंदराबाद से हरी झंडी दिखाई जाएगी। यह ट्रेन सप्ताह में छह दिन (रविवार को छोड़कर) विशाखापत्तनम-विजयवाड़ा-खम्मम-वारांगल-सिकंदराबादमार्ग पर चलेगी। ट्रेन संख्या 20833 विशाखापत्तनम-सिकंदराबादवंदे भारत एक्सप्रेस 16 जनवरी से

विशाखापत्तनम के बीच राजमंडी, विजयवाड़ा, खम्मम और वारांगल स्टेशनों पर रुकेगी। हालांकि, उद्घाटन के दिन ट्रेन नंबर 02844 सिकंदराबाद-विशाखापत्तनम वंदे भारत स्पेशल आपन पाथ टाइमिंग में चलेगी। उद्घाटन वंदे भारत स्पेशल सिकंदराबाद से 10.30 बजे रवाना होगी जो उसी दिन 20.45 बजे विशाखापत्तनम पहुंचेगी।

वंदे भारत उद्घाटन स्पेशल के स्टॉपज विशाखापत्तनम के बीच चर्लापल्ली, भोंगिर, जंगांव, काजीपेट, वारांगल, महबूबाबाद, दोरनाकल, खम्मम, मधिरा, कोंडापल्ली, विजयवाड़ा, नुजिद, एलुरु, तांडेपल्लीगुडेम, निदादावोलु, राजमंडी, द्वारापुडी, समालकोट, तुनी, अनाकापल्ली, दुववाडा और सिकंदराबाद है।

बिजली की लाइनों व ट्रांसफार्मरों से दूर पतंग उड़ाने की अपील

हैदराबाद, 13 जनवरी (स्वतंत्र वार्ता)। बिजली आपूर्ति अधिकारियों ने नागरिकों से 15 जनवरी, मकर संक्रांति के अवसर पर पतंग उड़ाने समय सतर्क रहने का आग्रह किया है और उनसे अपील की है कि वे ओवरहेड बिजली लाइनों, ट्रांसफार्मर और सबस्टेशनों से दूर खले क्षेत्रों में पतंग उड़ाएं। शुक्रवार को एक एडवाइजरी में टीएसएसपीडीसीएल सी और एमडी जी रघुमा रेड्डी ने लोगों से मेटल कोटेड धागा का इस्तेमाल करने से बचने का आग्रह किया क्योंकि इससे करंट लग सकता है। उन्होंने लोगों से कहा कि बिजली के तारों में फंसी या सबस्टेशन परिसर में गिरने वाली पतंगों को हटाने की कोशिश न करें। "वहीं छोड़ो इसे। पतंग या डोर के किसी भी हिस्से को न छुएं और सभी को दूर रखें, उन्होंने आगाह किया। रघुमा रेड्डी ने माता-पिता से सतर्क रहने और अपने परिसर में पतंग उड़ाने समय अपने बच्चों पर नजर रखने का आग्रह किया। उन्होंने सलाह दी कि बच्चों को टूटे और टूटे हुए कंडक्टर को छूने की अनुमति न दें। उन्होंने लोगों से 1912 पर बिजली विभाग या निकटतम बिजली कार्यालय या मोबाइल ऐप या कंपनी की वेबसाइट www.tssouthernpower.com के माध्यम से सूचित करने के लिए कहा कि यदि कोई पतंग या कोई वस्तु बिजली की लाइनों में फंस जाती है, तो उनके संबंधित क्षेत्रों में कंडक्टर टूट जाता है, तत्काल कार्रवाई की जाती है।

राष्ट्रीय राजनीति की धारणा बदलने के लिए खम्मम बैठक : हरीश राव



हैदराबाद, 13 जनवरी (स्वतंत्र वार्ता)। वित्त मंत्री टी. हरीश राव ने कहा कि भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) द्वारा अपने अध्यक्ष के. चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में होने वाली प्रस्तावित विशाल जनसभा

भक्तों के लिए सामान्य कमरों का किराया नहीं बढ़ा : टीटीडी

तिरुमला, 13 जनवरी (स्वतंत्र वार्ता)। तिरुपति देवस्थान (टीटीडी) के कार्यकारी अधिकारी धर्मा रेड्डी ने कहा कि यह कहना गलत है कि तिरुमाला में कटिंग का किराया बढ़ा दिया गया है और स्पष्ट किया कि आम श्रद्धालुओं को आवंटित कमरों के किराए में कोई वृद्धि नहीं हुई है। यहां मीडियाकर्मियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोगों ने विस्तृत जानकारी हासिल किए बिना बात की और इसलिए उन्हें तथ्यों के साथ सामने आना पड़ा। तिरुमाला में 7500 कमरे हैं। इनके अलावा, तीर्थयात्रियों के लिए चार मुफ्त आवास परिसर हैं। साधारण भक्त वहाँ निःशुल्क रह सकते हैं और यहाँ लॉकर, भोजन और स्नानघर की सुविधा है। 50 रुपये में 5,000 कमरे हैं। 100 रेंटल और ये रेंटल पिछले 40 सालों से एक जैसा ही रहा। इसके बाद सरकार ने 116 करोड़ रुपये से कमरों का आधुनिकीकरण किया। टीटीडी के 50 रुपये के किराये के कमरे के लिए एक निजी होटल में 2,000 रुपये खर्च करने होंगे। गीजर, कमरे की सफाई और बिजली बिल का खर्च 250 रुपये होगा। लेकिन फिर भी आम श्रद्धालुओं को दिए जाने वाले कमरों का किराया नहीं बढ़ाया जाता है।

राष्ट्र को एक मजबूत संदेश देने जा रही है। जैसा कि बीआरएस 18 जनवरी को खम्मम में एक विशाल जनसभा आयोजित करने की योजना बना रहा है, मंत्री हरीश राव ने पार्टी नेताओं के साथ शुक्रवार को जिले में बैठक के लिए चल रही व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस मौके पर उन्होंने खम्मम के कुसुमांची में पार्टी नेताओं के साथ तैयारी बैठक की। पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए हरीश राव ने कहा कि देश भर के लोग अब विकास के तेलंगाना मॉडल के बारे में उत्सुकता से चर्चा कर रहे हैं और वे ऐसे समय में देश के लिए केसीआर नेतृत्व की जोरदार मांग कर रहे हैं, जब केंद्र की भाजपा सरकार देश सभी

मोर्चों पर विकास करने में विफल रही है। बैठक में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव समेत तीन मुख्यमंत्री पिनराई विजयन, अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान सहित कई अन्य राष्ट्रीय नेता शामिल होंगे और 18 जनवरी का दिन राष्ट्रीय राजनीति के इतिहास में रहेगा।

उन्होंने पार्टी नेताओं से प्रस्तावित बैठक के लिए बड़ी संख्या में लोगों को जुटाने और भारी भागीदारी के साथ इसे भव्य रूप से सफल बनाने के लिए कहा। खम्मम के सांसद नामा नागेश्वर राव, पूर्व मंत्री थुम्मला नागेश्वर राव और स्थानीय विधायक और अन्य नेता उपस्थित थे

गौ सेवा मित्र मण्डल
रिकावगंज, भाग्यनगर

के तत्वावधान में एवं श्री प्रभुदत्तजी महाराज के सान्निध्य में

मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में शिवरात्रि राखी और जंगल गोमाता की पुकार तेरफड़ा मुझे दो
गोमाता कवारी माताजी-बहनों ने पुकार डल जब का तेरफड़ा दो मुझे जगद्वर

श्री समर्थ कामधेनु गौशाला
जियागुड़ा, पुरानापुल, भाग्यनगर

श्री प्रभुदत्तजी महाराज
फोन : 9299356750, 7317113131

गौ सेवा मित्र मण्डल
मनोज कुमार
अरवाला
9299356750
8686954555 (G-pay)

मित्र मण्डल सदस्यता : अर्जित अजयन - 9246579702

ज्योत कोर
9866061810

रंजित अजयन
9489942311

रंजित अजयन
9676367156

रंजित अजयन
9989391402

सत्यनारायण गोपाल बल्लवा
विजय नगर में 2, बजारा डिपल, हैदराबाद, मोबाइल 9000306660

GOPAL BALDWA GROUP

ENSURE A SAFE & JAIL FREE SANKRANTI

The National Green Tribunal has ban on Chinese Manja and glass coated thread. Chinese Manja was declared on 13th Jan 2016.Under Section 5 of Environment Protection Act 1986 As per the Section 15 of the Act, any person found to be violating the rules is liable for imprisonment upto 5 years or Fine upto 1 Lakh Rupees or Both.

We request people to fly Kites in open grounds, avoid glass-coated strings, Please take initiative remove all waste Manjas & Kites in your Surroundings, Society, Terrace & Trees... Save a Bird's life...

Report birds found hanging from trees to the following helpline number

Mahesh Agarwal 93940 05600

Kamlekar Arvind 93905 49373

People For Animal 73374 50643

Dattatreya Joshi 94901 49601

Animal Warriors 96978 87888

Soudharm Bhandari 88867 43881

GHSPCA 93945 78568

Forest Department 18004255364

श्री मारु प्रजापति ट्रस्ट, हैदराबाद द्वारा

राजस्थान के सिरौही, राजपुरा स्थित श्रीपतिधाम नन्दनवन के संस्थापक परम श्रद्धेय संत श्री गोविन्द वल्लभदासजी महाराज के भाग्यनगर पधारने पर आयोजित

आज शनिवार 14 जनवरी 2023 सायं 4 से 8 बजे स्थान : श्रृंग ऋषि भवन (दालमण्डी), फीलखाना

इस अवसर पर सभी स्वजातीय कुम्हार-कुमावत-प्रजापति समाज बंधुगण पधारकर महाराजजी का आशीर्वाद प्राप्त करें।

आयोजक : समस्त कुम्हार-कुमावत-प्रजापति समाज, हैदराबाद (तेलंगाना)

सम्पर्क सूत्र : 9441731800, 9985311366, 9885538907, 8106413948